



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 15—अप्रैल 21, 2006 (चैत्र 25, 1928)

No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 15—APRIL 21, 2006 (CHAITRA 25, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

दिनांक, 15. फरवरी 2006

नई दिल्ली-110069, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. ए-19014/3/2000-प्रशा.1.--केन्द्र में अपनी विस्तारित प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी हो जाने पर श्री प्रवीण श्रीवास्तव आई एस एस (83) को संघ लोक सेवा आयोग में संयुक्त सचिव (निदेशक स्तर) के रूप में दिनांक 9 जनवरी, 2006 से कार्यभार से मुक्त किया जाता है।

2. श्री प्रवीण श्रीवास्तव को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.05.1987 के का. ज्ञा. सं. 27(38)ई.ओ./87(एस.एम.) की शर्तों के अनुसार दिनांक 9 जनवरी, 2006 से 8 मार्च, 2006 तक 59 दिनों का अर्जित अवकाश भी स्वीकृत किया जाता है।

3. अपने अवकाश की अवधि के समापन पर श्री प्रवीण श्रीवास्तव अपने मूल संवर्ग अर्थात् सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय को रिपोर्ट करेंगे।

एस. आनंदन
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-19014/15/2001-प्रशा.1.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.01.2006 के का. ज्ञा. सं. 4/13/2005 सी एस-1 के द्वारा चयन ग्रेड (उपसचिव), के.स.से. में नियुक्त किए जाने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के संवर्ग में नियतन किए जाने के परिणामस्वरूप, श्री धर्मपाल, के.स.से., संघ लोक सेवा आयोग में अवर सचिव के रूप में कार्यरत, को 15.02.2006 के पूर्वा. से आयोग के कार्यालय में उनको कार्यभार से मुक्त किया जाता है।

2. श्री धर्मपाल सतर्कता की दृष्टि से निर्बाध हैं।

एस. आनंदन
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 10 मार्च 2006

सं. ए-35017/5/2005-प्रशा.-II.--संघ लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग रक्षा

लेखा महानियंत्रक संवर्ग के संजय वर्मा, उपनियंत्रक कारखाना एवं लेखा को आयोग कार्यालय में रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 09.03.2006 से 08.03.2009 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, एतद् द्वारा बजट एवं वित्त अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपरोक्त बजट एवं वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्ति के दौरान श्री संजय वर्मा का वेतन का. ए. प्रशि. विभाग के समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 05.01.1994 के 2/29/91-स्था. (वेतन-II) के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

एस. आनंदन
अवर सचिव (प्रशा.)
कृते अध्यक्ष

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 मार्च 2006

सं. डीपी/पर्स-1/2006/00061/3/21/2004.--श्री डी. मुखर्जी, भा.पु. सेवा (तमिलनाडु: 1971), अपर निदेशक, के. अ. ब्यूरो की सेवाएं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में महानिदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति होने पर 03.03.2006 अपराह्न से गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सौंप दी गई है।

शचिन बैजल
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

सं. डीपी/पर्स-1/2006/00062/3/51/2002.--राष्ट्रपति ने श्री रजनी कान्त मिश्रा (उ.प्र.: 1984) को 22 मार्च, 2006 अपराह्न से 07.10.2009 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के रूप में नियुक्त किया है।

शचिन बैजल
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

सं. डीपी/पर्स-1/2006/00063/3/23/2000.--राष्ट्रपति ने श्री बी. बी. मिश्रा (एएम: 1983) को 22 मार्च, 2006 अपराह्न से 08.06.2007 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के रूप में नियुक्त किया है।

शचिन बैजल
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

दिनांक 30 मार्च 2006

सं. डीपी/पर्स-1/2006/00064/3/14/94/पर्स.1.--राष्ट्रपति ने श्री वी. एन. वर्मा, पुलिस उपाधीक्षक को 07.03.2006 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति पर 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में अपर पुलिस अधीक्षक, के.अ.ब्यूरो के ग्रेड में नियुक्त किया है।

शचिन बैजल
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

(पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 3 अप्रैल 2006

सं. 18/5/2003-प्रशा. II (खंड-II).--महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो निम्नलिखित अधिकारियों को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो संवर्ग के अधीन केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, चंडीगढ़ एवं हैदराबाद में वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में प्रत्येक के सामने दी गई तिथियों एवं अवधि से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करते हैं:--

क्रम. सं.	नाम तथा मूल विभाग	पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति		तैनाती का स्थान
		से	तक	
1.	श्री वी. एस. कंवर, एसीआईओ-आई/जी, आसूचना ब्यूरो, नई दिल्ली	02.01.2006	01.01.2009	केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, चंडीगढ़
2.	श्री सी. एस. शाहीद, एसीआईओ-आई/जी, आसूचना ब्यूरो, नई दिल्ली	10.01.2006	09.01.2009	केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, चंडीगढ़
3.	श्री रमेश चन्द्र, एसीआईओ-आई/जी, आसूचना ब्यूरो, नई दिल्ली	27.01.2006	26.01.2009	केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, चंडीगढ़
4.	श्री पी. जे. जार्ज, एसीआईओ-आई/जी, आसूचना ब्यूरो, नई दिल्ली	13.02.2006	12.02.2009	केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, हैदराबाद

अशोक कुमार सूद
सहायक निदेशक (प्रशा.)

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. ओ.दो. 3049/1992-कार्मिक-1.--श्री पी. के. सिंह, द्वि.क.अ. (इरला-3359) 54 बटालियन, के.रि.पु.बल, का सेवा से त्यागपत्र नोटिस दिनांक 25/11/2005 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार करने के फलस्वरूप उपरोक्त अधिकारी ने अपने पद से कार्यभार दिनांक 04.03.2006 (अपराह्न) में त्याग दिया है। अतः इनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 04.03.2006 (अपराह्न) से निकाला जाता है।

जे. एन. शर्मा
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

दिनांक 28 मार्च 2006

सं. ओ-दो-3685/06-सी.आर.सी.(चिकित्सा).--राष्ट्रपति जी, डॉक्टर थोकचम मोतीलाल सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 06.03.2006 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें 128 बटा. में तैनात किया जाता है।

जे. एन. शर्मा
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

सं. ओ-दो-3686/06-सी.आर.सी.(चिकित्सा).--राष्ट्रपति जी, डॉक्टर किशोरी लाल मीना को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 07.03.2006 (अपराह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें 168 बटा. में तैनात किया जाता है।

जे. एन. शर्मा
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

दिनांक 29 मार्च 2006

सं. ओ-दो-809/71-सी.आर.सी.(एमओ).--डॉक्टर दिपक मोहपात्रा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन.एफ.एस.जी*) (आईआरएलए-817) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, ने सेवा निवृत्त होने पर दिनांक 28.02.2006 (अपराह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 28.02.2006 (अपराह्न) से निकाला जाता है।

जे. एन. शर्मा
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-03, दिनांक 31 मार्च 2006

सं. ई-31013(2)/5/2004/कार्मिक-II/1024.--इस समय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत के.ओ.सुब के निम्नलिखित सहायक कमांडेंटों (कार्यपालक)

को उनके नामों के सामने दी गई तारीख से रुपये 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में के.ओ.सुब में उप कमांडेंट के रैंक में 'अगले निचले नियम' के अंतर्गत एतद्द्वारा प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है:--

क्र.सं. अधिकारी का नाम	प्रतिनियुक्ति	प्रोफार्मा पदोन्नति की तारीख
सर्वश्री		
1. कुमार प्रताप सिंह	एस. पी. जी	02.03.06 (पूर्वाह्न)
2. अपूर्व पाण्डे	एन. सी. बी.	02.03.06 (पूर्वाह्न)

हस्ता./अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

- प्रतिभूति कागज कारखाना

होशंगाबाद-461005, दिनांक 28 मार्च 2006

सं. 7(146)/11878.--श्री राम बदन राम, तकनीकी अधिकारी, उत्पादन ('ख' श्रेणी राजपत्रित) द्वारा दिया गया स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति संबंधित नोटिस दिनांकित 23.03.2006 एतद्द्वारा स्वीकार किया जाता है।

तदनुसार केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 48(ए) के प्रावधानों के तहत नोटिस अवधि में छूट देते हुए उन्हें दिनांक 01.04.2006 (पूर्वाह्न) से शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

बी. के. पाठक
महाप्रबंधक

लघु उद्योग मंत्रालय

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च 2006

सं. ए-19018/1705/2005-प्रशा. (राज.).--राष्ट्रपति श्री सुनील कुमार नेवाड़ को शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थान, तुरा अन्तर्गत लघु उद्योग विकास संगठन में सहायक निदेशक (ग्रेड-1) (वैद्युत) के पद पर दिनांक 03.02.2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

डी. के. गौतम
उप निदेशक (प्रशा.)

खान मंत्रालय

(भारतीय खान ब्यूरो)

नागपुर, दिनांक 29 मार्च 2006

सं. ए-19011/461/2006/स्था.ए.--श्री सी. एस. तिवारी, सहायक खनिज अर्थशास्त्री, (आसूचना) भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर को उप खनिज अर्थशास्त्री, (आसूचना) के पद पर दिनांक 16.03.2006 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति की जाती है।

एस. के. बातव
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानियंत्रक

सं. ए-19011/473/2006/स्था.ए.--श्री एम. एम. सोमण, सहायक खनिज अर्थशास्त्री, (आसूचना) भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर को उप खनिज अर्थशास्त्री, (आसूचना) के पद पर दिनांक 13.03.2006 (अपराह) से पदोन्नति की जाती है।

एस. के. बातव
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानियंत्रक

(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता-16, दिनांक 31 मार्च 2006

सं. 997सी/ए-32013/2-जी(आई.)(जे)/2000/19बी.--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर राष्ट्रपति जी निम्नलिखित सहायक भूभौतिकीविद् (उपकरण) श्रेणी-1, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की भूभौतिकीविद् (कनिष्ठ) (उपकरण) के पद पर पदोन्नति पर नियुक्ति इसी विभाग में रुपये 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर, स्थानापन्न रूप में प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथि से प्रभावित आगामी आदेशों तक अनुमोदित करते हैं:--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	भूभौतिकीविद् (कनिष्ठ) (उपकरण) के पद पर कार्यभार ग्रहण की तिथि
1.	श्री अमिताभ घोष	19.10.2005 (पूर्वाह)
2.	श्री कमल किशोर	18.10.2005 (अपराह)
3.	श्रीमती सुष्मिता दास	19.10.2005 (पूर्वाह)
4.	श्री अमिताभ दास	18.10.2005 (अपराह)
5.	श्री तपन मोनी बन्दोपाध्याय	18.10.2005 (पूर्वाह)
6.	श्री एन. जी. सरवाटे	18.10.2005 (अपराह)
7.	श्री उदय वीर सिंह	18.10.2005 (अपराह)
8.	श्री सब्यसाची पात्र	18.10.2005 (अपराह)

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानिदेशक

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 21 मार्च 2006

सं. 21/4/2001-प्र.II.--निदेशक, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय निम्न लेखाकारों की इस निदेशालय में उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीखों से नियमित आधार पर 6,500-200-10,500/- रु.

के वेतनमान में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्ति करते हैं:--

क्र. सं.	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	सहायक लेखा अधिकारी के रूप में नियमित नियुक्ति की तारीख
1.	श्री एस. के. गुप्ता	03.02.2006 (पूर्वाह)
2.	श्री दीवान चंद	03.02.2006 (पूर्वाह)

पी. एम. जौज
उप निदेशक (प्रशा.)

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, दिनांक 28 मार्च 2006

सं. ए-19025/60/80-प्रशा.1.--सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर, श्री ए. के. साबूई, विपणन अधिकारी (ग्रेड-III), विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता दिनांक 28 फरवरी, 2006 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

ए. के. चोपड़ा
अवर सचिव

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-85, दिनांक 24 मार्च 2006

सं. पीडी/11(1)/2006-आर-III/2006/2291.--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती एस कोमलावल्लि, सहायक, बीएआरसीएफ, कल्पकम को दिनांक 05.12.2005 (पूर्वाह) से 06.01.2006 (अपराह) तक रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 29 मार्च 2006

सं. पीडी/11(1)/2006-आर-III/2006/2400.--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री एस. एस. देवकर, प्रवर श्रेणी लिपिक, को दिनांक 30.01.2006 (पूर्वाह) से 10.03.2006 (अपराह) तक रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 30 मार्च 2006

सं. 6(2426)/2006-प्रशा./2521.--राष्ट्रपति, डा. जितेन्द्र कुमार को दिनांक 22 मार्च, 2006 के पूर्वाह्न से रु. 14,300-400-18,300/- के वेतनमान में भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग, सचिवालय, मुंबई में विधि सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

डा. कुमार दिनांक 22 मार्च 2006 से एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

पी. पी. माधवनकुट्टी
अवर सचिव (प्रशा.)

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर, दिनांक 24 मार्च 2006

सं. राराप्रगौके/प्रशा./भ-728(एसआरडी)/209.--भारत के राष्ट्रपति ने श्री जुगराज मीणा को दिनांक 17.03.2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/सी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है।

डी. एस. राव
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड

नवी मुंबई-400705, दिनांक 24 मार्च 2006

सं. ब्रिट/9/17 अगस्त/05/15.--महामहिम राष्ट्रपति जी, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'डी' के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/अभियंताओं को दिनांक 1 अगस्त, 2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपये 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'ई' के रूप में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	नाम
1.	श्री एम. एस. पडते
2.	श्री जी. प्रभाकर
3.	श्री एम. के. मामाचन
4.	श्री अमित श्रीवास्तव

ए. के. कोहली
मुख्य कार्यकारी

10,000-325-15,200/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'डी' के रूप में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	नाम
1.	श्री राजेश कुमार
2.	श्री कुलदीप कुमार शर्मा
3.	श्री चेतन कोथलकर
4.	श्री अनुपम माथुर

ए. के. कोहली
मुख्य कार्यकारी

सं. ब्रिट/9/17 अगस्त/05/17.--महामहिम राष्ट्रपति जी, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'सी' के वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता श्री रेपाका कृष्णमोहन को दिनांक 3 अगस्त, 2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपये 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'डी' के रूप में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

ए. के. कोहली
मुख्य कार्यकारी

सं. ब्रिट/9/17 अगस्त/05/18.--महामहिम राष्ट्रपति जी, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'एसबी' के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/अभियंताओं को दिनांक 1 अगस्त, 2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपये 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'सी' के रूप में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	नाम
1.	श्री वी. टी. पी. विनोद
2.	श्री एम. बोस

ए. के. कोहली
मुख्य कार्यकारी

महानिदेशक, नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-3, दिनांक 29 मार्च 2006

सं. ए-19011/6/90-स्था.2.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कैप्टन आर. एल. ब्याला, नागर विमानन उपमहानिदेशक को दिनांक 31.03.2006 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त किया जाता है।

चानन राम
उपनिदेशक, प्रशासन

आयकर अपीलीय अधिकरण

मुंबई-400020, दिनांक 23 मार्च 2006

सं. एफ.301-एडी(एटी)/2005.--श्रीमती गीथा जयकुमार, निजी सचिव, आसूचना निदेशालय, रक्षा मंत्रालय, एअर मुख्यालय (वायु भवन), नई दिल्ली को कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/29/91-स्था.(वेतन-II),

सं. ब्रिट/9/17 अगस्त/05/16.--महामहिम राष्ट्रपति जी, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'सी' के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/अभियंताओं को दिनांक 1 अगस्त, 2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपये

दिनांक 05.01.1994 में निहित तथा समय-समय पर यथासंशोधित, प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर, प्रतिनियुक्ति आधार पर, आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई पीठें, मुंबई मुख्यालय चैन्नई में रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में, दिनांक 19.09.2005 (पूर्वाह) से तीन वर्ष की अवधि के लिए, स्थानापन्न रूप में, निजी सचिव के पद पर, नियुक्त किया जाता है।

विमल गांधी
अध्यक्ष

सं. एफ.48-एडी(एटी)/2006.--श्री के. एन. गोपालन, मुख्य लिपिक, आयकर अपीलीय अधिकरण, चैन्नई पीठें, चैन्नई को तदर्थ आधार पर, पूर्णतः अस्थायी क्षमता में, दिनांक 13 मार्च, 2006 पूर्वाह्न से छः माह की अवधि के लिए, अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में, आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई पीठें, मुंबई में, स्थानापन्न रूप में, सहायक पंजीकार के पद पर नियुक्त किया जाता है।

उपर्युक्त नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और ये उन्हें उस श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी और तदर्थ आधार पर उनके द्वारा प्रदत्त सेवाएं वरिष्ठता के अभिप्राय से या उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति की पात्रता के लिए नहीं गिनी जाएंगी।

विमल गांधी
अध्यक्ष

सं. एफ.48-एडी(एटी)/2006.--श्री आर. कालियापेरुमल, सहायक पंजीकार, आयकर अपीलीय अधिकरण, चैन्नई पीठें, चैन्नई निवर्तन की आयु प्राप्त होने पर, दिनांक 28 फरवरी, 2006 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो गये।

विमल गांधी
अध्यक्ष

कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा धारा 560 के अधीन सरलीकृत निकास योजना-2005 के अन्तर्गत आवेदन और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में:--

जालन्धर, दिनांक 2006

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	429	मैसर्स नार्थ इंडिया सतसंग स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	11772	मैसर्स मेडिनी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
3.	2582	मैसर्स रमनजीव फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
4.	4968	मैसर्स सचदेवा एण्ड सन्स स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
5.	11203	मैसर्स गगन कॉटन ऑयल एण्ड जनरल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
6.	14139	मैसर्स सुनाम एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
7.	10876	मैसर्स मैडिनी एन्टरटेन्मेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
8.	3042	मैसर्स यूनिवर्सल स्क्रू फैक्टरी प्राइवेट लिमिटेड
9.	25860	मैसर्स स्पैक्ट्रम मार्ट प्राइवेट लिमिटेड
10.	27210	मैसर्स हाई-टेक एडवर्टाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
11.	17183	मैसर्स एस. आर. वायर्स प्राइवेट लिमिटेड
12.	17735	मैसर्स जे. आई. बी. बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
13.	17056	मैसर्स दशमेश अल्ट्रा साउंड स्कैन रिसर्च एण्ड डायग्नोस्टिक्स सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड
14.	6224	मैसर्स जे. के. फीड मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
15.	8707	मैसर्स शार्प फोर्जिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
16.	27105	मैसर्स नौथलैंड पब्लिसिटी प्राइवेट लिमिटेड
17.	7641	मैसर्स बडालिया फूड एण्ड फीड प्राइवेट लिमिटेड
18.	22390	मैसर्स होलिडेय मोटेल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
19.	20614	मैसर्स सायरा रिसोर्ट्स एण्ड कोन्डोमिनियस प्राइवेट लिमिटेड
20.	22655	मैसर्स शिवा वेल्ड मेष प्राइवेट लिमिटेड
21.	8867	मैसर्स नार्दर्न इण्डिया स्ट्रेसर्स प्राइवेट लिमिटेड
22.	18393	मैसर्स खजानेवाला बिल्डर्स एण्ड कोलोनाईजर्स प्राइवेट लिमिटेड
23.	22267	मैसर्स कैरो कार फाईनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
24.	17018	मैसर्स के. एण्ड के. ट्रान्सफार्मर्स प्राइवेट लिमिटेड
25.	15906	मैसर्स एन. एच. स्पिनिंग एण्ड वीविंग प्राइवेट लिमिटेड
26.	16100	मैसर्स बेयन्स फाईनेन्शियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
27.	19860	मैसर्स एन. बी. एण्ड एन. आर. रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
28.	17823	मैसर्स भारत कारगो लिमिटेड
29.	22618	मैसर्स बेन्जर कोर्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
30.	14036	मैसर्स हरमिन्द्रा इन्जीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
31.	12041	मैसर्स सन टेक्सटाईल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
32.	13989	मैसर्स लोटस फाईनेन्शियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
33.	22693	मैसर्स आशा फैशन वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड
34.	20333	मैसर्स बेक फ्रेश फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
35.	9575	मैसर्स एम. एम. के. कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
36.	461	मैसर्स एस. बी. सपूर्ण सिंह चावला एण्ड सन्स प्राइवेट लिमिटेड
37.	5549	मैसर्स मनु ट्रेडिंग एण्ड फाईनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
38.	24275	मैसर्स मिलेनियम ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड
39.	4804	मैसर्स बी. एस. सैरामिक्स एण्ड जनरल इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
40.	8169	मैसर्स दीपाली ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड
41.	13334	मैसर्स रिलायंस मालिबल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
42.	27081	मैसर्स डॉ. मेहता प्रोडक्ट्स लिमिटेड
43.	26166	मैसर्स हजल सिक्वोरिटीज प्राइवेट लिमिटेड

मनमोहन जुनेजा
कम्पनी पंजीकार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एण्ड चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गिरी लाईम एण्ड कैमिकल प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर, दिनांक 22 मार्च 2006

सं. आर.ओ.सी./560(3)/13455/10336—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गिरी लाईम एण्ड कैमिकल प्राइवेट लिमिटेड का नाम इन के प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

मनमोहन जुनेजा
कम्पनी पंजीकार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एण्ड चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रेम चन्द और रोलर फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर, दिनांक 22 मार्च 2006

सं. आर.ओ.सी./560(3)/21258/10333—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्रेम चन्द और रोलर फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इन के प्रतिकूल कारण

दर्शित न किया गया तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

मनमोहन जुनेजा
कम्पनी पंजीकार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एण्ड चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स देवत्रुषि एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 28 मार्च 2006

सं. एल.सी./560(3)/22361/5641—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना की जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स देवत्रुषि एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्पार्क सिक्वोरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 28 मार्च 2006

सं. एल.सी./560(3)/17051/5645—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना की जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स स्पार्क सिक्वोरिटीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एम. सी. बी. मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 28 मार्च 2006

सं. एल.सी./560(3)/25667/5650—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना की जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स एम. सी. बी. मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मयूर एनीमल फीड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 29 मार्च 2006

सं. एल.सी./560(3)/9016/5710--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स मयूर एनीमल फीड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विजयंकर राइस मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 29 मार्च 2006

सं. एल.सी./560(3)/1657/5712--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स विजयंकर राइस मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजन्ध्र मोटर फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 29 मार्च 2006

सं. एल.सी./560(3)/20695/5718--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स राजन्ध्र मोटर फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजनन्दनी एग्रो फूड प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2006

सं. आर.ओ.सी./560/16441/360--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसारण में एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स राजनन्दनी एग्रो फूड प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित

नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गिरधर हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 24 मार्च 2006

सं. आर.ओ.सी./560/19225/364--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसारण में एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स गिरधर हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम, इसके प्रतिकूल कोई कारण दर्शित नहीं किए गये तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आई टी आर सोल्युसन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 24 मार्च 2006

सं. आर.ओ.सी./560/16990/368--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसारण में एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स आई टी आर सोल्युसन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 24 मार्च 2006

सं. 560(5)/2003--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	94966	मैसर्स जी. नितिन जेम एण्ड एक्सपोर्ट्स कम्पनी लिमिटेड
2.	131235	मैसर्स एडन ब्रोकर्स एण्ड कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
3.	92745	मैसर्स नकोडा प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड
4.	82464	मैसर्स अमदीनी फाइनेन्स एण्ड सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
5.	56582	मैसर्स सरिता होटेल्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	108376	मैसर्स सरिता ग्रीन्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	76146	मैसर्स मिड वेस्ट कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	93647	मैसर्स मिड वेस्ट कॉरपोरेट सर्विसेस लिमिटेड
9.	63284	मैसर्स स्वीफ्ट कम्प्यूटर्स एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
10.	124811	मैसर्स जीओ मेट्रिक इनफोवे प्राईवेट लिमिटेड
11.	124252	मैसर्स एमटी सोर्स टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
12.	73702	मैसर्स फॉरच्युन इन्व्हेस्टमेंट्स ब्रोकर्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	82884	मैसर्स यूरोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड
14.	126965	मैसर्स यूरोसॉफ्ट इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
15.	83141	मैसर्स बरखा ब्रेवरीज प्राईवेट लिमिटेड
16.	74594	मैसर्स बरखा टूर एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	98909	मैसर्स दिव्या दीप क्रेडिट लिजिंग एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	100289	मैसर्स गार्ड क्रेडिट लिजिंग एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	80171	मैसर्स धर्मेस फाइनेन्स (बॉम्बे) प्राईवेट लिमिटेड
20.	69042	मैसर्स सिद्धि मेटल एण्ड टिन कन्टेनर्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	67183	मैसर्स सावलिया एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	130375	मैसर्स जम्पस्टार्ट इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
23.	97313	मैसर्स अर्फा एग्रो इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
24.	121487	मैसर्स लॉ जोला इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	121343	मैसर्स लेंहर सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
26.	64812	मैसर्स एआरके शिप कन्सलटेंसी प्राईवेट लिमिटेड
27.	95902	मैसर्स एम्पायर शिपिंग लिमिटेड
28.	118426	मैसर्स सुरजतारा होलिंग एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
29.	103317	मैसर्स एप्रिकोट इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
30.	77082	मैसर्स सावलिया बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	84803	मैसर्स होरीजेन एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	69711	मैसर्स गोरादिया होरटीकल्चरिस्ट प्राईवेट लिमिटेड
33.	69723	मैसर्स रायगढ़ सीमेंट प्राईवेट लिमिटेड
34.	83983	मैसर्स बागेशरी फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	73238	मैसर्स यूटीसी केरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	119272	मैसर्स ग्राफीकेंसी जसरा (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
37.	99671	मैसर्स चोकसी मरकंटाइल कं. प्राईवेट लिमिटेड
38.	126899	मैसर्स सॉफ्टवेयर इनफोटेक (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
39.	86355	मैसर्स अमातुरे बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	90395	मैसर्स श्रीजी फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
41.	62701	मैसर्स जावेद सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	91667	मैसर्स मेगा स्पीड लाईनर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
43.	57466	मैसर्स अरुण गल्बनाईजर्स एण्ड फेब्रीकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	99960	मैसर्स प्रकाश फाउंडेशन प्राईवेट लिमिटेड
45.	56657	मैसर्स तुलसी श्याम प्रोपर्टी प्राईवेट लिमिटेड
46.	96070	मैसर्स जेड कन्ट्रोलस प्राईवेट लिमिटेड
47.	56656	मैसर्स केसर निवास प्रोपर्टी प्राईवेट लिमिटेड
48.	69418	मैसर्स फायरफ्लाय लेजर सिस्टमस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
49.	73746	मैसर्स गोंदवाना मिनरल प्रोडक्ट्स लिमिटेड
50.	111709	मैसर्स स्ट्रेटीजी इन्जींस कन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
51.	124969	मैसर्स क्रुन्स सोफटेक प्राईवेट लिमिटेड
52.	124970	मैसर्स इन्फोविजन टेक्नोलॉजीज एण्ड सर्विसेस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
53.	73757	मैसर्स श्रृष्टी प्लानेशन प्राईवेट लिमिटेड
54.	95679	मैसर्स विधि फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
55.	110379	मैसर्स अरिहन्त वेल्डफेब प्राईवेट लिमिटेड
56.	129555	मैसर्स ऐंजल सुन्दरनाथजी इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
57.	99420	मैसर्स लान स्टार प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	83.	77658	मैसर्स मनसुखलाल सनफक्स प्राईवेट लिमिटेड
58.	55817	मैसर्स लावेदा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	84.	118194	मैसर्स विजीस रंच प्राईवेट लिमिटेड
59.	98305	मैसर्स सोलिड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	85.	107537	मैसर्स मालकोवनस लैंड डिवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
60.	80407	मैसर्स कृष्णा रायटिंग इन्स्ट्रुमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	86.	104004	मैसर्स अंतरिक्ष कंसलटेंसी प्राईवेट लिमिटेड
61.	123179	मैसर्स ग्रीन अरोमास प्राईवेट लिमिटेड	87.	81550	मैसर्स आदिनाथ इंजिनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
62.	106466	मैसर्स लिंक टेली इमेज लिमिटेड	88.	81549	मैसर्स आराम टेक्स मैनुफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड
63.	72733	मैसर्स आभा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	89.	89210	मैसर्स एनजी लेन टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
64.	66121	मैसर्स पिरामिड मार्केटिंग सिंडीकेट प्राईवेट लिमिटेड	90.	93007	मैसर्स ए एस सी मोबाईल कॉम्युनिकेशन लिमिटेड
65.	139434	मैसर्स सूर्यशक्ति सोलर टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड	91.	65377	मैसर्स सूना केबल्स प्राईवेट लिमिटेड
66.	128922	मैसर्स फिनेरी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	92.	77198	मैसर्स नुवेल इलैक्ट्रो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
67.	105583	मैसर्स राधाकृष्णा डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्राईवेट लिमिटेड	93.	110620	मैसर्स जाहिर शेकलस एण्ड गिप्स प्राईवेट लिमिटेड
68.	96765	मैसर्स रशी इक्वीफर्न प्राईवेट लिमिटेड	94.	121520	मैसर्स पुर्नविने फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
69.	123599	मैसर्स भिष्मार्जुन जनरल ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	95.	88849	मैसर्स बबले कंट्रोल सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
70.	124909	मैसर्स जुवेना इन्वेस्ट ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड	96.	94111	मैसर्स रोडने सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
71.	124906	मैसर्स एविन इन्वेस्ट ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड	97.	82005	मैसर्स पमट्रोनिक्स मेडिकल इक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
72.	124960	मैसर्स सुबिन सेक्युरिनिवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड	98.	132768	मैसर्स सिल्वर नेटवर्क एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
73.	124919	मैसर्स डाअस्टर सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड	99.	68635	मैसर्स इनटेक फाईनेन्सियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
74.	130024	मैसर्स ट्रम्फ ऑनलाईन ब्रोकिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	100.	60021	मैसर्स मूवीलैंड विडियो (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
75.	62265	मैसर्स अरिहन्त पेपर एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड	101.	119490	मैसर्स हेनल इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
76.	120108	मैसर्स कनक धारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	102.	114056	मैसर्स कार्ड कम्प्यूटर एज सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड
77.	100272	मैसर्स साउंड ट्रेडिंग एण्ड फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन (बॉम्बे) प्राईवेट लिमिटेड	103.	101914	मैसर्स तराना ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
78.	81109	मैसर्स ऑटो एण्ड इंडस्ट्रीयल बियरिंग्स सेल प्राईवेट लिमिटेड	104.	127954	मैसर्स टेली विडियो नेटवर्क इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
79.	96442	मैसर्स पुलकित एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	105.	99511	मैसर्स इंदूसिंध मीडिया मार्केटिंग एण्ड एडवर्टाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड
80.	62554	मैसर्स मिल्वा इन्वेस्टमेंट एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड	106.	95731	मैसर्स डायमंड केटरर्स प्राईवेट लिमिटेड
81.	103139	मैसर्स लक्ष्मी बोबिन्स प्राईवेट लिमिटेड	107.	90515	मैसर्स मुनी फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
82.	83820	मैसर्स डोसानी इन्वेस्टमेंट एण्ड फाईनेन्सियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	108.	75762	मैसर्स प्रथम फाईनेन्स एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
109.	119749	मैसर्स सीमनधर होल्डिंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	135.	59537	मैसर्स सिंडेले एग्रो फार्म प्राईवेट लिमिटेड
110.	75379	मैसर्स कैप्टन सिक्युरिटीज एण्ड होल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड	136.	98163	मैसर्स जैमिनी स्टुडियोज प्राईवेट लिमिटेड
111.	134493	मैसर्स गायरो इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	137.	99458	मैसर्स जैमिनी विजन प्राईवेट लिमिटेड
112.	103482	मैसर्स हेन्डरसन गंधे आर्किटेक्ट प्राईवेट लिमिटेड	138.	82949	मैसर्स मलिकस एक्सेसरिज प्राईवेट लिमिटेड
113.	124640	मैसर्स डाटा-रे कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	139.	83201	मैसर्स काथावाला लिजिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
114.	71530	मैसर्स प्रोम्प्ट ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड	140.	103471	मैसर्स शीलड ओरोल्युक्स प्राईवेट लिमिटेड
115.	76595	मैसर्स क्षिप्रा कन्सलटेंसी प्राईवेट लिमिटेड	141.	106612	मैसर्स शांतिवन इनफिन प्राईवेट लिमिटेड
116.	103627	मैसर्स पंपा फिन एण्ड फोरेक्स प्राईवेट लिमिटेड	142.	85199	मैसर्स सोविन फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
117.	96544	मैसर्स सुपूजा सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड	143.	72009	मैसर्स मांनटे रिसोर्सिंग एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
118.	62764	मैसर्स कमलदीप एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	144.	83382	मैसर्स एम. एम. पूज्याजी फूड्स लिमिटेड
119.	130766	मैसर्स वेगा कन्सल्टिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	145.	82233	मैसर्स सिंघानिया कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
120.	68175	मैसर्स खेतान सोलवेन्ट एण्ड रिफाइनरी लिमिटेड	146.	85496	मैसर्स रामबैलेस ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
121.	95958	मैसर्स दर्शन शिपिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड	147.	92217	मैसर्स रामबलेस सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
122.	73291	मैसर्स मॉर्डन कैपिटल एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड	148.	125036	मैसर्स बी कनेक्ट बी वर्ल्ड वाईज लिमिटेड बी 2916
123.	86003	मैसर्स कौडिया इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड	149.	67779	मैसर्स सेन्टीनेल फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
124.	73503	मैसर्स इन्वीटेशन ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	150.	114491	मैसर्स पेकमरीन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
125.	117598	मैसर्स सुरूची पिक्कल्स एण्ड फूड प्राईवेट लिमिटेड	151.	127737	मैसर्स एन बी ओ लोजिस्टिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
126.	55158	मैसर्स पुज्य फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड	152.	124528	मैसर्स कृति कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
127.	58091	मैसर्स कृष्णा शेयर टेक सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	153.	73427	मैसर्स प्रियंका रिमेडीज प्राईवेट लिमिटेड
128.	127799	मैसर्स रिमोटबाजार कोम (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	154.	129289	मैसर्स केलिफोर्निया सिस्टमस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
129.	76865	मैसर्स सुनासी इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड	155.	91734	मैसर्स दमियन क्रेडिट कैपिटलस प्राईवेट लिमिटेड
130.	120733	मैसर्स सरला सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड	156.	107541	मैसर्स आर. बी. ए. कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
131.	93499	मैसर्स सारस कार्पोरेट सर्विसेस लिमिटेड	157.	97443	मैसर्स पुरुस्कृति फिनकैप प्राईवेट लिमिटेड
132.	118371	मैसर्स आदिमन फाईनेन्सियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	158.	76463	मैसर्स लोजीकोन इलैक्ट्रॉनिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
133.	115901	मैसर्स शुभांगन फाईनेन्सियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	159.	55758	मैसर्स अम्मा लाईन्स कैपिटल ट्रस्ट प्राईवेट लिमिटेड
134.	119878	मैसर्स ग्रीन चैनल फिस्कल सर्विसेस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3
160.	62328	मैसर्स केब एडवर्टाईजिंग इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
161.	69798	मैसर्स व्यु प्वाइंट इंजीनियरिंग कन्सलटेंसी प्राईवेट लिमिटेड
162.	65481	मैसर्स काईट ओवरसीस प्राईवेट लिमिटेड
163.	69821	मैसर्स विक्टरी इन्वेस्टमेंट कन्सलटेंट प्राईवेट लिमिटेड
164.	69801	मैसर्स एक्सीन डायमण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
165.	111387	मैसर्स सेवन स्टार सेटेलॉइट नेटवर्क लिमिटेड
166.	68659	मैसर्स फुडको कंटेनर्स इण्डिया लिमिटेड
167.	83290	मैसर्स पॉल इण्डिया शिपिंग एजेंसी प्राईवेट लिमिटेड
168.	113355	मैसर्स सिन्थेसीस एडवाइजरी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
169.	101336	मैसर्स चिरकाल फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
170.	109486	मैसर्स आशा लक्ष्मी मर्केंटाईल प्राईवेट लिमिटेड
171.	101743	मैसर्स बोअर इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
172.	104881	मैसर्स बेनीन प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
173.	86938	मैसर्स के. पी. ऑयलफील्ड इंजीनियर्स एण्ड कन्सल्टेंस प्राईवेट लिमिटेड
174.	55219	मैसर्स जसाई कन्टेनर्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
175.	103591	मैसर्स गोल्ड कन्सेप्ट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
176.	59055	मैसर्स बाफना बिल्डर प्राईवेट लिमिटेड
177.	104190	मैसर्स सृष्टि लीजिंग एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
178.	82620	मैसर्स जय मंगल सिक्कुरिटीज एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
179.	109954	मैसर्स सोपुरा इकोनोमी हाईजीन प्राईवेट लिमिटेड
180.	105880	मैसर्स टेक्नो-फूड इंजीनियरिंग (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
181.	73207	मैसर्स श्रीफेब सिनटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
182.	64758	मैसर्स सैनचूरी सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
183.	101730	मैसर्स चैम्पियन पेपर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
184.	99924	मैसर्स चैम्पियन कैपिटल मैनेजमेंट एण्ड फाईनेन्स लिमिटेड
185.	86422	मैसर्स रूशंग कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
186.	88864	मैसर्स रिक्वेरिया प्रोपर्टीज एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
187.	86421	मैसर्स रश बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
188.	99990	मैसर्स चामुंडा इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
189.	127246	मैसर्स तिरुपति आईस कोम लिमिटेड
190.	75689	मैसर्स होस्पीकेयर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
191.	88232	मैसर्स अनमोल प्राईमा कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड
192.	89076	मैसर्स अपबीट सिक्कुरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
193.	95717	मैसर्स पारडीगम पोर्टफोलियो प्राईवेट लिमिटेड
194.	73047	मैसर्स कोसेप्ट एन्टरप्राइसेस प्राईवेट लिमिटेड
195.	121598	मैसर्स म्कोय एल्युमेयर (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
196.	130199	मैसर्स महाराष्ट्र टेलिब्रिड्स प्राईवेट लिमिटेड
197.	58287	मैसर्स रेनबो बॉलपैन्स प्राईवेट लिमिटेड
198.	55161	मैसर्स शांतिनाथ इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
199.	56158	मैसर्स बरॉर सन्स फिनस्टोक प्राईवेट लिमिटेड
200.	121430	मैसर्स कच्छ कन्टेनर टर्मिनल प्राईवेट लिमिटेड
201.	107654	मैसर्स कुंजवन ट्रेड-इन्वेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
202.	68516	मैसर्स नगोया इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
203.	62512	मैसर्स इंगल वैल्यूलाइन फर्निचर लिमिटेड
204.	129524	मैसर्स डोक्युआन लाईन डोट कोम (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
205.	73836	मैसर्स संदेश सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
206.	95720	मैसर्स एवीड इन्वेस्टमेंट एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
207.	106129	मैसर्स लिपिनी ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
208.	116786	मैसर्स शिनाई बोलक ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
209.	75775	मैसर्स जोर्ड फाईनेन्स लिमिटेड
210.	79148	मैसर्स लियोराज ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
211.	91884	मैसर्स कोमिक इंक एण्ड वार्निश प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
212.	103982	मैसर्स सोलिड प्लांटेशन प्राईवेट लिमिटेड	237.	111667	मैसर्स गेमकॉम आटोमेशन प्राईवेट लिमिटेड
213.	83839	मैसर्स फ्रेंच फैशन प्राईवेट लिमिटेड	238.	98139	मैसर्स पॉवर इन्स्ट्रुमेंट्स एण्ड मार्केटिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
214.	74667	मैसर्स ईस्टेको फिल्मस् प्राईवेट लिमिटेड	239.	102359	मैसर्स स्पीडमैन कार्गो सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
215.	124149	मैसर्स रीयल ट्रांसफार्मर यूनिट प्राईवेट लिमिटेड	240.	112121	मैसर्स पी. एम. स्टोक ब्रोकिंग प्राईवेट लिमिटेड
216.	89650	मैसर्स फैथ कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड	241.	91465	मैसर्स मन्दला एग्रो-कॉम प्राईवेट लिमिटेड
217.	93224	मैसर्स जूही चावला प्रोडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	242.	91463	मैसर्स स्मृति फिन-केप प्राईवेट लिमिटेड
218.	80083	मैसर्स बर्नेट इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड	243.	87373	मैसर्स टनदुम पोलीब्लेन्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
219.	83838	मैसर्स न्युमेरो युनो फैशन्स प्राईवेट लिमिटेड	244.	61308	मैसर्स सीवा ओवरसीस प्राईवेट लिमिटेड
220.	128171	मैसर्स गरिमा इन्फोटेक लिमिटेड	245.	77682	मैसर्स उवशी ओवरसीस प्राईवेट लिमिटेड
221.	86392	मैसर्स तारामती रमनलाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड	246.	128455	मैसर्स सन्तोष शेयर एण्ड ब्रोकर्स प्राईवेट लिमिटेड
222.	129481	मैसर्स ऑरबीट लाईटिंग टावर्स प्राईवेट लिमिटेड	247.	124335	मैसर्स मैक्सग्रो कोम (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
223.	119548	मैसर्स इन्फोर्मड हेल्थ केयर (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	248.	115691	मैसर्स छबलदास एण्ड सन्स (होटल्स) प्राईवेट लिमिटेड
224.	62292	मैसर्स कोरोनेट मशीन टूल्स एण्ड एक्सेसरीज प्राईवेट लिमिटेड	249.	67531	मैसर्स एसोसिएटेड कैपिटल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
225.	110189	मैसर्स ग्लेन एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	250.	123162	मैसर्स वार्निक कान्सेप्ट्स कोम प्राईवेट लिमिटेड
226.	62561	मैसर्स संयोग फिस्कल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	251.	75168	मैसर्स एसेल रीयलटर्स (न्यू बॉम्बे) प्राईवेट लिमिटेड
227.	132268	मैसर्स श्री पंचम बिल्डर्स एण्ड डेव्लपर्स प्राईवेट लिमिटेड	252.	97197	मैसर्स त्रिवेदी शेयर एण्ड स्टोक ब्रोकर्स प्राईवेट लिमिटेड
228.	59442	मैसर्स हीरा लक्ष्मी इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	253.	83819	मैसर्स ईशा फाइनेन्सियल कन्सलटेंसी प्राईवेट लिमिटेड
229.	71542	मैसर्स सुभंगल जेम्स एण्ड जवैलरी एक्सपोर्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	254.	65373	मैसर्स श्रीशैल होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
230.	71466	मैसर्स मधुकर सेठ ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	255.	126716	मैसर्स श्रीधन बेब सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
231.	101534	मैसर्स टूल्स विडियो फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड	256.	93698	मैसर्स अम्बिका पॉलीकोटस्पीन प्राईवेट लिमिटेड
232.	114928	मैसर्स एल एम जेड टर्बो जेनरेटर्स प्राईवेट लिमिटेड	257.	112372	मैसर्स लोहिया टेक्सटाइल्स मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड
233.	105332	मैसर्स गंगा अमृत फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	258.	77413	मैसर्स सुलभा कन्सलटेंट प्राईवेट लिमिटेड
234.	83219	मैसर्स कुबेर टवेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी एड्स प्राईवेट लिमिटेड	259.	128564	मैसर्स वेलटैकस कौबल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
235.	59076	मैसर्स प्रलेम इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	260.	104329	मैसर्स किंजल होम एप्लायन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
236.	114008	मैसर्स सांघी इकवीपमेंट एण्ड मशीनरीस प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
261.	103574	मैसर्स काजल होम एप्लायन्सीज प्राईवेट लिमिटेड	288.	65379	मैसर्स न्यु फेडरल इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
262.	57340	मैसर्स अस्मिता गारमेन्ट्स एक्सपोर्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	289.	12252	मैसर्स सिन्टेक्स मशीन कं. लिमिटेड
263.	109925	मैसर्स कारपोल डेवलेपर्स प्राईवेट लिमिटेड	290.	42586	मैसर्स साउथ नोर्थ इन्वेस्टमेंट एण्ड लिजिंग प्राईवेट लिमिटेड
264.	85247	मैसर्स अडिनो ट्रंक लिंकस प्राईवेट लिमिटेड	291.	19232	मैसर्स बी. पी. म्युजिकल एन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
265.	106585	मैसर्स ब्रोड-विजन फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड	292.	97866	मैसर्स जी. पी. मेनेजमेंट कन्सलटेंसी प्राईवेट लिमिटेड
266.	81481	मैसर्स अर्थ सेन्स प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	293.	16880	मैसर्स सिल्वर एस्टेट एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
267.	64766	मैसर्स तलिस्मान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	294.	41785	मैसर्स भतसा वैली हील्स रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
268.	79095	मैसर्स गोकुल इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	295.	34872	मैसर्स स्टेपेन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
269.	70346	मैसर्स गंगाबाग प्लांटेशन एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	296.	24541	मैसर्स गीता आर्टो एण्ड एग्री इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
270.	78431	मैसर्स नॉद एक्सपोर्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	297.	22171	मैसर्स लोहरी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
271.	98691	मैसर्स टेकियो हाऊसिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	298.	99231	मैसर्स आर्टो कैमिकल्स एण्ड कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
272.	67825	मैसर्स पिन्नाकल फाईनेन्सियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	299.	12483	मैसर्स पुष्पा पिक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
273.	73025	मैसर्स ओमवीय गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	300.	18629	मैसर्स हेन्सी डिटरजेंट्स एण्ड कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
274.	109608	मैसर्स मस्टबीन एक्सपोर्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	301.	47765	मैसर्स बॉडी गार्ड गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
275.	87457	मैसर्स एस्टोर शिपिंग कं. लिमिटेड	302.	33366	मैसर्स सबलाईन होलिंग प्राईवेट लिमिटेड
276.	105467	मैसर्स प्रियकर्मा इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	303.	19093	मैसर्स एन्जल पोलीपैक प्राईवेट लिमिटेड
277.	120595	मैसर्स साटिन कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	304.	15251	मैसर्स सुमंगल इलैक्ट्रो मैकेनिकल इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
278.	100900	मैसर्स एस्ट्रो इन्स्ट्रुमेंटेशन प्राईवेट लिमिटेड	305.	34911	मैसर्स फिल्म सैट डेकोरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया
279.	32830	मैसर्स योहान ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड	306.	52396	मैसर्स कोश्यनगर हाऊसिंग स्कीम प्राईवेट लिमिटेड
280.	33014	मैसर्स वैस्टर्न इण्डिया स्पोन्ज आयरन प्राईवेट लिमिटेड	307.	37381	मैसर्स स्टोक एक्सचेंज मेन्टीनेन्स एण्ड सर्विसेस (बोम्बे) प्राईवेट लिमिटेड
281.	48079	मैसर्स एटीक सन्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	308.	34159	मैसर्स श्री राजा राजेश्वरी इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
282.	26927	मैसर्स मनप्रिया कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	309.	27912	मैसर्स ड्रग्स इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
283.	51617	मैसर्स हरीश होलिंग एण्ड एक्सपोर्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	310.	47800	मैसर्स आकांक्षा टेलिकम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
284.	16216	मैसर्स स्कानिया इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड			
285.	21101	मैसर्स मिनीकोम डाय प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड			
286.	24991	मैसर्स वापी गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड			
287.	24978	मैसर्स हरिया स्टीम शिप प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
311.	19225	मैसर्स इम्पेक्ट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	335.	21448	मैसर्स रॉयल फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
312.	51871	मैसर्स ट्रॉन्सटेक सर्विसेस (बोम्बे) प्राईवेट लिमिटेड	336.	85965	मैसर्स कालका मैटल्स ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
313.	50495	मैसर्स सोनिक आयल फील्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	337.	118632	मैसर्स ओमेगा इन्फोसिस प्राईवेट लिमिटेड
314.	43155	मैसर्स कपाडी इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	338.	53956	मैसर्स लक्कर इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
315.	34777	मैसर्स फाटसन्स रबर इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	339.	93309	मैसर्स एक्सन सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
316.	50418	मैसर्स इमलटेक्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	340.	134681	मैसर्स ओम गुरु कृपा (आनंद विहार डेव्लोपर्स) प्राईवेट लिमिटेड
317.	51327	मैसर्स जितेन्द्र पन्नालाल एण्ड कं. प्राईवेट लिमिटेड	341.	34022	मैसर्स सधवनीस विडियो लैब प्राईवेट लिमिटेड
318.	43346	मैसर्स मुद्रा होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	342.	80915	मैसर्स वीरा कन्स्ट्रक्शन्स एण्ड सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
319.	52019	मैसर्स डाको फ्राईट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	343.	46945	मैसर्स शगुन फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
320.	54769	मैसर्स काम फैब्रिकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड	344.	119437	मैसर्स फाईन ट्रेप (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
321.	125655	मैसर्स दावा बाजार ऑनलाइन लिमिटेड	345.	75833	मैसर्स ऑयस्टर यार्न्स प्राईवेट लिमिटेड
322.	30309	मैसर्स फिटेक्स इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	346.	93802	मैसर्स राजू वीडर्स प्राईवेट लिमिटेड
323.	32684	मैसर्स मनहतन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	347.	73662	मैसर्स ब्रीस्क स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
324.	98162	मैसर्स निरमोही ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	348.	75842	मैसर्स आकर्षण फाइनेन्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
325.	47302	मैसर्स अन्ना टेक्सटाईल्स कन्सलटेसी प्राईवेट लिमिटेड	349.	76925	मैसर्स साईट फाइनेन्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
326.	52589	मैसर्स आर. जैश कुमार एंड कं. प्राईवेट लिमिटेड	350.	75834	मैसर्स साफरॉन फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
327.	18430	मैसर्स स्पेशेलिटी प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड	351.	130883	मैसर्स चतुर्वेदी लूमीनरीज प्राईवेट लिमिटेड
328.	23638	मैसर्स ठक्कर एण्ड परमार प्रापर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	352.	57098	मैसर्स एक्सक्लूसिव ज्वेलर्स प्राईवेट लिमिटेड
329.	24018	मैसर्स मीआमी कन्स्ट्रक्शन कं. प्राईवेट लिमिटेड	353.	91441	मैसर्स मेरिडियन क्रेडिट कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड
330.	21918	मैसर्स थैक्कर कन्स्ट्रक्शन्स कं. प्राईवेट लिमिटेड	354.	85409	मैसर्स सेवाग्राम बोर्डस् एण्ड पेपरस प्राईवेट लिमिटेड
331.	38603	मैसर्स मिडिया ओडिअन्स बोम्बे प्राईवेट लिमिटेड	355.	54262	मैसर्स सिआटिका वीविंग मिल्स प्राईवेट कम्पनी लिमिटेड
332.	105944	मैसर्स रतगुनाय एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड	356.	108813	मैसर्स भंगाडिया कैपिटल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
333.	125126	मैसर्स टीएसपीएल (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	357.	132361	मैसर्स मनीष ऑप्टीकल्स कं. प्राईवेट लिमिटेड
334.	31201	मैसर्स रहीम सन्स इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	358.	15493	मैसर्स नाग मेटल्स कास्ट प्राईवेट लिमिटेड
			359.	45391	मैसर्स आलसिन रबर प्राईवेट लिमिटेड
			360.	31613	मैसर्स अरविंद मार्बल्स एण्ड सिंथेटिकस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
361.	33881	मैसर्स मनसुखानी स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
362.	2426	मैसर्स दि नेशनल इंडिया डेवलपमेंट कं. लिमिटेड
363.	26123	मैसर्स सिस्टार शीपिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
364.	30085	मैसर्स सीलार्ड शीपिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
365.	34041	मैसर्स सतलीडज एड्स प्राईवेट लिमिटेड
366.	78359	मैसर्स लौम्बार्ड लीफइनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
367.	10597	मैसर्स श्री सनराईज एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड
368.	26848	मैसर्स जय वंदन ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
369.	26873	मैसर्स जय गुंजन ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
370.	26814	मैसर्स जय शिवा ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
371.	61524	मैसर्स लोया मार्केटिंग एण्ड पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
372.	65937	मैसर्स नागपुर फर्म रेमिडिज प्राईवेट लिमिटेड
373.	26815	मैसर्स जयप्रीका ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
374.	26850	मैसर्स जय जीवन ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
375.	28052	मैसर्स खुब कन्टेनर्स प्राईवेट लिमिटेड
376.	26817	मैसर्स अंघा ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
377.	26849	मैसर्स जय बाल ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
378.	26816	मैसर्स रौनक ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
379.	73597	मैसर्स अभय कुमार वेज आयल प्राईवेट लिमिटेड
380.	119234	मैसर्स के फूड प्रोडक्ट्स पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
381.	103792	मैसर्स डील मेईपा इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड

वी. ए. विजयन मेनन
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

मुंबई-400002 दिनांक 24 मार्च 2006

सं. 560 (5)/2003--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कंपनी का नाम
1	2	3
1.	26466	मैसर्स अघाडी सीमेंट फैक्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
2.	112269	मैसर्स ऋषावेद होलडिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	19872	मैसर्स जरमीन इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	108979	मैसर्स रोमक इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	11260	मैसर्स ज्योय टेक्सटाईल प्राईवेट लिमिटेड
6.	5477	मैसर्स यूनीवर्सल टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	11261	मैसर्स कोटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	23311	मैसर्स ट्रान्स अमोनिया प्राईवेट लिमिटेड
9.	38811	मैसर्स पाम्स फूट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	29682	मैसर्स फिलेमिनगो होलडिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	28668	मैसर्स हिन्दुकुश इन्वेस्टमेंट्स कं. प्राईवेट लिमिटेड
12.	29683	मैसर्स सभाग्गा इन्वेस्टमेंट्स कं. प्राईवेट लिमिटेड
13.	43282	मैसर्स कोम्पेक इलेक्ट्रोसिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	41143	मैसर्स आरमेक होइस्टीस एंड क्रॉस प्राईवेट लिमिटेड
15.	54411	मैसर्स अम्मा लाईन्स कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	54410	मैसर्स अम्मा लाईन्स स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	17406	मैसर्स आमसु केमटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	17076	मैसर्स उलमिक बीको लेम्प कम्पोनेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	36766	मैसर्स बीवा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
20.	22688	मैसर्स मार्शल फार्मस प्राईवेट लिमिटेड
21.	104685	मैसर्स जासमिन हायर परचेस एंड लिजिंग प्राईवेट लिमिटेड
22.	116870	मैसर्स जासमिन मीच्युल बेनीफिट लिमिटेड
23.	52144	मैसर्स चेम्बर ऑटो रिपेयर प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
24.	33202	मैसर्स संजय डिस्ट्रीलरीज प्राईवेट लिमिटेड
25.	99862	मैसर्स मैत्रीया मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	67260	मैसर्स कपीष बिल्डिंग मेटेरियल प्राईवेट लिमिटेड
27.	51515	मैसर्स चार्टड फंडस प्राईवेट लिमिटेड
28.	47588	मैसर्स नोवाटेक स्पेशलाटीज प्राईवेट लिमिटेड
29.	52064	मैसर्स अलफिक फेक्टरीज प्राईवेट लिमिटेड
30.	53010	मैसर्स हाई लॉग हाउसिंग डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	23863	मैसर्स अल्ट्रा सेपरेशन्स टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड
32.	54457	मैसर्स ग्रे हॉड बिजनैस सिस्टमस प्राईवेट लिमिटेड
33.	30580	मैसर्स सी एन्ड ए फेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	30581	मैसर्स पीकास्सो होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	12292	मैसर्स शुभादा प्रिंट प्राईवेट लिमिटेड
36.	92825	मैसर्स वी बी प्री एग्रो इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
37.	93133	मैसर्स प्रीथ रीअल इस्टेट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	46444	मैसर्स ईम बी पोलीमर्स लिमिटेड
39.	24879	मैसर्स एच एस ड्रग्स एंड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	118919	मैसर्स पिकू मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
41.	32115	मैसर्स मन्दाकिनी ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
42.	31329	मैसर्स हाइप्रोलिन फीनोलिक्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	26064	मैसर्स नियाती इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	67197	मैसर्स हवाई केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	33217	मैसर्स श्री कलन गिरधर सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	48625	मैसर्स ओरीआन मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड
47.	48753	मैसर्स बिले व्यू डिसपोजेबल प्राईवेट लिमिटेड
48.	37445	मैसर्स रेगुलस लेबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड
49.	38643	मैसर्स हरकिशनदास फाइनैसियल कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
50.	73982	मैसर्स अस्तर लीजिंग एंड फाइनैस प्राईवेट लिमिटेड
51.	51836	मैसर्स वीर फेब्रिक प्राईवेट लिमिटेड
52.	17307	मैसर्स गीता टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	18147	मैसर्स अभी टेक्सटाइल्स ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
54.	114737	मैसर्स माइक्रो स्टील हीट ट्रेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
55.	100247	मैसर्स हाई क्यू मशीन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
56.	52173	मैसर्स कोफोर्स कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
57.	54980	मैसर्स मिलीनाथ फाइनैस एंड होलडिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
58.	35436	मैसर्स एब्रो इंडस्ट्रियल एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड
59.	12247	मैसर्स न्यू कर्नाटक प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड
60.	34213	मैसर्स पीके टेक्सटाइल प्राईवेट लिमिटेड
61.	71934	मैसर्स रामकृष्ण हरी मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
62.	24373	मैसर्स लक्ष्मी प्रमोद इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
63.	19996	मैसर्स पलीत पुरी एंड सगरानी प्राईवेट लिमिटेड
64.	27922	मैसर्स नवगिरी एंड कं. प्राईवेट लिमिटेड
65.	39254	मैसर्स रवी राज इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
66.	49472	मैसर्स प्रफूल ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
67.	41820	मैसर्स विदर्भ रिफेक्टरीज प्राईवेट लिमिटेड
68.	133535	मैसर्स रेफसोलर प्राईवेट लिमिटेड
69.	49062	मैसर्स त्रिमूर्ति इन्स्ट्रुमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
70.	17817	मैसर्स ओरवो फिल्मस वेस्टर्न यूनिट प्राईवेट लिमिटेड
71.	43770	मैसर्स वीरट ट्रांसहीट प्राईवेट लिमिटेड
72.	20232	मैसर्स कपसा केन्स प्राईवेट लिमिटेड
73.	19338	मैसर्स सेन्ट्रल कलर फोटो लेब प्राईवेट लिमिटेड
74.	41694	मैसर्स श्रीजी फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
75.	19017	मैसर्स प्राइम रोज इस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
76.	8543	मैसर्स ट्रेक प्राईवेट लिमिटेड
77.	47063	मैसर्स महालक्ष्मी फार्मस प्राईवेट लिमिटेड
78.	37982	मैसर्स लालविन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स कं. प्राईवेट लिमिटेड
79.	70541	मैसर्स राजकिरण नर्सिंग होम प्राईवेट लिमिटेड
80.	54225	मैसर्स माइक्रोनिक्स मेट्रोलाजीकल इन्स्ट्रुमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
81.	34155	मैसर्स ब्रिजवीन फाइनैस प्राईवेट लिमिटेड
82.	45011	मैसर्स पट्टाडा फेब्रीग्लास प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	34147	मैसर्स सहन जसदीप इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
84.	33899	मैसर्स सन कोटिंग प्राईवेट लिमिटेड
85.	15900	मैसर्स आर आर होटल्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
86.	37412	मैसर्स वेलकम प्रोडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	117.	42926	मैसर्स सेवक अयात निर्यात कं. प्राईवेट लिमिटेड
87.	66846	मैसर्स स्मूथ ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड	118.	73495	मैसर्स अल-पाइन ट्रेवल कंसलेंटेंट एंड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
88.	21844	मैसर्स लारोज इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	119.	52373	मैसर्स राकु इक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
89.	48881	मैसर्स आय जी केन्स एंड कन्टेनर्स प्राईवेट लिमिटेड	120.	44036	मैसर्स मेमोरी डिवाइज प्राईवेट लिमिटेड
90.	26154	मैसर्स आर एन टी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	121.	39519	मैसर्स दुबे ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
91.	47783	मैसर्स इलमेक होइस्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	122.	125248	मैसर्स इनलैंड कम्पो कन्ट्रोल प्राईवेट लिमिटेड
92.	24193	मैसर्स बोद्राको सिन्थेटिक एंड प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड	123.	39015	मैसर्स ओपटीमा इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
93.	49961	मैसर्स अर्जय सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड	124.	27807	मैसर्स प्रशांती शिपिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
94.	20888	मैसर्स टेक्सो क्रिम्प (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	125.	27672	मैसर्स विष्णु इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
95.	90951	मैसर्स केसर एल्कोहोल प्राईवेट लिमिटेड	126.	49192	मैसर्स शोभा पेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
96.	92422	मैसर्स पेन्नाकल फिनवर्थ लिमिटेड	127.	39751	मैसर्स अप्पू सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
97.	37321	मैसर्स क्रियेटिव प्रेस प्राईवेट लिमिटेड	128.	47312	मैसर्स गैलेक्सी सेक्शन फोरमिंग प्राईवेट लिमिटेड
98.	42536	मैसर्स रान्यावाला बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	129.	33623	मैसर्स बेल हेंडलिंग सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
99.	35313	मैसर्स क्रियेटिव पब्लिकेशन्स (बोम्बे) प्राईवेट लिमिटेड	130.	49194	मैसर्स भाटिया रेसिन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
100.	50504	मैसर्स ब्रजगंध लिमिटेड	131.	32808	मैसर्स डोरयेन एशिया मेटल विन्डोज प्राईवेट लिमिटेड
101.	32058	मैसर्स जलन धातु उद्योग प्राईवेट लिमिटेड	132.	39665	मैसर्स बिल्डेड (बोम्बे) प्राईवेट लिमिटेड
102.	54918	मैसर्स लीलावती कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	133.	127160	मैसर्स योगेश्वर केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
103.	33618	मैसर्स चांदनी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	134.	46504	मैसर्स वेस्ट कोस्ट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
104.	37892	मैसर्स एक्सप्रेस ट्रेक स्लीपर्स प्राईवेट लिमिटेड	135.	27691	मैसर्स अशेर होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
105.	31481	मैसर्स जसकालेन कारो केरीज प्राईवेट लिमिटेड	136.	38659	मैसर्स क्रूसादर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
106.	28471	मैसर्स परफेक्ट फूड प्राईवेट लिमिटेड	137.	31350	मैसर्स एबरब्राइट ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
107.	54974	मैसर्स महेश शरोफ इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड	138.	18871	मैसर्स सेन्ट्रल केपसीटर्स प्राईवेट लिमिटेड
108.	34953	मैसर्स बोम्बे मॉडर्न क्लीनर्स प्राईवेट लिमिटेड	139.	41534	मैसर्स एग्लो ज्युट प्राईवेट लिमिटेड
109.	36894	मैसर्स मोहम्मद हसन लरी इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	140.	46428	मैसर्स यूनीवर्सल इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
110.	17578	मैसर्स नटराज सीमेंट ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	141.	126438	मैसर्स स्सन प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
111.	49148	मैसर्स यूनीवर्सल अनोटेक प्राईवेट लिमिटेड	142.	45217	मैसर्स अरोडकर आर्ट स्टूडियो प्राईवेट लिमिटेड
112.	40586	मैसर्स सुरमल प्रिंट प्राईवेट लिमिटेड	143.	16067	मैसर्स लीमा केमिकल्स एंड कोसमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
113.	21303	मैसर्स जी. डब्ल्यू. कारनिक (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	144.	19989	मैसर्स डिबीके इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
114.	11968	मैसर्स दोशीन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	145.	23741	मैसर्स शेरपुर मेडिकल रिसर्च कं.
115.	48253	मैसर्स विदर्भा डाई टूल्स प्राईवेट लिमिटेड	146.	23740	मैसर्स लुधियाना मेडिकल रिसर्च कं.
116.	20825	मैसर्स सनसोन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	147.	52709	मैसर्स सेमकोन कोनक्रेट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
148.	27923	मैसर्स बरार इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड
149.	20835	मैसर्स ए सी पद्मश्री इन्वेस्टमेंट्स कं. प्राईवेट लिमिटेड
150.	98048	मैसर्स पुन्ना इन्वेस्टमेंट्स सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
151.	52879	मैसर्स जाम इलेक्ट्रीकल इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
152.	30207	मैसर्स इस्टर्न फार्म्स एंड डायरीज प्राईवेट लिमिटेड
153.	22176	मैसर्स त्रिस्तार इंटरटेनमेंट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
154.	31427	मैसर्स ट्रांससेक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
155.	18950	मैसर्स एम. एच. दोषी इन्वेस्टमेंट एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड
156.	119979	मैसर्स वेब एम्पलाईमेंट एक्सचेंज प्राईवेट लिमिटेड
157.	108162	मैसर्स रोदुन्ध मेडिकल टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड
158.	88686	मैसर्स ट्रांसमून सेक्यूरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
159.	78491	मैसर्स मेट्रोपोलिटिन मेटल एसेसरीज प्राईवेट लिमिटेड
160.	104108	मैसर्स जी. एस. इन्फ्रावर्स प्राईवेट लिमिटेड
161.	79272	मैसर्स बे सिटी कैपिटल एंड फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड
162.	138431	मैसर्स क्वालिटी मेडिक्स इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
163.	69809	मैसर्स हरिया पेपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड
164.	101821	मैसर्स एरोलाइट बेग्स प्राईवेट लिमिटेड
165.	131165	मैसर्स शार्प सिगनेचर लेमीनेट्स प्राईवेट लिमिटेड
166.	130130	मैसर्स एडवांटेड आर्ट वरच्युल गैलरी प्राईवेट लिमिटेड
167.	84045	मैसर्स चारली कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड
168.	131962	मैसर्स इंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजीज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
169.	59477	मैसर्स ए-वन केरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
170.	95815	मैसर्स श्री औसिया पोलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड
171.	103523	मैसर्स मेटा केम्स एंड कम्पोनेंट्स लिमिटेड
172.	124482	मैसर्स प्रोफाउंड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
173.	116296	मैसर्स एजीपी एक्सट्रूजन प्राईवेट लिमिटेड
174.	90566	मैसर्स नेप्चून सटकोम्स लिमिटेड
175.	137185	मैसर्स इंडीप्रेटेड इन्फोवेज सर्विसेज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
176.	118326	मैसर्स हेल्थकेअर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
177.	132927	मैसर्स शूट इन दि डार्क फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
178.	73608	मैसर्स मेगाविजन कंसलटेंसी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
179.	105020	मैसर्स स्वप फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड
180.	92143	मैसर्स गिरिसंस मेन्यूफेक्चरिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
181.	92126	मैसर्स गिरिसंस ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
182.	111638	मैसर्स मोलडेक्स अलोज्य लिमिटेड
183.	102977	मैसर्स प्लांटिनम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
184.	98099	मैसर्स सेलफिन मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
185.	121739	मैसर्स फिलान्द्रो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
186.	67724	मैसर्स सतनाम कंसलटेंट प्राईवेट लिमिटेड
187.	132766	मैसर्स उतसागर शिपिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
188.	56185	मैसर्स श्री घटनदेवी रोलर फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
189.	85364	मैसर्स कारपेल इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
190.	85767	मैसर्स मारबेला ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कं. प्राईवेट लिमिटेड
191.	90889	मैसर्स हवीना इक्वीसर्च प्राईवेट लिमिटेड
192.	116200	मैसर्स बिजवर्ल्ड इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
193.	77697	मैसर्स कब्रा मेनेजमेंट कंसलटेंट प्राईवेट लिमिटेड
194.	132449	मैसर्स कपलेश्वरर पिक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
195.	121154	मैसर्स बलदोता फिल्डरेशन प्राईवेट लिमिटेड
196.	132524	मैसर्स ग्रेसेल टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड
197.	125986	मैसर्स मेटा एंजेंट टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड
198.	71115	मैसर्स एक्सीलेंट जेम्स एंड ज्वैलरी प्राईवेट लिमिटेड
199.	67746	मैसर्स मधुपुरी ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
200.	99986	मैसर्स सिलवर चीफ फार्मस प्राईवेट लिमिटेड
201.	112530	मैसर्स मेक देसाई कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
202.	84279	मैसर्स मनु फाइनेंसियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
203.	115332	मैसर्स हरेष एजेंसीज (ट्रांसपोर्ट) प्राईवेट लिमिटेड
204.	56252	मैसर्स शानू होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
205.	56231	मैसर्स प्रोबिटी प्राईवेट लिमिटेड
206.	55675	मैसर्स सोहनसंस होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
207.	114667	मैसर्स कुलीनरी कनसेप्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
208.	89157	मैसर्स जुगल फाइनेंसियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
209.	68361	मैसर्स मार्क पेट्रोकेम लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
210.	89123	मैसर्स जारडिन केमीकल्स प्राईवेट लिमिटेड	241.	135941	मैसर्स रोशन इनफोटेक प्राईवेट लिमिटेड
211.	99406	मैसर्स एंगल ओडियो वीडियो लिमिटेड	242.	81907	मैसर्स असटेल मरचनडाइज प्राईवेट लिमिटेड
212.	84070	मैसर्स प्रबल गारमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	243.	77360	मैसर्स क्रीडीयन्स ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
213.	90589	मैसर्स रजत नासिक लीजिंग एंड फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड	244.	107847	मैसर्स ग्लीनमार्क फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड
214.	113655	मैसर्स नासिक पाइप हाउस प्राईवेट लिमिटेड	245.	107828	मैसर्स ग्लीनमार्क रिसर्च लेबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड
215.	110003	मैसर्स डोली चेम्बर्स प्राईवेट लिमिटेड	246.	108664	मैसर्स पौरवी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
216.	119297	मैसर्स कोरल शिपमेनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड	247.	117881	मैसर्स केमार्च डिकोर प्राईवेट लिमिटेड
217.	92570	मैसर्स फ्रन्टल डिजाइन सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड	248.	91014	मैसर्स नील फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड
218.	92154	मैसर्स अप्परेल डारेक्शन्स एंड डिजाइन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	249.	104203	मैसर्स ओरन्स इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
219.	127869	मैसर्स बीएसई इंडिशियस लिमिटेड	250.	97807	मैसर्स इनलाक फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
220.	125390	मैसर्स कोमनेट इनफोटेक प्राईवेट लिमिटेड	251.	84472	मैसर्स इनीका ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
221.	100375	मैसर्स प्रकाश चित्रालय मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर लिमिटेड	252.	79481	मैसर्स सिलवरस्ट्रीप ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
222.	95222	मैसर्स बाफना एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	253.	94908	मैसर्स सिम्फोनी मरकेनटायल प्राईवेट लिमिटेड
223.	127360	मैसर्स अमबित सत्रिसेज प्राईवेट लिमिटेड	254.	94581	मैसर्स क्लीयर इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
224.	65853	मैसर्स अमोघ ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	255.	87017	मैसर्स विधाता मरकेनटायल प्राईवेट लिमिटेड
225.	126957	मैसर्स आशीवाद ट्रेड-लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड	256.	94572	मैसर्स कौर ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
226.	126550	मैसर्स अनतास बुक्स प्राईवेट लिमिटेड	257.	11727	मैसर्स रामसेस होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
227.	126267	मैसर्स आर्य इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	258.	107767	मैसर्स सनमेश ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
228.	123243	मैसर्स राघवेन्द्र प्रिंट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	259.	56490	मैसर्स मानवेश टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
229.	76353	मैसर्स पाइवोटल स्टेकसरे लिमिटेड	260.	93820	मैसर्स श्री तिरुपति शिप ब्रेकर्स प्राईवेट लिमिटेड
230.	122238	मैसर्स मधुसूदन कंस्ट्रूवेल प्राईवेट लिमिटेड	261.	90081	मैसर्स इकुस फाइनेंसियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
231.	118730	मैसर्स गार्ड स्टेशनर्स प्राईवेट लिमिटेड	262.	63247	मैसर्स एक्सल सोपस एंड डिटरजेंट प्राईवेट लिमिटेड
232.	111567	मैसर्स जी. बी. बिल्डकोन प्राईवेट लिमिटेड	263.	79428	मैसर्स हंस कवीरा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
233.	65282	मैसर्स फोरम इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड	264.	68039	मैसर्स अदिनो फाइनेंसियल लिमिटेड
234.	65778	मैसर्स दिनप इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड	265.	67850	मैसर्स इय सीटिंग प्राईवेट लिमिटेड
235.	112705	मैसर्स सपसोफ्ट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	266.	111042	मैसर्स सार्थक कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
236.	57696	मैसर्स मित्तल क्नीटर्स प्राईवेट लिमिटेड	267.	127874	मैसर्स स्लाइटली ओफ सेंटर एडवर्टाइजिंग (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
237.	110788	मैसर्स एफ. एकस. प्लेटिस्टूडियो प्राईवेट लिमिटेड	268.	93171	मैसर्स मेयताग सीक्यूरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
238.	924230	मैसर्स रघुबील फाइनेंसियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	269.	106617	मैसर्स डेल्टा पोलीप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
239.	63292	मैसर्स गायत्री फाइनेवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड	270.	104987	मैसर्स दारुन ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड
240.	58731	मैसर्स चितचोर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड	271.	75342	मैसर्स हेक्सागोन फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड
			272.	104838	मैसर्स प्रियंका टिन्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
273.	55072	मैसर्स बोनवित इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
274.	55980	मैसर्स सिद्धस्वामी ओरगो-केम प्राईवेट लिमिटेड
275.	115818	मैसर्स रीतू सॉफ्टवेक प्राईवेट लिमिटेड
276.	124470	मैसर्स जयराज कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड*
277.	85908	मैसर्स नवरंग टी प्राईवेट लिमिटेड
278.	62015	मैसर्स मोनोलीथिक कोनक्रेट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
279.	88147	मैसर्स मान्स डेरी एंड फूड प्रोसेसिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
280.	89048	मैसर्स रायकॉन होम्स प्राईवेट लिमिटेड
281.	82079	मैसर्स अल-झरीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
282.	75548	मैसर्स स्मीता मेडिकल प्रोडक्ट प्राईवेट लिमिटेड
283.	79320	मैसर्स सर्वोत्तम मेडिकेयर लिमिटेड
284.	110896	मैसर्स कनसर्व इलेक्ट्रिक प्राईवेट लिमिटेड
285.	78206	मैसर्स फलोन ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
286.	77531	मैसर्स अभियान इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
287.	74846	मैसर्स अशिम फिन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
288.	64764	मैसर्स निगम बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
289.	78051	मैसर्स आरविट स्टील प्राईवेट लिमिटेड
290.	81690	मैसर्स भारक्युस एयर लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
291.	106286	मैसर्स प्रीयम इन्वेस्टमेंट कंसलटेंट लिमिटेड
292.	91732	मैसर्स पुश्टी प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
293.	126300	मैसर्स सीबीएम इनफोटेक प्राईवेट लिमिटेड
294.	60860	मैसर्स रुपशीष इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
295.	81132	मैसर्स सुमनिक इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कं. प्राईवेट लिमिटेड
296.	78457	मैसर्स स्टडीलाइन ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
297.	125263	मैसर्स नाकोडा भैरव सीक्यूरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
298.	78205	मैसर्स गोल्डन जुबली ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
299.	80975	मैसर्स फ्रांक फाइनेंस (बोम्बे) प्राईवेट लिमिटेड
300.	106096	मैसर्स स्पीको केम इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
301.	107232	मैसर्स इनोवेटिव डेकोर प्राईवेट लिमिटेड
302.	129969	मैसर्स हाई-टेक ट्रांसलाइन्स प्राईवेट लिमिटेड
303.	129627	मैसर्स लीपी इनफोटेक प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
304.	76409	मैसर्स मंगलम डिस्ट्रीब्यूटर्स ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड
305.	120437	मैसर्स प्रिंटवेल डिसप्ले ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड
306.	109230	मैसर्स शोभावत फाइनेंसियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
307.	121957	मैसर्स कम्पोंड कोम कंसलटेंट प्राईवेट लिमिटेड
308.	66024	मैसर्स राना रोडवेज प्राईवेट लिमिटेड
309.	68925	मैसर्स रलीश इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
310.	117045	मैसर्स मेक्सवर्थ पोलोमर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
311.	109773	मैसर्स स्टुक्को इस्टेट डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
312.	111660	मैसर्स ब्लेक होर्स सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
313.	124846	मैसर्स इनलैंड इनफोटेक लिमिटेड
314.	90368	मैसर्स के. राजकुमार टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
315.	116051	मैसर्स जश फार्मस एंड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
316.	136256	मैसर्स सन्नी मल्टीमीडिया प्राईवेट लिमिटेड
317.	136942	मैसर्स एम्पायर गेमिंग सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
318.	136941	मैसर्स सिम-सिम गेमिंग सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
319.	113570	मैसर्स दीप्ती कन्टेनर्स प्राईवेट लिमिटेड
320.	136946	मैसर्स मनी प्लांट गेमिंग सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
321.	58700	मैसर्स जे-गोडा एंड सन्स ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
322.	92979	मैसर्स मनहत्तन फिनकेप प्राईवेट लिमिटेड
323.	90559	मैसर्स बेंचमार्क इरेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
324.	120298	मैसर्स केमा मेनेजमेंट कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
325.	120760	मैसर्स ओमनी केम टेक प्राईवेट लिमिटेड
326.	109441	मैसर्स एन नरचर फाइनेंस लिमिटेड
327.	61719	मैसर्स मधुधन ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
328.	136943	मैसर्स सन्नी गेमिंग सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
329.	131244	मैसर्स रॉयल प्लाटिनम क्लब्स प्राईवेट लिमिटेड
330.	124631	मैसर्स के. एम. कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
331.	80095	मैसर्स सिंघानिया टेक्स प्राईवेट लिमिटेड
332.	73499	मैसर्स गेस्ट लिंक (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
333.	100495	मैसर्स एण्ड प्रीसीयस थिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
334.	136572	मैसर्स पूजा वेब टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड
335.	57791	मैसर्स वरुन प्लास्टो पैक प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
336.	82247	मैसर्स हब पोलीपैक प्राईवेट लिमिटेड
337.	119232	मैसर्स आदि डाया (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
338.	119462	मैसर्स अफरेना होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
339.	108585	मैसर्स विश्वाप्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
340.	88368	मैसर्स स्पेशलिटी फार्मा लिमिटेड
341.	56485	मैसर्स अंकुल फिनस्टोक प्राईवेट लिमिटेड
342.	116361	मैसर्स विक्रम मारीयडम प्राईवेट लिमिटेड
343.	95830	मैसर्स समाधान प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
344.	121495	मैसर्स वक्रतुन्द लैंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
345.	94231	मैसर्स हरीभक्ति सर्टिफिकेशन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
346.	68428	मैसर्स गबुला इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
347.	116455	मैसर्स रुचिर एक्जिम ट्रेड लिंक प्राईवेट लिमिटेड
348.	85423	मैसर्स स्पतलाल फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
349.	67998	मैसर्स जय विराज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
350.	95335	मैसर्स ट्रेड कोटेक्स लिमिटेड
351.	112450	मैसर्स साईराज पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
352.	117551	मैसर्स साईयाम एक्सपोर्ट्स (मुंबई) प्राईवेट लिमिटेड
353.	108147	मैसर्स जे. सी. पी. सोफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
354.	107676	मैसर्स परनियां सोफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
355.	107677	मैसर्स नियातीर्थ सोफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
356.	107011	मैसर्स नियातीर्थ इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
357.	55235	मैसर्स परफेक्ट मैगनेट प्राईवेट लिमिटेड
358.	124159	मैसर्स रामा पेपर रिसाईकलिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
359.	55141	मैसर्स धनदेवी फाइनेंस एंड होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
360.	109697	मैसर्स राजको फ्लोरीकल्चर प्राईवेट लिमिटेड
361.	56273	मैसर्स कुलचरन फिइनस्टोक प्राईवेट लिमिटेड
362.	57991	मैसर्स प्युराईट राइटिंग इन्स्ट्रुमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
363.	949234	मैसर्स चीयरफुल इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
364.	93629	मैसर्स एस्ट्रोलाइट इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
365.	55157	मैसर्स धनसाद फाइनेंस एंड होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
366.	120674	मैसर्स हरीहर रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
367.	64187	मैसर्स शालीमार फाउंड्री प्राईवेट लिमिटेड
368.	60956	मैसर्स अघाडी खंडसारी प्राईवेट लिमिटेड
369.	66615	मैसर्स बरार चियोन्स प्राईवेट लिमिटेड
370.	56479	मैसर्स नरिपराज फिनस्टोक प्राईवेट लिमिटेड
371.	57816	मैसर्स हंजैरि सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
372.	125363	मैसर्स पेंयकेम ओरगेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
373.	63825	मैसर्स हाजी वाली मोहम्मद कपाड़िया टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
374.	90380	मैसर्स पीयुष रीयल इस्टेट एंड फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
375.	56157	मैसर्स ग्यानसागर फिनस्टोक प्राईवेट लिमिटेड
376.	126234	मैसर्स दि जयंतीलाल स्टील प्राईवेट लिमिटेड
377.	58284	मैसर्स राइट पोइंट राइटिंग इन्स्ट्रुमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
378.	99026	मैसर्स जेमिनी शोविज प्राईवेट लिमिटेड
379.	82958	मैसर्स मिआमी एपीरल्स प्राईवेट लिमिटेड
380.	66593	मैसर्स स्पार्क कैपिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
381.	65604	मैसर्स बरार पोर्टफोलियो प्राईवेट लिमिटेड
382.	64642	मैसर्स ग्रोवेल केम-फार्म प्राईवेट लिमिटेड
383.	86728	मैसर्स शक्ति प्रिंट एन प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
384.	85449	मैसर्स इनजेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड
385.	66286	मैसर्स गेलेक्सी फिनवेस्ट (बोम्बे) प्राईवेट लिमिटेड
386.	122241	मैसर्स डिजाइन बे स्ट्रेटजीज प्राईवेट लिमिटेड
387.	120185	मैसर्स कोसमिक ट्रेडिंग एंड मरकेनटाईल प्राईवेट लिमिटेड
388.	89112	मैसर्स सिल्की इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
389.	120188	मैसर्स न्यूट्रल ट्रेडिंग एंड मरकेनटाईल प्राईवेट लिमिटेड
390.	65986	मैसर्स जयसन प्लास्टो मेक इंजीनियरिंग लिमिटेड
391.	75587	मैसर्स नौटेक्स शिपिंग (इंडिया) लिमिटेड
392.	106806	मैसर्स महामाया एडवरटाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
393.	93221	मैसर्स दागा कैपिटल एंड फाइनेंसियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
394.	82459	मैसर्स मजीरा इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
395.	58787	मैसर्स सोल्ड्रोन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
396.	97124	मैसर्स सिद्धेश्वरी जेम्स प्राईवेट लिमिटेड
397.	63037	मैसर्स सुमित्रा वाटर ट्रीटमेंट इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
398.	83234	मैसर्स एम जमनादास एंड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
399.	90343	मैसर्स कोनार्क फाइन फेब प्राईवेट लिमिटेड
400.	63809	मैसर्स स्थोरवे कुरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
401.	127306	मैसर्स सरप्रसाद इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
402.	127243	मैसर्स हिल मिल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
403.	116265	मैसर्स सोलर टेक्स केम प्राईवेट लिमिटेड
404.	127742	मैसर्स पावर ई-मार्क (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
405.	127109	मैसर्स टच इण्डिया कोम प्राईवेट लिमिटेड*
406.	125293	मैसर्स ग्लोबल आइटिक प्राईवेट लिमिटेड
407.	97818	मैसर्स विजय कोथारी (इंडिया) फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड
408.	87866	मैसर्स बरन रीयलटी प्राईवेट लिमिटेड
409.	56363	मैसर्स मौंटगोमरी ट्रांसपोर्ट कं. प्राईवेट लिमिटेड
410.	124460	मैसर्स आरोग्य. कोम प्राईवेट लिमिटेड
411.	128195	मैसर्स समप्रीत साइबर सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
412.	64840	मैसर्स अनुमया फाइनेंसियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
413.	100197	मैसर्स मारुति लेदर टेनरीज प्राईवेट लिमिटेड
414.	56596	मैसर्स किलोबाईट्स (इंडिया) लिमिटेड
415.	121994	मैसर्स इटिप मीडिया एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
416.	125232	मैसर्स ज्येष इनफोटेक लिमिटेड
417.	60111	मैसर्स अबोर्ड इन्वेस्टमेंट कं. प्राईवेट लिमिटेड
418.	110704	मैसर्स सूनीजन फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
419.	90718	मैसर्स एन. वी. एस. कंस्ट्रक्शन्स एंड ट्रेडिंग लिमिटेड
420.	108026	मैसर्स अलख सेक्यूरिटीज एंड इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
421.	125971	मैसर्स डोमेनाईन इंडिया लिमिटेड
422.	88183	मैसर्स अबकस टेक्नो कोमर्शियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
423.	63044	मैसर्स ट्रिजाक फाइनेंस लिमिटेड
424.	99882	मैसर्स रेसिंग स्टार फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
425.	131869	मैसर्स दाइस होस्टल एंड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
426.	90632	मैसर्स हर्न एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
427.	59319	मैसर्स फाइव स्टार हाउसिंग प्राईवेट लिमिटेड
428.	86478	मैसर्स प्रकल्प मिनिंग प्राईवेट लिमिटेड
429.	79383	मैसर्स प्रकल्प ओवरसीज कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
430.	128744	मैसर्स दि राम्प. कॉम (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
431.	126574	मैसर्स समता टूल्स एंड बीयरिंग प्राईवेट लिमिटेड
432.	67827	मैसर्स नोवेल फायर प्रोटेक्शन एप्लीएंसेज प्राईवेट लिमिटेड
433.	118835	मैसर्स खंडावे सभाग्रह प्राईवेट लिमिटेड
434.	69241	मैसर्स रामशेज वेली एगो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
435.	118843	मैसर्स श्रीनाथजी अनोडाइजिंग एंड इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
436.	59259	मैसर्स स्पीड आटोपार्ट्स (नासिक) प्राईवेट लिमिटेड
437.	57517	मैसर्स तेजोदीप होस्टल (नासिक) प्राईवेट लिमिटेड
438.	121455	मैसर्स हाइड्रो स्पेयर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
439.	109877	मैसर्स मंथन शिपिंग प्राईवेट लिमिटेड
440.	55276	मैसर्स लेखा सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
441.	86042	मैसर्स पारिख ट्रेड लिंक एंड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
442.	115492	मैसर्स पायोनीर सीलिंग डिवाइजेज प्राईवेट लिमिटेड
443.	98886	मैसर्स इलाईट (बांग्बे) डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
444.	94759	मैसर्स टाईम कोनसेप्ट प्राईवेट लिमिटेड
445.	66681	मैसर्स कलिना ट्रेडिंग एंड सेक्यूरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
446.	109196	मैसर्स श्यामसुंदर कंसलटेंसी एंड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
447.	80260	मैसर्स एलकान इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
448.	98918	मैसर्स सोनवर केबल प्राईवेट लिमिटेड
449.	67937	मैसर्स शिसिर फाइनेंसियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
450.	68941	मैसर्स अर्नमोर शेयर सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
451.	70447	मैसर्स पार्थ मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट्स कोनसोर्टियम प्राईवेट लिमिटेड
452.	93466	मैसर्स देशनोक फाइनेंसियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
453.	62506	मैसर्स लुहारुका सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
454.	129909	मैसर्स हाइपलेब कंसलटिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
455.	95121	मैसर्स परिनिति इंडेनटर्स प्राईवेट लिमिटेड
456.	106464	मैसर्स खसकोन्स प्राईवेट लिमिटेड
457.	121584	मैसर्स चिकागो प्रिंट एंड पब्लिशिंग प्राईवेट लिमिटेड
458.	71765	मैसर्स खानदेश इस्पात प्राईवेट लिमिटेड
459.	75366	मैसर्स इलाइट रीयलटर्स प्राईवेट लिमिटेड
460.	89524	मैसर्स ईसपी मरकन्टाइल प्राईवेट लिमिटेड
461.	65661	मैसर्स ओरनेल इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
462.	137020	मैसर्स ओम डी 2सी एप्लीकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
463.	114330	मैसर्स मिनेक्स मिनरल्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
464.	97737	मैसर्स क्यूसर कार्ड एंड सिस्टम्स कं. लिमिटेड
465.	80748	मैसर्स बालाजी मेटल ट्रीट प्राईवेट लिमिटेड
466.	89334	मैसर्स जन्मभूमि पोर्टफोलियो प्राईवेट लिमिटेड
467.	135035	मैसर्स कनवरजेंस मीडिया (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
468.	117681	मैसर्स अनमोल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
469.	57139	मैसर्स कंप्यूराइट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
470.	102188	मैसर्स केमट्रीट एटलस इंडिया लिमिटेड
471.	63327	मैसर्स एमके डाईकास्टिंग इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
472.	56947	मैसर्स अपनइंपेक्सो एंड कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
473.	78383	मैसर्स अल फतह शिपिंग लिमिटेड
474.	130080	मैसर्स गिरिराज फ्राईट केरीज प्राईवेट लिमिटेड
475.	115460	मैसर्स एडवानटेक कंसलटिंग रिसोर्सेज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
476.	101198	मैसर्स स्वीचचार्ट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
477.	104612	मैसर्स माग्रेन फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड
478.	124015	मैसर्स ए. जे. मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
479.	130117	मैसर्स ईक्वीस्ट सोल्यूशन्स बोम्बे प्राईवेट लिमिटेड
480.	95099	मैसर्स हाई-तेज क्रेडिट्स एंड सेक्यूरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
481.	102056	मैसर्स शुभयोग ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
482.	62854	मैसर्स सवन कम्युनीकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
483.	111009	मैसर्स बरकत इंडस्ट्रियल एंड कोमर्सियल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
484.	119575	मैसर्स कोटक इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
485.	96821	मैसर्स शेल्टर हाऊसिंग डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट्स कं. लिमिटेड

1	2	3
486.	111465	मैसर्स कारवन ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
487.	66551	मैसर्स रोनी मेडिकेम प्राईवेट लिमिटेड
488.	81444	मैसर्स यूनीमार्क इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
489.	115657	मैसर्स अलबमा होस्पीटलीटीज प्राईवेट लिमिटेड
490.	113048	मैसर्स अलबमा लीजर्स प्राईवेट लिमिटेड
491.	112943	मैसर्स सिगाक्रोप टोबेको ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
492.	98012	मैसर्स रूपम रेडी टू बीयर लिमिटेड
493.	102518	मैसर्स समर्थ फाउंडेशन एंड कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
494.	89834	मैसर्स जनरल पेपर प्लास्ट लिमिटेड
495.	89293	मैसर्स जलक इंटरप्राइजेज लिमिटेड
496.	91307	मैसर्स अवकाश शिपिंग लिमिटेड
497.	96833	मैसर्स फलक फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कं. लिमिटेड
498.	128146	मैसर्स कृष्णा डोटकोम्स प्राईवेट लिमिटेड
499.	91814	मैसर्स राजपूताना शेयर्स ब्रोकिंग प्राईवेट लिमिटेड
500.	104833	मैसर्स जन प्रगति इन्वेस्टमेंट कं. लिमिटेड

वी. ए. विजयन् मेनन
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पीटीक इन्जीनियर्स एंड
कंस्ट्रक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कोलकाता-700020, दिनांक 22 मार्च 2006

सं. आईपीसी/560/प्रा./39848--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से 90 (नब्बे) दिनों की समाप्ति तक किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की आपत्ति न होने पर मैसर्स पीटीक इन्जीनियर्स एंड कंस्ट्रक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

नौबत सिंह
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
पं. बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स साहु इन्टरप्राइजेज प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में।

कोलकाता-700020, दिनांक 22 मार्च 2006

सं. आईपीसी/560/मास्टर फाइल/भाग-1--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सूचना दी जाती है कि मैसर्स साहु इन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

नौबत सिंह
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
पं. बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ग्लैमर पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कोलकाता-700020, दिनांक 22 मार्च 2006

सं. आईपीसी/560/मास्टर फाइल/भाग-1--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ग्लैमर पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

नौबत सिंह
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
पं. बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मेडिकोज़ इन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कोलकाता-700020, दिनांक 22 मार्च 2006

सं. आईपीसी/560/मास्टर फाइल/भाग-1--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मेडिकोज़ इन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

नौबत सिंह
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
पं. बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एएक्सएस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कोलकाता-700020, दिनांक 22 मार्च 2006

सं. आईपीसी/560/मास्टर फाइल/भाग-1--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एएक्सएस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

नौबत सिंह
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
पं. बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मेहरोत्रा इन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कोलकाता-700020, दिनांक 22 मार्च 2006

सं. आईपीसी/560/मास्टर फाइल/भाग-1--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मेहरोत्रा इन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

नौबत सिंह
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
पं. बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ग्लोबल विषनू सर्विसिस लिमिटेड के विषय में।

बैंगलूर-560034, दिनांक 14 मार्च 2006

सं. 560(5)/शी/क्र.सं./18252/2006--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ग्लोबल विषनू सर्विसिस लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रिथ्वी मिनरलस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

बैंगलूर-560034, दिनांक 14 मार्च 2006

सं. 560(5)/शी/क्र.सं./24603/2006--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्रिथ्वी मिनरलस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इंडो-ओवरसीस मरिन् प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

बैंगलूर-560034, दिनांक 14 मार्च 2006

सं. 560(5)/शी/क्र.सं./16887/2006--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इंडो-ओवरसीस मरिन् प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

बेंगलूर, दिनांक 2006

सं. कं.सं./560(3)/सीवीएस/एसईएस/2005-2006--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी:--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनियों के नाम
1	2	3
1.	11803	मैसर्स वेदावति सेरिकलचर प्राइवेट लिमिटेड
2.	1474	मैसर्स मैसूर एडवरटाइसिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
3.	10219	मैसर्स राज एंड राज पलास्टिक प्राइवेट लिमिटेड
4.	1390	मैसर्स श्री मुकम्बिका एग्रिकलचरल एस्टेट्स एंड फोरेस्ट इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
5.	7751	मैसर्स जी. आर. पी. इनवेस्टमेंट एंड फाइनेंसियल मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
6.	9972	मैसर्स ओ. बी. एम. मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
7.	7479	मैसर्स कल्याण सोफ्ट ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
8.	8659	मैसर्स आर्सिकरे कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
9.	8995	मैसर्स अनामक् टेक्नोलोजिसेस प्राइवेट लिमिटेड
10.	3935	मैसर्स कल्पना कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
11.	7755	मैसर्स मात्रू ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
12.	10607	मैसर्स सौम्या कन्सल्टेंट्स सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
13.	10776	मैसर्स सोसोरेक्स प्रोडक्न्स प्राइवेट लिमिटेड
14.	11908	मैसर्स मिक्टेल् टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड
15.	9441	मैसर्स लैंगफोर्ड लेदेर प्रोडक्त्स प्राइवेट लिमिटेड
16.	11372	मैसर्स बागदेवी चिट फंडस प्राइवेट लिमिटेड
17.	9387	मैसर्स किशा टूरस एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
18.	5463	मैसर्स हट्लाइन प्रोडक्त्स प्राइवेट लिमिटेड
19.	8372	मैसर्स एनेस्को टाइल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
20.	5955	मैसर्स पम्दासारथी सिलिंडर्स एंड फोर्निंस प्राइवेट लिमिटेड
21.	2826	मैसर्स एग्रो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
22.	6897	मैसर्स कैप लियो कन्सल्टेन्सी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
23.	10477	मैसर्स जनसेवा प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिसर्स प्राइवेट लिमिटेड
24.	2531	मैसर्स सी. एम. एम. इंसेन्स प्रोडक्त्स प्राइवेट लिमिटेड
25.	6081	मैसर्स बिबेकानन्द सिमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
26.	9029	मैसर्स एस. एन. जी. फार्नेस् प्रोडक्त्स प्राइवेट लिमिटेड
27.	9549	मैसर्स श्री विध्या ग्रानाइट टाइल एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
28.	8652	मैसर्स श्री स्फूर्ति डोमेस्टिक प्रोडक्त्स प्राइवेट लिमिटेड
29.	7868	मैसर्स कावेरी ग्राणाइड्स प्राइवेट लिमिटेड
30.	9377	मैसर्स कावेरी ऐपारेल्स प्राइवेट लिमिटेड
31.	9207	मैसर्स सूपर डीपवैल पम्पस प्राइवेट लिमिटेड
32.	8098	मैसर्स हाइड्रोजिन एण्ड एलाइड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
33.	11860	मैसर्स कस्मस् ऐजुकेशनल्स एड्स प्राइवेट लिमिटेड
34.	9553	मैसर्स ए. एस. पी. प्रमोटर्स लिमिटेड
35.	6292	मैसर्स पी. वी. कन्सल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
36.	9683	मैसर्स टुगां सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
37.	11917	मैसर्स जे. सुपर सर्व एक्सप्रेस पर्सल, कोरियर एण्ड मार्केटिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
38.	11226	मैसर्स पोन्नूर ग्रैनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
39.	6001	मैसर्स टबसते प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड
40.	7156	मैसर्स सिर्का इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
41.	10808	मैसर्स बहगिरि प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड
42.	11330	मैसर्स पोलर कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
43.	11328	मैसर्स हिमालय फ्रूट प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड
44.	2572	मैसर्स इमाजिन् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
45.	7222	मैसर्स मैक्सवैल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
46.	9004	मैसर्स एम. आर. फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड
47.	10229	मैसर्स कनक्वेस्ट इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
48.	1965	मैसर्स काम्पि इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
49.	10399	मैसर्स पोवित्रे रिसर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
50.	6302	मैसर्स मडले नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड
51.	5776	मैसर्स अकसया फर्ज प्राइवेट लिमिटेड
52.	8354	मैसर्स वैरागण लेदरस् प्राइवेट लिमिटेड
53.	7965	मैसर्स पून्जा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
54.	2785	मैसर्स ऐमेलकन् सिस्टेम्स प्राइवेट लिमिटेड
55.	8529	मैसर्स बंगलौर मैरिन्स लिमिटेड
56.	5311	मैसर्स प्रतिभा पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
57.	10063	मैसर्स कनटैक्ट मार्केटिंग एण्ड कन्सल्टेन्सी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
58.	8148	मैसर्स मीड् पैक टायर्स प्राइवेट लिमिटेड
59.	888	मैसर्स शीवादेज् कैमरा वर्क्स लिमिटेड
60.	2706	मैसर्स मल्टी स्पीड हब्स लिमिटेड
61.	11455	मैसर्स सीता ग्रेनाइट्स एण्ड ग्रेनाइट्स लिमिटेड
62.	3997	मैसर्स कोजी होमस् प्राइवेट लिमिटेड
63.	10239	मैसर्स सचेवरन मार्केटिंग कन्सल्टेन्स प्राइवेट लिमिटेड
64.	9495	मैसर्स डाटा टाक रिस्क मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
65.	9997	मैसर्स काथ्यायिनी होटेल्स प्राइवेट लिमिटेड
66.	9552	मैसर्स कोयेनको वेजीटेबल ऑयल रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड
67.	11402	मैसर्स अर्पिता वाच केंस प्राइवेट लिमिटेड
68.	7663	मैसर्स ब्राभूरा फैब्रिका प्राइवेट लिमिटेड
69.	3875	मैसर्स कैलाश वूड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
70.	11170	मैसर्स डेल्टा बैटरिज् प्राइवेट लिमिटेड
71.	535	मैसर्स विक्रम स्टूडियोज लैबस् प्राइवेट लिमिटेड
72.	9311	मैसर्स हैब्लर लियो मार्केटिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
73.	7168	मैसर्स एम. आई. टी. एसोसीयेट्स प्राइवेट लिमिटेड
74.	8632	मैसर्स अमरावनम् कन्स्ट्रक्शंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
75.	9762	मैसर्स गणेश मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
76.	9980	मैसर्स ऐजेल चीट्स प्राइवेट लिमिटेड
77.	5388	मैसर्स एरोकेम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
78.	5118	मैसर्स कुमार सरोमिकस् प्राइवेट लिमिटेड
79.	8726	मैसर्स पथी फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
80.	3658	मैसर्स सारड बायो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
81.	8565	मैसर्स सपला फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
82.	3910	मैसर्स डेल्टा एक्सट्रान्स् प्राइवेट लिमिटेड

सी. वी. सजीवन
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वैलफीटस प्राइवेट लिमिटेड के
विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 14 मार्च 2006

सं. 24-0408--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन महीने के उपरान्त कम्पनी मैसर्स वैलफीटस प्राइवेट लिमिटेड इसके प्रतिकूल कोई कारण दर्शित नहीं दिए गये तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

गो. कृ. पुरवार
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मेघना इन्वेस्टमेंट्स एण्ड
फाइनेन्सियल कन्सल्टेन्सी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 14 मार्च 2006

सं. 24-575--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन महीने के उपरान्त कम्पनी मैसर्स मेघना इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फाइनेन्सियल कन्सल्टेन्सी प्राइवेट लिमिटेड इसके प्रतिकूल कोई कारण दर्शित नहीं दिए गये तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

गो. कृ. पुरवार
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मधुमती इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट
लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 14 मार्च 2006

सं. 24-582--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन महीने के उपरान्त कम्पनी मैसर्स मधुमती इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड इसके प्रतिकूल कोई कारण दर्शित नहीं दिए गये तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

गो. कृ. पुरवार
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मधुमालिनी इन्वेस्टमेंट्स
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 14 मार्च 2006

सं. 24-583--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के

गो. कृ. पुरवार
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
गोवा

सं. 24-2005--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन महीने के उपरान्त कम्पनी मैसर्स अमास्को मरीन सर्वोसेस प्राइवेट लिमिटेड इसके प्रतिकूल कोई कारण दर्शित नहीं दिए गये तो उक्त कम्पनी

सं. 24-2562--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के

सं. 24-821--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन महीने के उपरान्त कम्पनी मैसर्स शामवी इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड इसके प्रतिकल कोई कारण दर्शित नहीं दिए गये तो उक्त कम्पनी

सं. 24-2311--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के

गो. कृ. पुरवार
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
गोवा

कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

गो. कृ. पुरवार
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बेटस ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 24-3784--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन महीने के उपरान्त कम्पनी मैसर्स बेटस ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड इसके प्रतिकूल कोई कारण दर्शित नहीं दिए गये तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

गो. कृ. पुरवार
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

कोच्चि-21, दिनांक 30 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.सी.एस./1372/06--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और निम्नलिखित कम्पनियां विघटित हो गयी हैं:--

क्र. सं.	पंजीकरण सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	2536	मैसर्स अरूर रि-रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	2686	मैसर्स प्रिया रब्वर इन्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
3.	3404	मैसर्स जया पेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4.	3679	मैसर्स के. एम. एम. एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
5.	3680	मैसर्स विन्थ्या पेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
6.	4134	मैसर्स किसान कोफी कूरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
7.	4177	मैसर्स स्टेरलिंग पोलि कन्टेनर्स प्राइवेट लिमिटेड
8.	4247	मैसर्स नर्मदा कन्स्ट्रक्शन मेटिरियल्स प्राइवेट लिमिटेड
9.	4455	मैसर्स प्रोम्ट सरवेयरस प्राइवेट लिमिटेड
10.	4488	मैसर्स शेयर्स फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट (इन्डिया) लिमिटेड

1	2	3
11.	4994	मैसर्स सौपरनिका फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
12.	5125	मैसर्स मेरी माथा मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
13.	5144	मैसर्स मिन्ना रबर्स प्राइवेट लिमिटेड
14.	5409	मैसर्स बेन्हर इन्वेस्टमेन्ट्स (बोम्बे) प्राइवेट लिमिटेड
15.	5466	मैसर्स नेहरू सेन्टिनरी होस्पिटल्स लिमिटेड
16.	5519	मैसर्स अरुण्डेल रबर्स लिमिटेड
17.	5586	मैसर्स एश्वरया कोट्टेजेस एण्ड विल्लास प्राइवेट लिमिटेड
18.	5652	मैसर्स जे. एण्ड. जे. होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
19.	5872	मैसर्स नीलमल गारमेन्ट्स लिमिटेड
20.	5961	मैसर्स इन्डियन सेन्ट्रिफ्यूजेस प्राइवेट लिमिटेड
21.	5979	मैसर्स मोनाल पिक्चरस प्राइवेट लिमिटेड
22.	6100	मैसर्स ट्रावन्को लेमिनेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
23.	6154	मैसर्स जे. बी. फेब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
24.	6181	मैसर्स अश्वथी प्लास्टिकस प्राइवेट लिमिटेड
25.	6223	मैसर्स मलनाडू हेल्थकेयर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
26.	6267	मैसर्स ब्लोकोन ब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
27.	6331	मैसर्स वरून एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
28.	6350	मैसर्स मूवाट्टुपुझा फाइनान्स एण्ड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड
29.	6366	मैसर्स स्क्रिलटेक इंजीनियरिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
30.	6389	मैसर्स वेल्डर रबर हवाई प्राइवेट लिमिटेड
31.	6410	मैसर्स जनता ट्रेड्स एण्ड रबर्स प्राइवेट लिमिटेड
32.	6586	मैसर्स गायडेन्स एन्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड
33.	6690	मैसर्स न्यूमैक स्टोक्स एण्ड शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
34.	6811	मैसर्स चंगलत ओटो एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड
35.	6893	मैसर्स वलपाड कुरीस प्राइवेट लिमिटेड
36.	6946	मैसर्स फैजल चिट फन्डस प्राइवेट लिमिटेड
37.	7045	मैसर्स सहया सर्विसिस एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
38.	7200	मैसर्स कारास अक्वा कल्चर प्राइवेट लिमिटेड
39.	7352	मैसर्स हैप्पी होलिडेस (टूरस एण्ड रिसोर्ट्स) प्राइवेट लिमिटेड
40.	7486	मैसर्स सेफगास अप्लायन्सिस प्राइवेट लिमिटेड
41.	7833	मैसर्स मंगला रोडवेस प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
42.	7893	मैसर्स ब्लूमार्क रिसोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
43.	7929	मैसर्स ला फेम्मे गारमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
44.	8238	मैसर्स चिन्गम कुरीस एण्ड लोन्स प्राइवेट लिमिटेड
45.	8327	मैसर्स मेरिया फाइनेन्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
46.	8355	मैसर्स अशोक मारमो मोसेक्स प्राइवेट लिमिटेड
47.	8409	मैसर्स गुरू गारमेन्ट्स एण्ड टेक्स्टाइल्स लिमिटेड
48.	8445	मैसर्स काक्कनाट ऑफसेट प्रिन्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
49.	8658	मैसर्स ट्रेड लिंक इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
50.	8770	मैसर्स रिलेशन्स एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
51.	8831	मैसर्स पाम कोर्ट होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
52.	8868	मैसर्स कैरली रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
53.	8947	मैसर्स मोरनिंग स्टार प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
54.	9107	मैसर्स कालिकट फोटो लिन्क प्राइवेट लिमिटेड
55.	9216	मैसर्स स्वर्गम टूरिस्ट होम प्राइवेट लिमिटेड
56.	9258	मैसर्स कैराली अकवा मैराइन प्राइवेट लिमिटेड
57.	9332	मैसर्स पेरिन्जेल्लूर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
58.	9487	मैसर्स बसाम डिस्ट्रिब्यूशन एण्ड सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
59.	9859	मैसर्स विश्वाभारत ऑफसेट प्राइवेट लिमिटेड
60.	9862	मैसर्स इन्डो इटालियन सिरामिक्स लिमिटेड
61.	9883	मैसर्स फिलकाप मार्किटिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
62.	9899	मैसर्स रियूनियन चिट् प्राइवेट लिमिटेड
63.	10137	मैसर्स वारियम बिल्डर्स एण्ड प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
64.	10143	मैसर्स यूनीक वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
65.	10208	मैसर्स जे. के. एम. डिजाइन कन्सोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड
66.	10261	मैसर्स इन्फो-आस्टेक प्राइवेट लिमिटेड
67.	10314	मैसर्स वज्र फार्म हाउसिंग एण्ड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
68.	10361	मैसर्स गोल्डन सिटी कुरीस एण्ड लोन्स प्राइवेट लिमिटेड कोडुगलूर
69.	10417	मैसर्स एक्सपर्ट लाइन्स एन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
70.	10510	मैसर्स सी. टेक. प्राइवेट लिमिटेड
71.	10655	मैसर्स कान्सो क्रेडिट्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
72.	10692	मैसर्स महा शक्ति आग्री मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
73.	10838	मैसर्स सिलेयर इन्वेस्टमेंट्स एण्ड हायर परचेसिस प्राइवेट लिमिटेड
74.	10861	मैसर्स रिजेन्टस्पिन प्राइवेट लिमिटेड
75.	10922	मैसर्स मुल्लूरकरा कुरीस एण्ड लोन्स प्राइवेट लिमिटेड
76.	10923	मैसर्स महा जनप्रिया कुरीस एण्ड लोन्स प्राइवेट लिमिटेड
77.	10939	मैसर्स गोल्डन लाइन कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
78.	10974	मैसर्स आनन्द ट्रान्स-सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
79.	10978	मैसर्स ड्रीम सिटी इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड
80.	11245	मैसर्स ओपशन्स बिजिनस सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
81.	11299	मैसर्स टेलिमाटिक्स स्टुडियो प्राइवेट लिमिटेड
82.	11332	मैसर्स मेरि कुक प्राइवेट लिमिटेड
83.	11365	मैसर्स विक्रोन कोटिंग्स इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड
84.	11407	मैसर्स मनालोडी सुपर बाजार प्राइवेट लिमिटेड
85.	11452	मैसर्स मैक्रोटैक इन्स्ट्र्यूट ऑफ सोफ्टवेयर टेक्नोलॉजी (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
86.	11501	मैसर्स मनिपाल परमानेंट बेनेफिट फन्ड (एरनाकुलम) लिमिटेड
87.	11502	मैसर्स मनिपाल परमानेंट बेनेफिट फन्ड (कण्णूर) लिमिटेड
88.	11503	मैसर्स मनिपाल परमानेंट बेनेफिट फन्ड (कोट्टायम) लिमिटेड
89.	11504	मैसर्स मनिपाल परमानेंट बेनेफिट फन्ड (कोयिलोन) लिमिटेड
90.	11505	मैसर्स मनिपाल परमानेंट बेनेफिट फन्ड (कालिकट) लिमिटेड
91.	11506	मैसर्स मनिपाल परमानेंट बेनेफिट फन्ड (कासरगौड) लिमिटेड
92.	11578	मैसर्स कारलोस ड्रग्स एण्ड सरजिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
93.	11665	मैसर्स गोल्डन लोन पार्क इन्वेस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
94.	11720	मैसर्स उकसन मनी लेन्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
95.	11735	मैसर्स डाइवरेजेन्ट बिजिनस इन्फोटेक सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
96.	11740	मैसर्स सहया हरबल एक्स्ट्रेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
97.	11779	मैसर्स वी. जे. इम्पोर्टर्स एण्ड एक्सपोर्टर्स केरला प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
98.	11825	मैसर्स तत्वमशि मार्केटिंग (इन्डिया) लिमिटेड
99.	11855	मैसर्स कुरीथाडम बिजिनस वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
100.	11891	मैसर्स आरगम सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
101.	12145	मैसर्स अक्षय स्टुडियोज प्राइवेट लिमिटेड
102.	12275	मैसर्स ओशयानिक टूल्स एण्ड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
103.	12318	मैसर्स अमेक्स रिसाईकलर्स लिमिटेड
104.	12327	मैसर्स सिराज ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
105.	12379	मैसर्स लियोन इन्जीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
106.	12467	मैसर्स लेटोन सोलार सिस्टम इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड
107.	12508	मैसर्स क्लासिक एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड
108.	12649	मैसर्स गजल सुपर मार्केट कम्पनी लिमिटेड
109.	12756	मैसर्स बॉडीगियर फिटनेस एक्ज्यूपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
110.	12767	मैसर्स मिल्लेनियम टेक्नोलॉजीस एण्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
111.	12848	मैसर्स एसी एक्सपोर्ट्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
112.	12954	मैसर्स डब्ल्यू.पी.जी. अक्वा पार्क ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
113.	12982	मैसर्स विद्या सिविल एण्ड स्ट्रक्चरल्स प्राइवेट लिमिटेड
114.	13024	मैसर्स बीमा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
115.	13119	मैसर्स धन्या सॉफ्टवेयर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
116.	13223	मैसर्स नीड्स मेडिकल एक्ज्यूपमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
117.	13277	मैसर्स सन लाइन केरला प्राइवेट लिमिटेड
118.	13313	मैसर्स अक्षय ब्रोडकास्ट एण्ड सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड
119.	13332	मैसर्स सीट्स इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजीस एण्ड सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
120.	13450	मैसर्स ओवियम इन्फो सोल्यूशन्स एण्ड टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
121.	13477	मैसर्स लोट्स कार लिंक्स इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड
122.	13930	मैसर्स स्टारगेट कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
123.	14035	मैसर्स जियोन इन्जीनियर्स एण्ड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
124.	14156	मैसर्स सेरीन फूड्स एण्ड बिजनेस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
125.	14221	मैसर्स एवर ग्रीन इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड
126.	14248	मैसर्स नवलोकम प्रिंटिंग एण्ड पब्लिशिंग कम्पनी लिमिटेड
127.	14429	मैसर्स केएलएम टूल्स एण्ड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
128.	14513	मैसर्स आन्टेक कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
129.	14550	मैसर्स केयरवेल स्पेशलिटी होस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड
130.	14630	मैसर्स जाम्बजी ट्रेडवे सुपर बाजार प्राइवेट लिमिटेड
131.	14633	मैसर्स मुडपिलावु ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड
132.	15094	मैसर्स बोम्बे ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
133.	15586	मैसर्स केरलबूमी चिट्टीस प्राइवेट लिमिटेड
134.	15622	मैसर्स सिप कमर्शियल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
135.	15632	मैसर्स टिजा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
136.	15647	मैसर्स प्रिन्स रबर फोम प्राइवेट लिमिटेड
137.	15702	मैसर्स पिग पेन्ट्री (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
138.	15712	मैसर्स ग्रेस कम्प्युनिकेशन्स एण्ड सरविसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
139.	16053	मैसर्स रोडस्टोन टायर्स इन्डिया लिमिटेड
140.	16607	मैसर्स सांइस डे रूट प्राइवेट लिमिटेड
141.	17078	मैसर्स आल्टरनेटिव फाम प्राइवेट लिमिटेड
142.	17178	मैसर्स परिमल आयुर्वेदिक प्राइवेट लिमिटेड

एस. एम. अमीरुल मिल्लथ
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 9th January 2006

No. A-19014/03/2000-Admn. I.—On completion of his extended tenure of deputation at Centre, Shri Pravin Srivastava, ISS (83), is relieved of his duties as Joint Secretary (Director Level) in the Union Public Service Commission w.e.f. 9th January, 2006 (Forenoon).

2. Shri Pravin Srivastava is also granted 59 days Earned Leave w.e.f. 9th January, 2006 to 8th March, 2006 in terms of GOI, DOP & Trg. O. M. No. 27 (38)-EO/87 (SM) dated 20th May, 1987.

3. On expiry of his leave, Shri Pravin Srivastava shall report to his parent cadre, i.e. Ministry of Statistics and Programme Implementation.

S. ANANDAN
Under Secretary (Admn.)

The 15th February 2006

No. A-19014/15/2001-Admn. I.—Consequent upon his allocation to the cadre of Ministry of Statistics and Programme Implementation for appointment to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS vide Department of Personnel & Training OM No. 4/13/2005-CS. I dated 31st January, 2006, Shri Dharam Pal, CSS, working as Under Secretary in the UPSC is relieved of his duties in the office of the Commission w.e.f. the forenoon of 15th February, 2006.

2. Shri Dharam Pal is clear from vigilance angle.

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)

The 10th March 2006

No. A-35017/1/2005-Admn. II.—In pursuance of the recommendation of the Union Public Service Commission, Hon'ble Chairman, UPSC hereby appoints Shri Sanjay Varma, Deputy Controller of Factory & Accounts borne on the cadre of the Controller General of Defence Accounts, to the post of Finance & Budget Officer in the Commission's office in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on deputation basis for a period of three years w.e.f. 09.03.2006 to 08.03.2009 or until further orders, whichever is earlier.

2. During his appointment as Finance & Budget Officer as above, the pay of Shri Sanjay Varma will be regulated in accordance with the provisions contained in the DoP&T O. M. No. 2/29/91-Estt. (Pay-II) dated 05.01.1994 as amended from time to time.

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)
for Chairman

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110 003, the 27th March 2006

No. DP/Pers. I/2006/00061/3/21/2004.—On his appointment as Director General, National Human Rights Commission, services of Shri D. Mukherjee, IPS (TN : 1971) Additional Director, CBI have been placed at the disposal of Ministry of Home Affairs, Govt. of India, New Delhi w.e.f. the afternoon of 03.03.2006.

S. D. BAIJAL
Administrative Officer (Pers.)

No. DP/Pers. I/2006/00062/3/51/2002.—The President is pleased to appoint Shri Rajni Kant Mishra (UP : 1984) as Joint Director in Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 22nd March, 2006 for a period upto 07.10.2009, or until further orders, whichever is earlier.

S. D. BAIJAL
Administrative Officer (Pers.)

No. DP/Pers. I/2006/00063/3/23/2000.—The President is pleased to appoint Shri B. B. Mishra (AM : 1983) as Joint Director in Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 22nd March, 2006 for a period upto 08.06.2007, or until further orders, whichever is earlier.

S. D. BAIJAL
Administrative Officer (Pers.)

The 30th March 2006

No. DP/Pers. I/2006/0064/3/14/94-Pers.I.—The President is pleased to appoint Shri V. N. Verma, Deputy Supdt. of Police to the grade of Additional Supdt. of Police in C.B.I. in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. 7.3.2006 (FN) on promotion.

S. D. BAIJAL
Admn. Officer (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(BUREAU OF POLICE RESEARCH & DEVELOPMENT)

New Delhi-110 003, the 3rd April 2006

No. 18/5/2003-Admn. II (Pt. II).—The Director General, Bureau of Police Research & Development is pleased to appoint the following officers as Deputy Superintendent of Police on deputation basis in the Central Detective Training Schools, Chandigarh, and Hyderabad under Bureau of Police Research & Development cadre with effect from the date and period mentioned against each in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-—

Sl. No.	Name & Parent Department	Appointment on deputation basis as Deputy Superintendent of Police		Place of Posting
		From	To	
1.	Shri V. S. Kanwar, ACIO-I/G, Intelligence Bureau, New Delhi.	2.1.2006	1.1.2009	Central Detective Training School, Chandigarh.
2.	Shri C. S. Shahid, ACIO-I/G, Intelligence Bureau, New Delhi.	10.1.2006	9.1.2009	Central Detective Training School, Chandigarh.
3.	Shri Ramesh Chander, ACIO-I/G, Intelligence Bureau, New Delhi.	27.1.2006	26.1.2009	Central Detective Training School, Chandigarh.
4.	Shri P. J. George, ACIO-I/G, Intelligence Bureau, New Delhi.	13.2.2006	12.2.2009	Central Detective Training School, Hyderabad.

A. K. SOOD
Assistant Director (Admn.) *

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110 003, the 17th March 2006

No. O. II. 3049/92. Pers. I.—Consequent on acceptance of resignation notice dated 25.11.2005 by the competent authority, Shri P. K. Singh, 2-I/C (IRLA No. 3359) of 54 Bn., CRPF has relinquished the charge of his post on the afternoon on 04.03.2006. Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from 04.03.2006 (AN).

J. N. SHARMA
Addl. DIGP (Pers. I)

The 28th March 2006

No. O. II. 3685/06-CRC (MOs).—The President is pleased to appoint Dr. Thokchom Motilal Singh as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 06.03.2006 till further order. He is posted to 128 Bn.

J. N. SHARMA
Addl. DIGP (Pers. I)

No. O. II. 3686/06-CRC (MOs).—The President is pleased to appoint Dr. Kishori Lal Meena as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the afternoon of 07.03.2006 till further order. He is posted to 168 Bn.

J. N. SHARMA
Addl. DIGP (Pers. I)

The 29th March 2006

No. O. II-809/71-CRC (MOs).—On his superannuation from service Dr. Dipak Mohapatra CMO (NFSG) (IRLA-817) CRPF, made over charge of his post from the afternoon

of 28.02.2006. Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force from 28.02.2006 (AN).

J. N. SHARMA
Addl. DIGP (Pers.-I)

DIRECTORATE GENERAL (CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE)

New Delhi-110 003, the 31st March 2006

No. E-31013(2)/5/2004/Pers. II/1024.—The following Assistant Commandants (Exe) of CISF who are presently on deputation, are hereby granted proforma promotion under 'Next Below Rule' to the rank of Deputy Commandant in CISF in the pay-scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from date mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of officer	On deputation to	Date of proforma promotion
1.	S/Shri Kumar Pratap Singh	SPG	02.03.06 (FN)
2.	Apoorv Pandey	NCB	02.03.06 (FN)

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS) SECURITY PAPER MILL

Hoshangabad-461 005, the 28th March 2006

No. 7 (146)/1878.—The notice dated 23.03.2006 for voluntary retirement submitted by Shri Ram Badan Ram,

Technical Officer, Production (Group 'B' Gazetted) is hereby accepted.

Accordingly, he will be retired from Govt. services with effect from 01.04.2006 (F. N.) allowing relaxation in notice period provided under rule 48(A) of Central Civil Services (Pension) 1972.

B. K. PATHAK
General Manager

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES
(OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER)
(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 24th March 2006

No. A-19018(1705)/2005-Admn. (G).—The President is pleased to appoint Shri Sunil Kumar Newar, Assistant Director (Grade-I) (Electronics) at Branch Small Industries Service Institute, Tura under Small Industry Development Organisation with effect from the forenoon of 3.2.2006 until further orders.

D. K. GAUTAM
Dy. Director (Admn.)

MINISTRY OF MINES
(INDIAN BUREAU OF MINES)

Nagpur, the 29th March 2006

No. A-19011/461/2006-Estt. A.—On the recommendation of Departmental Promotion Committee Shri C. S. Tiwari Assistant Mineral Economist (Int) has been promoted to the post of Deputy Mineral Economist (Int) in Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 16.3.2006 (F. N.).

S. K. BATAV
Sr. Admn. Officer
for Controller General

No. A-19011/473/2006-Estt. A.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri M. M. Soman, Assistant Mineral Economist (Int) has been promoted to the post of Deputy Mineral Economist (Int) in Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 13.3.2006 (A. N.).

S. K. BATAV
Sr. Admn. Officer
for Controller General

(GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

Kolkata-16, the 31st March 2006

No. 997C/A-32013/2-G(I)(J)/2000/19B.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to approve the appointment of the following Assistant Geophysicists (Insttn) Gr-I

in Geological Survey of India on promotion to the post of Geophysicists (Jr.) (Insttn) in the same department on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on regular basis with effect from the date as mentioned against each until further orders:—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of joining to the Post of Geophysicist (Jr.) (Insttn)
1.	Sri Amitava Ghosh	19.10.2005 (FN)
2.	Sri Kamal Kishore	18.10.2005 (AN)
3.	Smt. Sushmita Das	19.10.2005 (FN)
4.	Sri Amitava Das	18.10.2005 (AN)
5.	Sri Tapan Moni Bandopadhyay	18.10.2005 (FN)
6.	Smt. N. G. Sarwate	18.10.2005 (AN)
7.	Sri Udai Vir Singh	18.10.2005 (AN)
8.	Sri Sabyasachi Patra	18.10.2005 (AN)

S. K. SINHA
Sr. Administrative Officer
for Director General

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
(DIRECTORATE OF ADVERTISING & VISUAL PUBLICITY)

New Delhi-110001, the 21st March 2006

No. 21/4/2001-Admn. II.—The Director, Directorate of Advertising & Visual Publicity is pleased to appoint the following Accountants as Assistant Accounts Officers in this Directorate on regular basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of regular appointment as Asstt. Accounts Officer
	S/Shri	
1.	S. K Gupta	03.02.2006 (FN)
2.	Dewan Chand	03.02.2006 (FN)

P. M. GEORGE
Dy. Director (Admn.)

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)
DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad, the 28th March 2006

No. A-19025/60/80-A. I.—On attaining the age of superannuation, Shri A. K. Sabui, Marketing Officer (Grade-III),

Directorate of Marketing & Inspection, Regional Office, Kolkata has retired from Government Service with effect from 28th February, 2006 (Afternoon).

A. K. CHOPRA
Under Secy.

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 24th March 2006

No. PD/11(1)/2006-R-III/2006/2291.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. S. Komalavalli, Assistant, BARCF, Kalpakkam to officiate as Assistant Personnel Officer on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- from 05.12.2005 (FN) to 06.01.2006 (AN).

D. DASARATHAN
Dy. Establishment Officer

The 29th March 2006

No. PD/11(1)/2006-R-III/2006/2400.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Sandeep S. Deokar, Upper Division Clerk, as Assistant Personnel Officer in this Research Centre on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 30.01.2006 (FN) to 10.03.2006 (AN).

D. DASARATHAN
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 30th March 2006

No. 6 (2426)/2006/Adm/2521.—The President is pleased to appoint Dr. Jitendra Kumar as Legal Adviser to the Government of India in the Department of Atomic Energy Secretariat, Mumbai in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/-, with effect from the forenoon of 22nd March, 2006.

Dr. Kumar will be on probation for a period of one year with effect from 22.03.2006.

P. P. MADHAVAN KUTTY
Under Secy.

(RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY)

Indore, the 24th March 2006

No. RRCAT/Admn/R-728(SRD)/209.—The President is pleased to appoint Shri Jugraj Meena as Scientific Officer/C in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the forenoon of 17.3.2006 in an officiating capacity in the Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore until further orders.

D. S. RAO
Chief Administrative Officer

(BOARD OF RADIATION AND ISOTOPE TECHNOLOGY)

Navi Mumbai-400 705, the 24th March 2006

No. BRIT/9/17/Aug/05/15.—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'D' of the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officers/Engineers Grade 'E' in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- in the same unit in an officiating capacity with effect from the forenoon of August 01, 2005 until further orders:—

Sl. No.	Name
1.	Shri M. S. Padte
2.	Shri G. Prabhakar
3.	Shri M. K. Mammachan
4.	Shri Amit Shrivastava

A. K. KOHLI
Chief Executive

No. BRIT/9/17/Aug/05/16.—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'C' of the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officers/Engineers Grade 'D' in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the same unit in an officiating capacity with effect from the forenoon of August 01, 2005 until further orders:—

Sl. No.	Name
1.	Shri Rajesh Kumar
2.	Shri Kuldeep Kumar Sharma
3.	Shri Chetan Kothalkar
4.	Shri Anupam Mathur

A. K. KOHLI
Chief Executive

No. BRIT/9/17/Aug/05/17.—The President is pleased to appoint Shri Repaka Krishnamohan Scientific Officer/Engineer Grade 'C' of the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officer/Engineer Grade 'D' in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the same unit in an officiating capacity with effect from the forenoon of August 03, 2005 until further orders.

A. K. KOHLI
Chief Executive

No. BRIT/9/17/Aug/05/18.—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'SB' of the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officers/Engineers Grade 'C' in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in the same unit in an officiating capacity with effect from the forenoon of August 01, 2005 untill further orders:—

Sl. No.	Name
---------	------

- | | |
|----|---------------------|
| 1. | Shri V. T. P. Vinod |
| 2. | Shri M. Bose |

A. K. KOHLI
Chief Executive

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL
AVIATION

New Delhi-110 003, the 29th March 2006

No. A-19011/6/90-E.II.—On attaining the age of superannuation, Capt. R. L. Biala, Deputy Director General stands retired from Government Service with effect from 31.03.2006 (Afternoon).

CHANAN RAM
Dy. Director of Administration

INCOME-TAX APPELLATE TRIBUNAL

Mumbai-400 020, the 23rd March 2006

No. F. 301-Ad (AT)/2005.—Smt. Geetha Jayakumar, P. S., Directorate of Intelligence, Ministry of Defence, Air Headquarters (Vayu Bhawan), New Delhi is appointed to officiate as Private Secretary in the Income-tax Appellate Tribunal, Mumbai Benches Mumbai with H. Qr's at Chennai in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 19.09.2005 (F. N.) on deputation basis for a period of three years on the usual terms and conditions of deputation contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, (Dep't. of Personnel & Training) O. M. No. 2/29/91-Estt. (Pay-II) dated 05.01.1994 as amended from time to time.

VIMAL GANDHI
President

No. F. 48-Ad (AT)/2006.—Shri K. N. Gopalan, Head Clerk, Income-tax Appellate Tribunal, Chennai Benches, Chennai is appointed to officiate as Assistant Registrar on ad hoc basis in the Income-tax Appellate Tribunal, Mumbai Benches, Mumbai in a purely temporary capacity with effect from the forenoon of 13th March, 2006 for a period of six months in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

The above appointment is ad hoc and will not bestow upon him any claim for regular appointment in the grade and the services rendered by him on ad hoc basis will not count for the purpose of seniority in that grade or for eligibility for promotion to the next higher grade.

VIMAL GANDHI
President

No. F. 48-Ad (AT)/2006.—Shri R. Kaliaperumal, Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Chennai Benches, Chennai retired from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 28th February, 2006.

VIMAL GANDHI
President

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and application under Simplified Exit Scheme-2005 under Section 560 and of the following Companies:—

Jalandhar, the 2006

Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies has this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved:—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	429	M/s. North India Satsang Stores Private Limited
2.	11772	M/s. Medini Agro Private Limited
3.	2582	M/s. Ramanjiv Pharma Private Limited
4.	4968	M/s. Sachdeva Sons Spinning & Weaving Mills Private Limited
5.	11203	M/s. Gagan Cotom Oil & General Mills Private Limited
6.	14139	M/s. Sunam Agro Products Private Limited
7.	10876	M/s. Medini Entertainment Private Limited
8.	3042	M/s. Universal Screw Factory Private Limited
9.	25860	M/s. Spectrum Mart Private Limited
10.	27210	M/s. Hi-Tech Advertisers Private Limited
11.	1783	M/s. S. R. Wires Private Limited

1	2	3
12.	17735	M/s. J. I. B. Builders Private Limited
13.	17056	M/s. Dashmesh Ultra Sound Scan & Diagnostic Centre Private Limited
14.	6224	M/s. Jay Kay Feed Mills Private Limited
15.	8707	M/s. Sharp Forgings Limited
16.	27105	M/s. Northland Publicity Private Limited
17.	7641	M/s. Wadalia Food & Feed Private Limited
18.	22390	M/s. Holiday Motels & Resorts Private Limited
19.	20614	M/s. Sierra Resorts and Condominiums Private Limited
20.	22655	M/s. Shiva Weld Mesh Private Limited
21.	8867	M/s. North India Pre Stressers Private Limited
22.	5549	M/s. Khazanewal Builders and Colonisers Private Limited
23.	22267	M/s. Kairon Cr Finance Private Limited
24.	17018	M/s. K and K Transfarmers Private Limited
25.	15906	M/s. N. H. Spinning & Weaving Private Limited
26.	16100	M/s. Bains Financial Services Private Limited
27.	19860	M/s. N. B. & N. R. Resorts Private Limited
28.	17823	M/s. Bharat Cargo Limited
29.	22618	M/s. Benzer Coatings Private Limited
30.	14036	M/s. Harmindera Engineering Works Private Limited
31.	12041	M/s. Sun Textile Mills Private Limited
32.	13989	M/s. Lotus Financial Services Private Limited
33.	22693	M/s. Asha Fashion World Private Limited
34.	20333	M/s. Bake Fresh Foods Private Limited
35.	19575	M/s. MMK Constructions Private Limited
36.	461	M/s. S. B. Sapuran Singh Chawla & Sons Private Limited
37.	5549	M/s. Manu Tarding & Finance Company Private Limited
38.	24275	M/s. Millennium Automotive Private Limited
39.	4804	M/s. B. S. Ceramics & General Industries Limited

1	2	3
40.	8169	M/s. Deepali Tubes Private Limited
41.	13334	M/s. Reliance Malleable Private Limited
42.	27081	M/s. Dr. Mehta Products Limited
43.	26166	M/s. Hazel Securities Private Limited

MANMOHAN JUNEJA
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Giri Lime and Chemical Private Limited

Jalandhar, the 22nd March 2006

No. PC/560(3)/13455/10336.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Giri Lime and Chemical Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MANMOHAN JUNEJA
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Prem Chand Roller Flour Mills Private Limited

Jalandhar, the 22nd March 2006

No. PC/560(3)/21258/10333.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Prem Chand Roller Flour Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MANMOHAN JUNEJA
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Devarshi Agro Products Private Limited

Kanpur-208 001, the 28th March 2006

No. 560(3)/SES-5605/22361/5641.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Devarshi Agro Products Private Limited unless cause is shown to

the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Spark Securities Private Limited

Kanpur-208 001, the 28th March 2006

No. 560(3)/SES-5605/17051/5645.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Spark Securities Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. MCB Marketing Private Limited

Kanpur-208 001, the 28th March 2006

No. 560(3)/SES-5605/25667/5650.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. MCB Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Meetu Udyog Limited

Kanpur-208 001, the 28th March 2006

No. 560(3)/SES-5605/15358/5654.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Meetu Udyog Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Meetu Plastics Private Limited

Kanpur-208 001, the 28th March 2006

No. 560(3)/SES-5605/9505/5658.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Meetu Plastics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Diamond Television Private Limited

Kanpur-208 001, the 28th March 2006

No. 560(3)/SES-5605/6633/5662.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Diamond Television Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Saran Packaging Industries Private Limited

Kanpur-208 001, the 28th March 2006

No. 560(3)/SES-5605/9592/5666.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Saran Packaging Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shitij Publications Private Limited

Kanpur-208 001, the 28th March 2006

No. 560(3)/SES-5605/13672/5670.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shitij

Publications Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kamal Shail Hospital Private Limited

Kanpur-208 001, the 28th March 2006

No. 560(3)/SES-5605/25774/5675.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Kamal Shail Hospital Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. B. N. Khanna Construction Company Private Limited

Kanpur-208 001, the 29th March 2006

No. 560(3)/LC/4342/5693.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. B. N. Khanna Construction Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Baid Investments Services Limited

Kanpur-208 001, the 29th March 2006

No. 560(3)/LC/16394/5695.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Baid Investments Services Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Saharanpur Printing Research Centre Private Limited

Kanpur-208 001, the 29th March 2006

No. 560(3)/LC/13549/5697.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Saharanpur Printing Research Centre Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nauchandi Motor & General Financiers Private Limited

Kanpur-208 001, the 29th March 2006

No. 560(3)/LC/8530/5700.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Nauchandi Motor & General Financiers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Midas Investments Limited

Kanpur-208 001, the 29th March 2006

No. 560(3)/LC/6533/5702.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Midas Investments Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kiran Hotels Private Limited

Kanpur-208 001, the 29th March 2006

No. 560(3)/LC/3381/5704.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Kiran Hotels

Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Stock Land Mercantile Limited

Kanpur-208 001, the 29th March 2006

No. 560(3)/LC/16300/5706.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Stock Land Mercantile Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Meera Neogaiyya Suppliers Private Limited

Kanpur-208 001, the 29th March 2006

No. 560(3)/LC/21220/5708.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Meera Neogaiyya Suppliers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mayur Animal Feeds Private Limited

Kanpur-208 001, the 29th March 2006

No. 560(3)/LC/9016/5710.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Mayur Animal Feeds Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vijyankar Rice Mills Private Limited

Kanpur-208 001, the 29th March 2006

No. 560(3)/LC/1657/5712.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Vijyankar Rice Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Raj Rishi Motor Finance Private Limited

Kanpur-208 001, the 29th March 2006

No. 560(3)/SES-5605/20695/5718.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Raj Rishi Motor Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajnandani Agro Food Processors Private Limited

Jaipur, the 23rd March 2006

No. ROC/JPR/560/16441/360.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after the expiry of three months from the date hereof the name of the M/s. Rajnandani Agro Food Processors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Girdhar Housing Private Limited

Jaipur, the 24th March 2006

No. ROC/JPR/560/19225/364.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after the expiry of three months from the date hereof the name of the M/s. Girdhar Housing

Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. ITR Solutions Private Limited

Jaipur, the 24th March 2006

No. ROC/JPR/560/16990/368.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after the expiry of three months from the date hereof the name of the M/s. ITR Solutions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the
following Companies

Mumbai-400 002, the 24th March 2006

No. 560(5)/2003.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off from the Register of the Companies and the following Companies are dissolved:—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	94966	M/s. G. Nitin Gems & Exports Company Limited
2.	131235	M/s. Eden Brokers & Consultants Private Limited
3.	92745	M/s. Nakoda Plastic Private Limited
4.	82464	M/s. Amdini Finance & Securities Private Limited
5.	58582	M/s. Sarita Hotels Private Limited
6.	108376	M/s. Sarita Greens Private Limited
7.	76146	M/s. Mid West Computers Private Limited
8.	93647	M/s. Midwest Corporate Services Limited
9.	63284	M/s. Swift Computers & Services Private Limited
10.	124811	M/s. Geometric Infoway Private Limited

1	2	3
11.	124252	M/s. M. T. Source Technology Private Limited
12.	73702	M/s. Fortune Insurance Brokers Private Limited (C/N)
13.	82884	M/s. Eurosoft Technologies Private Limited
14.	126965	M/s. Eurosoft Investment Private Limited
15.	83141	M/s. Barkha Breweries Private Limited
16.	74594	M/s. Barkha Tour & Travels Private Limited
17.	98909	M/s. Divya Deep Credit Leasing & Finance Private Limited
18.	100289	M/s. Guide Credit Leasing & Finance Private Limited
19.	80171	M/s. Dharmesh Finance (Bombay) Private Limited
20.	69042	M/s. Siddhi Metal & Tin Containers Private Limited
21.	67183	M/s. Savalia Exports Private Limited
22.	130375	M/s. Jumpstart Infotech Private Limited
23.	97313	M/s. Arfa Agro Industries Private Limited
24.	121487	M/s. La Jolla Impex Private Limited B 2633
25.	121343	M/s. Lehar Software Private Limited
26.	64812	M/s. Ark Ship Consultancy Private Limited
27.	95902	M/s. Empire Shipping Limited
28.	118426	M/s. Surajtara Holdings and Trading Private Limited
29.	103317	M/s. Apricot Infotech Private Limited
30.	77082	M/s. Savalia Builders Private Limited
31.	84803	M/s. Horizen Associates Private Limited
32.	69711	M/s. Goradia Horticulturist Private Limited
33.	69723	M/s. Raigarh Cement Private Limited
34.	83983	M/s. Bagesri Finance Private Limited
35.	73238	M/s. U. T. C. Carriers Private Limited
36.	119272	M/s. Graphicacy Jasra (India) Private Limited
37.	99671	M/s. Chokshi Mercantile Company Private Limited
38.	126897	M/s. Softtron Infotech (India) Private Limited
39.	86355	M/s. Amature Builders Private Limited
40.	90395	M/s. Shreeji Fininvest Private Limited
41.	62701	M/s. Javed Silk Mills Private Limited

1	2	3
42.	91667	M/s. Mega Speed Liners (India) Private Limited
43.	57466	M/s. Arun Galvanisers & Fabricators Private Limited
44.	99960	M/s. Prakash Foundation Private Limited
45.	56657	M/s. Tulsi Shyam Property Private Limited
46.	96070	M/s. Zed Controls Private Limited
47.	56656	M/s. Kesar Niwas Property Private Limited
48.	69418	M/s. Firefly Laser Systems (India) Private Limited
49.	73746	M/s. Gondwana Mineral Products Limited
50.	111709	M/s. Strategy Engines Consulting Private Limited
51.	124969	M/s. Cronus Softtek Private Limited
52.	124970	M/s. Infovision Technologies and Services (India) Private Limited
53.	73757	M/s. Shrishti Plantation Private Limited
54.	95679	M/s. Vidhi Pharma Private Limited
55.	110379	M/s. Arihant Weldfab Private Limited
56.	129555	M/s. Angel Sundernathjee Investments Private Limited
57.	99420	M/s. Lancestar Properties Private Limited
58.	55817	M/s. La-Veda Exports Private Limited
59.	98305	M/s. Solid Exports Limited
60.	80407	M/s. Krishna Writing Instruments Private Limited
61.	123179	M/s. Green Aromas Private Limited
62.	106466	M/s. Link Tele-Image Limited
63.	72733	M/s. Abha Marketing Private Limited
64.	66121	M/s. Pyramid Marketing Syndicate Private Limited
65.	139434	M/s. Suryashakti Solar Technologies Private Limited
66.	128922	M/s. Finery (India) Private Limited
67.	105583	M/s. Radhakrishna Departmental Stores Private Limited
68.	96765	M/s. Rashe Equifin Private Limited
69.	123599	M/s. Bheeshmarjun General Trading Private Limited
70.	124909	M/s. Juvena Investrade Private Limited

1	2	3
71.	124906	M/s. Awin Investrade Private Limited
72.	124960	M/s. Suwin Securinvest Private Limited
73.	124919	M/s. Diastar Securities Private Limited
74.	130024	M/s. Triumph Online Broking Services Private Limited
75.	62265	M/s. Arihant Paper Agencies Private Limited
76.	120108	M/s. Kanak Dhara Import Export Private Limited
77.	100272	M/s. Sound Trading & Film Distribution (Bombay) Private Limited
78.	81109	M/s. Auto & Industrial Bearings Sales Private Limited
79.	96442	M/s. Pulkit Exports Private Limited
80.	62554	M/s. Milba Investments & Finance Private Limited
81.	103139	M/s. Laxmi Bobbins Private Limited
82.	83820	M/s. Dosani Investments & Financial Services Private Limited
83.	77658	M/s. Mansukhlal Synfabs Private Limited
84.	118194	M/s. Vigi's Ranch Private Limited
85.	107537	M/s. Malkowns Land Developers Private Limited
86.	104004	M/s. Antriksh Consultancy Private Limited
87.	81550	M/s. Adinath Engineering Private Limited
88.	81549	M/s. Aram Tex Manufacturing Private Limited
89.	89210	M/s. Nglene Textiles Private Limited
90.	93007	M/s. ASC Mobile Communication Limited
91.	65377	M/s. Suna Cables Private Limited
92.	77198	M/s. Nuwell Electro Systems Private Limited
93.	110620	M/s. Zahid Shackles & Grips Private Limited
94.	121520	M/s. Punarvine Pharmaceuticals Private Limited
95.	88849	M/s. Bubble Control System Private Limited
96.	94111	M/s. Rodney Securities Private Limited
97.	82005	M/s. Pamtronics Medical Equipments Private Limited
98.	132768	M/s. Silver Network and Marketing Private Limited
99.	68635	M/s. Intec Financial Services Private Limited

1	2	3
100.	60021	M/s. Movieland Video (India) Private Limited
101.	119490	M/s. Henal Impex Private Limited
102.	114056	M/s. Kai Computer Age Solutions Private Limited
103.	101914	M/s. Tarana Trading Private Limited
104.	127954	M/s. Tele Video Network India Private Limited
105.	99511	M/s. Indusind Media Marketing and Advertising Private Limited
106.	95731	M/s. Diamond Caterers Private Limited
107.	90515	M/s. Muni Pharma Private Limited
108.	75762	M/s. Pratham Finance & Leasing Private Limited
109.	119749	M/s. Shimandhar Holdings & Investments Private Limited
110.	75379	M/s. Captain Securities and Holdings Private Limited
111.	134493	M/s. Gyro Infotech Private Limited
112.	103482	M/s. Henderson Gandhe Architects Private Limited
113.	124640	M/s. Data-Ray Computers Private Limited
114.	71530	M/s. Prompt Travels Private Limited
115.	76595	M/s. Kshipra Consultancy Private Limited
116.	103627	M/s. Pampa Fin & Forex Private Limited
117.	96544	M/s. Supuja Securities Private Limited
118.	62764	M/s. Kamaldeep Export Private Limited
119.	130766	M/s. Vega Consulting Services Private Limited
120.	68175	M/s. Khetan Solvent and Refinery Limited
121.	95958	M/s. Darshan Shipping Company Private Limited
122.	73291	M/s. Modern Capital and Finance Limited
123.	86003	M/s. Caidya Investment Private Limited
124.	73503	M/s. Invitation Trading Private Limited
125.	117598	M/s. Suruchi Pickles & Food Private Limited
126.	55158	M/s. Puja Finance & Investments Private Limited
127.	58091	M/s. Krishna Sharetech Services Private Limited
128.	127799	M/s. Remotebazaar.Com (India) Private Limited

1	2	3
129.	76865	M/s. Sunasi Investments Private Limited
130.	120733	M/s. Sarla Software Private Limited
131.	93499	M/s. Saras Corporate Services Limited
132.	118371	M/s. Adiman Financial Services Private Limited
133.	115901	M/s. Shubhangan Financial Services Private Limited
134.	119878	M/s. Green Channel Fiscal Services (India) Private Limited
135.	59537	M/s. Sydelle Agro-Farm Private Limited
136.	98163	M/s. Gemini Studios Private Limited
137.	99458	M/s. Gemini Visions Private Limited
138.	82949	M/s. Maliks Accessories Private Limited
139.	83201	M/s. Khathawala Leasing & Investment Services Private Limited
140.	103471	M/s. Shield Aerolubes Private Limited
141.	106612	M/s. Shantivan Infin Private Limited
142.	856199	M/s. Sovin Finance & Investments Private Limited
143.	72009	M/s. Manatel Resourcing Agency Private Limited
144.	83382	M/s. M. M. Poonjiaji Foods Limited
145.	82233	M/s. Singhania Construction Company Private Limited
146.	85496	M/s. Rambless Trading Company Private Limited
147.	92217	M/s. Rambless Securities Private Limited
148.	125036	M/s. Bconnect B Worldwide Limited B 2916
149.	67779	M/s. Sentinel Finance Private Limited
150.	114491	M/s. Pacmarine Services Private Limited
151.	127737	M/s. N. V. O. Logistic (India) Private Limited
152.	124528	M/s. Kruti Construction Private Limited
153.	73427	M/s. Priyanka Remedies Private Limited
154.	129289	M/s. California Systems (India) Private Limited
155.	91734	M/s. Damien Credit-Capitals Private Limited
156.	107541	M/s. R. V. A. Consultants Limited
157.	97423	M/s. Puruskrit Fincap Private Limited
158.	76463	M/s. Logicon Electronics (India) Private Limited

1	2	3
159. 55758	M/s. Amma Lines Capital Trust Private Limited	
160. 62328	M/s. Cab Advertising India Private Limited	
161. 69798	M/s. View Point Engineering Consultancy Private Limited	
162. 65481	M/s. Kite Overseas Private Limited	
163. 69821	M/s. Vicotry Investment Consultant Private Limited	
164. 69801	M/s. Evergreen Diamonds Private Limited	
165. 111387	M/s. Seven Star Satellite Network Limited	
166. 68659	M/s. Foodco Caterers India Limited	
167. 83290	M/s. Pal India Shipping Agency Private Limited	
168. 113355	M/s. Synthesis Advisory Services Private Limited	
169. 101336	M/s. Chirkal Finance Private Limited	
170. 109486	M/s. Asha Laxmi Mercantile Private Limited	
171. 104743	M/s. Boar Investment Private Limited	
172. 104881	M/s. Benin Properties Private Limited	
173. 86938	M/s. K. P. Oilfield Engineers & Contractors Private Limited	
174. 55219	M/s. Jasai Containers Services Private Limited	
175. 103591	M/s. Gold Concepts (India) Private Limited	
176. 59055	M/s. Bafna Builder Private Limited	
177. 104190	M/s. Shristi Leasing & Finance Private Limited	
178. 82620	M/s. Jay Mangal Securities and Finanz Private Limited	
179. 109954	M/s. Sopura Economy Hygiene Private Limited	
180. 105880	M/s. Techno-Food Engineering (India) Private Limited	
181. 73207	M/s. Shreefab Syntex Private Limited	
182. 64758	M/s. Century Silk Mills Private Limited	
183. 101730	M/s. Champion Paper Mills Private Limited	
184. 99924	M/s. Champion Capital Management & Finance Limited	
185. 86422	M/s. Rushang Constructions Private Limited	
186. 88864	M/s. Riveria Properties and Investments Private Limited	

1	2	3
187. 86421	M/s. Rush Builders Private Limited	
188. 99930	M/s. Chamunda Impex Private Limited	
189. 127246	M/s. Tirupati Ice.Com Limited	
190. 75689	M/s. Hospicare Marketing Private Limited	
191. 88232	M/s. Anmol Prima Capital Private Limited	
192. 89076	M/s. Upbeat Securities Private Limited	
193. 95717	M/s. Paradigm Portfolio Private Limited	
194. 73047	M/s. Concept Enterprises Private Limited	
195. 121598	M/s. Mccoy Alumayer India Private Limited	
196. 130199	M/s. Maharashtra Telebuds Private Limited	
197. 58287	M/s. Rainbow Ballpens Private Limited	
198. 55161	M/s. Shantinath Investments Private Limited	
199. 56158	M/s. Bararsons Finstock Private Limited	
200. 121430	M/s. Kutch Container Terminal Private Limited	
201. 107654	M/s. Kunjvan Trade-Invest Private Limited	
202. 68516	M/s. Nagoya Investments and Finance Private Limited	
203. 62512	M/s. Eaglevalue Line Furniture Limited	
204. 129524	M/s. Docuonline Dot Com (India) Private Limited	
205. 73836	M/s. Sandesh Silk Mills Private Limited	
206. 95720	M/s. Avid Investment & Finance Private Limited	
207. 106129	M/s. Lipini Trading Private Limited	
208. 116786	M/s. Schniebolk Trading Private Limited	
209. 75775	M/s. Jord Finance Limited	
210. 79148	M/s. Leoraj Trading Private Limited	
211. 91884	M/s. Comic Inks & Varnish Private Limited	
212. 103982	M/s. Solid Plantations Private Limited	
213. 83839	M/s. French Fashion Private Limited	
214. 74667	M/s. Esteco Films Private Limited	
215. 124149	M/s. Royal Transformer Unit Private Limited*	
216. 89650	M/s. Faith Capital Private Limited	
217. 93224	M/s. Juhi Chawla Productions Private Limited	
218. 80083	M/s. Burnet Investments Private Limited	
219. 83838	M/s. Numero Uno Fashions Private Limited	

1	2	3	1	2	3
220.	128171	M/s. Garima Infotech Limited	248.	115691	M/s. Chabaldas & Sons (Hotels) Private Limited
221.	86392	M/s. Taramati Ramanlal Investment Private Limited	249.	67531	M/s. Associated Capital Services Private Limited
222.	129481	M/s. Orbit Lighting Towers Private Limited	250.	123162	M/s. Varnik Concepts.Com Private Limited
223.	119548	M/s. Informed Healthcare (India) Private Limited	251.	75168	M/s. Essel Realtors (New Bombay) Private Limited
224.	62292	M/s. Coronet Machine Tools & Accessories Private Limited	252.	97197	M/s. Trivedi Share & Stock Brokers Private Limited
225.	110189	M/s. Glean Export Private Limited	253.	83819	M/s. Esha Financial Consultancy Private Limited
226.	62561	M/s. Sanyog Fiscal Services Private Limited	254.	65373	M/s. Shrishail Hotels Private Limited
227.	132268	M/s. Shree Pancham Builders & Developers Private Limited	255.	126716	M/s. Shreedhan Web Services Private Limited
228.	59442	M/s. Hiralaxmi Investment & Trading Private Limited	256.	93698	M/s. Ambika Polycotspin Private Limited
229.	71542	M/s. Sumangal Gems & Jewellery Exports Private Limited	257.	112372	M/s. Lohia Textiles Machines Private Limited
230.	71466	M/s. Madhukar Sheth Trading Private Limited	258.	77413	M/s. Sulabha Consultants Private Limited
231.	101534	M/s. Taurus Video Films Private Limited	259.	128564	M/s. Weltex Cables (India) Limited
232.	114928	M/s. L. M. Z. Turbo Generators Private Limited	260.	104329	M/s. Kinjal Home Appliances Private Limited
233.	105332	M/s. Ganga Amrit Finance and Investment Limited	261.	103574	M/s. Kajal Home Appliances Private Limited
234.	83219	M/s. Kuber Twenty First Century Ads Private Limited	262.	57340	M/s. Asmita Garments Exports Private Limited
235.	59076	M/s. Prilem Investments Private Limited	263.	109925	M/s. Carpaul Developers Private Limited
236.	114008	M/s. Sanghi Equipments & Machineries Private Limited	264.	85247	M/s. Adino Trunklinks Limited
237.	111667	M/s. Gamcom Automation Private Limited	265.	106585	M/s. Broad-Vision Finance Private Limited
238.	98139	M/s. Power Instruments and Marketing Company Private Limited	266.	81481	M/s. Earth-Sense Projects Private Limited
239.	102359	M/s. Speedman Cargo Services Private Limited	267.	64766	M/s. Talisman Software Exports Private Limited
240.	112121	M/s. P. M. Stockbroking Private Limited	268.	79095	M/s. Gokul Electronics Private Limited
241.	91465	M/s. Mondala Agro-Chem Private Limited	269.	70346	M/s. Gangabaug Plantations & Resorts Private Limited
242.	91463	M/s. Samriti Fincap Private Limited	270.	78431	M/s. Naad Exports Private Limited
243.	87373	M/s. Tantum Polyblends Private Limited	271.	98691	M/s. Tokyo Housing and Investment Limited
244.	61308	M/s. Seeba Overseas Private Limited	272.	67825	M/s. Pinnacle Financial Services Private Limited
245.	77682	M/s. Urvashi Overseas Private Limited	273.	73025	M/s. Omavita Garments Private Limited
246.	128455	M/s. Santos Share & Brokers Private Limited	274.	109608	M/s. Mustvin Exports Private Limited
247.	124335	M/s. Maxgro.Com (India) Private Limited			

1	2	3	1	2	3
275.	87457	M/s. Astor Shipping Company Limited	302.	33366	M/s. Sublime Holding Private Limited
276.	105467	M/s. Prikarma Engineers Private Limited	303.	19093	M/s. Engel Poly-Pack Private Limited
277.	120595	M/s. Satin Chemicals Private Limited	304.	15251	M/s. Sumangal Electro-Mechanical Industry Private Limited
278.	100900	M/s. Astron Instrumentation Private Limited	305.	34911	M/s. Film Set Decorators Association of India
279.	32830	M/s. Yohan Trading Co. Private Limited	306.	52396	M/s. Koshynagar Housing Scheme Private Limited
280.	33014	M/s. Western India Sponge Iron Co. Limited	307.	37381	M/s. Stock Exchange maintenance and Services (Bombay) Private Limited
281.	48079	M/s. Atiqsons India Private Limited	308.	34159	M/s. Shree Raja Rajeshwari Investments Private Limited
282.	26927	M/s. Manpriya Consultants Private Limited	309.	27912	M/s. Deems Investments Private Limited
283.	51617	M/s. Harish Holding & Exports Private Limited	310.	47800	M/s. Akanksha Telecommunications Private Limited
284.	16216	M/s. Skania Engineers Private Limited	311.	19225	M/s. Impact Marketing Private Limited
285.	21101	M/s. Minicom Data Processors Private Limited	312.	51871	M/s. Transtech Services (Bombay) Private Limited
286.	24991	M/s. Vapi Garment Processors Private Limited	313.	50495	M/s. Sonik Oilfield Services Private Limited
287.	24978	M/s. Haria Steamship Private Limited	314.	43155	M/s. Ciardy Investments Private Limited
288.	65379	M/s. New Federal Engineers Private Limited	315.	34777	M/s. Patsons Rubber Industries Private Limited
289.	12252	M/s. Syntex Machine Co. Limited	316.	50418	M/s. Imaltex Exports Private Limited
290.	42586	M/s. South North Investment & Leasing Private Limited	317.	51327	M/s. Jitendra Pannalal & Company Private Limited
291.	19232	M/s. B. P. Musical Enterprises Private Limited	318.	43346	M/s. Mudra Holdings Private Limited
292.	97866	M/s. Gee Pee Management Consultancy Private Limited	319.	52019	M/s. Daco Freight (India) Private Limited
293.	16880	M/s. Silver Estates & Investments Private Limited	320.	54769	M/s. Kam Fabricators Private Limited
294.	41785	M/s. Bhatsa Valley Hills Resorts Private Limited	321.	125655	M/s. Dava Bazaar Online Limited
295.	34872	M/s. Styphen Plastic Products Private Limited	322.	30309	M/s. Fitex Investments Private Limited
296.	24541	M/s. Geeta Auto & Agro Industries Private Limited	323.	32684	M/s. Manhattan Exports Private Limited
297.	22171	M/s. Lehri Builders Private Limited	324.	98162	M/s. Nirmohi Trading Private Limited
298.	99231	M/s. Auto Chemicals and Consultancy Private Limited	325.	47302	M/s. Ana Textile Consultancy Private Limited
299.	12483	M/s. Pushpa Pictures Private Limited	326.	52589	M/s. R. Jayeshkumar & Company Private Limited
300.	18629	M/s. Hansi Detergents and Chemicals Private Limited	327.	18430	M/s. Speciality Plastics Private Limited
301.	47765	M/s. Body Guard Garments Manufacturing and Exports Limited	328.	23638	M/s. Thacker and Parmar Properties Private Limited
			329.	24018	M/s. Miammi Construction Co. Private Limited

1	2	3
330.	21918	M/s. Thackers Construction Company Private Limited
331.	38603	M/s. Media Audience Bombay Private Limited
332.	105944	M/s. Ratghunath Resorts Private Limited
333.	125126	M/s. T. S. P. L. (India) Private Limited
334.	21448	M/s. Royal Finance Private Limited
335.	31201	M/s. Rahimsons Investments Private Limited
336.	85965	M/s. Kalka Metals Trading Private Limited
337.	118632	M/s. Omega Infosys Private Limited
338.	53956	M/s. Laknar Investments & Trading Company Private Limited
339.	93309	M/s. Exxon Securities Private Limited
340.	134681	M/s. Om Gurukrupa (Anand Vihar Developers) Private Limited
341.	34022	M/s. Sadhwanis Video Lab Private Limited
342.	80915	M/s. Veera Construction & Suppliers Private Limited
343.	46945	M/s. Shagun Foods Private Limited
344.	119437	M/s. Fine Trap (India) Private Limited
345.	75833	M/s. Oyster Yarns Private Limited
346.	93802	M/s. Raju Builders Private Limited
347.	73662	M/s. Brisk Steels Private Limited
348.	75842	M/s. Akarshan Financial Services Private Limited
349.	76925	M/s. Saint Financial Services Private Limited
350.	75834	M/s. Suffron Foods Private Limited
351.	130883	M/s. Chaturvedi Luminaires Private Limited
352.	57098	M/s. Exclusive Jewels Private Limited
353.	91441	M/s. Meridien Credit Capital Private Limited
354.	85409	M/s. Sewagram Boards & Papers Limited
355.	54262	M/s. Siotiaweaving Mills Private Limited
356.	108813	M/s. Bhangadia Capital Services Private Limited
357.	132361	M/s. Manish Optical Company Private Limited
358.	15493	M/s. Nag Metal Cast Private Limited
359.	45391	M/s. Alison Rubber Private Limited
360.	31613	M/s. Arvind Marbles and Synthetics Private Limited
361.	33881	M/s. Manusukhani Steel Private Limited

1	2	3
362.	2426	M/s. The National India Development Company Limited
363.	26123	M/s. Seastar Shipping Services Private Limited
364.	30085	M/s. Sealord Shipping Services Private Limited
365.	34041	M/s. Satelind Ads Private Limited
366.	78359	M/s. Lombard Leafinvest Private Limited
367.	10597	M/s. Shri Sunrise Agriculture Corporation Limited
368.	26848	M/s. Jay Vandan Trading & Investment Private Limited
369.	26873	M/s. Jay Gunjan Trading & Investment Private Limited
370.	26814	M/s. Jay Shiva Trading & Investment Private Limited
371.	61524	M/s. Loya Marketing & Publication Private Limited
372.	65937	M/s. Nagpur Farma Remedies Private Limited
373.	26815	M/s. Jay Greeva Trading & Investment Private Limited
374.	26850	M/s. Jay Jeewan Trading & Investment Private Limited
375.	28052	M/s. Khub Containers Private Limited
376.	26817	M/s. Angha Trading & Investment Private Limited
377.	26849	M/s. Jay Bal Trading & Investment Private Limited
378.	26816	M/s. Ronuk Trading & Investment Private Limited
379.	73597	M/s. Abhaykumar Veg Oil Private Limited
380.	119234	M/s. Kay Food Products Packaging Private Limited
381.	103792	M/s. Deal Meipa Engineering Private Limited

V. A. VIJAYAN MENON
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act 1956 and of the following Companies

Mumbai-400 002, the 24th March 2006

No. 560(5)/2003.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day

been struck off from the Register of the Companies and the following Companies are dissolved:—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	26466	M/s. Aghadi Cement Factory Private Limited
2.	112269	M/s. Hrugved Holdings Private Limited
3.	19872	M/s. Jermin Investments Private Limited
4.	108979	M/s. Ronak Investments Private Limited
5.	11260	M/s. Joy Textiles Private Limited
6.	5477	M/s. Universal Textiles Private Limited
7.	11261	M/s. Cottext Private Limited
8.	23311	M/s. Trans Ammonia Private Limited
9.	38811	M/s. Pams Fruit Products Private Limited
10.	29682	M/s. Flamingo Holdings Private Limited
11.	28668	M/s. Hindukush Investments Co. Private Limited
12.	29683	M/s. Sabhaga Investments Co. Private Limited
13.	43282	M/s. Compaq Electro Systems Private Limited
14.	41143	M/s. Armech Hoists and Cranes Private Limited
15.	54411	M/s. Amma Lines Consulting Engineers Private Limited
16.	54410	M/s. Amma Lines Structural Engineers Private Limited
17.	17406	M/s. A. M. S. U. Chemtex Private Limited
18.	17076	M/s. Ulmic Beco Lamp Components Private Limited
19.	36766	M/s. Viva Marketing Private Limited
20.	22688	M/s. Marshall Farms Private Limited
21.	104685	M/s. Jasmin Hire Purchase & Leasing Private Limited
22.	116870	M/s. Jasmin Mutual Benefit Limited
23.	52144	M/s. Chembur Auto Repairer Private Limited
24.	33202	M/s. Sanjay Distilleries Private Limited
25.	99862	M/s. Maitreya Mills Private Limited
26.	67260	M/s. Kapeesh Building Materials Private Limited
27.	51515	M/s. Chartered Funds Private Limited

1	2	3
28.	47588	M/s. Novatec Specialities Private Limited
29.	52064	M/s. Alpic Factoring Private Limited
30.	53010	M/s. High Long Houses Developers Private Limited
31.	23863	M/s. Ultra Separation Technologies Private Limited
32.	54457	M/s. Grey Hound Business Systems Private Limited
33.	30580	M/s. C & A Fashions Private Limited
34.	30581	M/s. Picasso Hotels & Restaurants Private Limited
35.	12292	M/s. Shubhada Prints Private Limited
36.	92825	M/s. V. B. P. Agro Industries Private Limited
37.	93133	M/s. Prith Real Estate Developers Private Limited
38.	46444	M/s. Em Bee Polymers Limited
39.	24879	M/s. H. S. Drugs & Chemicals Private Limited
40.	118919	M/s. Pinku Motors Private Limited
41.	32115	M/s. Mandakini Trading Co. Private Limited
42.	31329	M/s. Hyprolin Phenolics Private Limited
43.	26064	M/s. Niyati Investments Private Limited
44.	67197	M/s. Hawai Chemicals Private Limited
45.	33217	M/s. Shree Kalan Gidhar Silk Mills Private Limited
46.	48625	M/s. Orion Machines Private Limited
47.	48753	M/s. Belle Vue Disposables Private Limited
48.	37445	M/s. Regulus Laboratories Private Limited
49.	38643	M/s. Harkisondass Financial Consultants Private Limited
50.	73982	M/s. Aster Leasing & Finance Private Limited
51.	51836	M/s. Veer Fabric Private Limited
52.	17307	M/s. Geeta Textiles Private Limited
53.	18147	M/s. Abhi Textiles Traders Private Limited
54.	114737	M/s. Micro Steel Heat Treaters Private Limited
55.	100247	M/s. High-Q Machine Tools Private Limited
56.	52173	M/s. Coforce Constructions Private Limited
57.	54980	M/s. Millinath Finance and Holdings Private Limited

1	2	3	1	2	3
58.	35436	M/s. Abro Industrial Agencies Private Limited	88.	21844	M/s. Laroz Investments Private Limited
59.	12247	M/s. New Karnataka Printing and Publishing House Limited	89.	48881	M/s. Aey Gee Cans & Containers Private Limited
60.	34213	M/s. Pee Kay Textile Private Limited	90.	26154	M/s. R. N. T. Builders Private Limited
61.	71934	M/s. Ramkrishna Hari Mainerals Private Limited	91.	47783	M/s. Elmech Hoists Private Limited
62.	24373	M/s. Lakshmi Pramod Engineering Industries Private Limited	92.	24193	M/s. Botraco Synthetics and Plastics Private Limited
63.	19996	M/s. Palit Puri and Sagrani Private Limited	93.	49961	M/s. Arjay Synthetics Private Limited
64.	27922	M/s. Navgire & Co. Private Limited	94.	20888	M/s. Texo Crimpe (India) Private Limited
65.	39254	M/s. Ravi-Raj Investments Private Limited	95.	90951	M/s. Kesar Alcohol Private Limited
66.	49472	M/s. Praful Trading Company Private Limited	96.	92422	M/s. Pennacle Finworth Limited
67.	41820	M/s. Vidarbh Refractories Private Limited	97.	37321	M/s. Creative Press Private Limited
68.	133535	M/s. Refsolar Private Limited	98.	42536	M/s. Ranyawala Builders & Developers Private Limited
69.	49062	M/s. Trimurti Instruments Private Limited	99.	35313	M/s. Creative Publications (Bombay) Private Limited
70.	17817	M/s. Orwo Films Western Unit Private Limited	100.	50504	M/s. Brajgandha Limited
71.	43770	M/s. Virat Transheat Private Limited	101.	32058	M/s. JaIna Dhatu Udyog Private Limited
72.	20232	M/s. Capsa Cans Private Limited	102.	54918	M/s. Lilawati Construction Private Limited
73.	19338	M/s. Central Colour Photo Lab Private Limited	103.	33618	M/s. Chandni Engineering Industries Private Limited
74.	41694	M/s. Shrijee Fabrics Private Limited	104.	37892	M/s. Express Track Sleepers Private Limited
75.	19017	M/s. Prime Rose Estates and Investment Private Limited	105.	31481	M/s. Jaskalian Caro Carriers Private Limited
76.	8543	M/s. Track Private Limited	106.	28471	M/s. Perfect Foods Private Limited
77.	47063	M/s. Mahalaxmi Farms Private Limited	107.	54974	M/s. Mahesh Shroff Investments and Finance Private Limited
78.	37982	M/s. Lalvin Trading & Investment Co. Private Limited	108.	34953	M/s. Bombay Modern Cleaners Private Limited
79.	70541	M/s. Rajkiran Nursing Home Private Limited	109.	36894	M/s. Mohammed Hassan Lari Investments Private Limited
80.	54225	M/s. Mikronix Metrological Instruments Private Limited	110.	17578	M/s. Natraj Cement Traders Private Limited
81.	34155	M/s. Brijween Finance Private Limited	111.	49148	M/s. Universal Anotech Private Limited
82.	45011	M/s. Patradha Fibreglass Products Private Limited	112.	40586	M/s. Surml Print Private Limited
83.	34147	M/s. Sahney Jasdeep Investments Private Limited	113.	21303	M/s. G.W. Carnnic (India) Private Limited
84.	33899	M/s. Sun Coating Private Limited	114.	11968	M/s. Doshen India Private Limited
85.	15900	M/s. R. R. Hotels Private Limited	115.	48253	M/s. Vidarbha Die Tools Private Limited
86.	37412	M/s. Welcome Productions Private Limited	116.	20825	M/s. Sanson Exports Private Limited
87.	66486	M/s. Suyash Drugs Private Limited	117.	42926	M/s. Sevak Ayat Niryat Co. Private Limited
			118.	73495	M/s. A1-Pine Travel Consultant and Marketing Private Limited

1	2	3
119.	52373	M/s. Raku Equipments Private Limited
120.	44036	M/s. Memory Devices Private Limited
121.	39519	M/s. Dube Trading Company Private Limited
122.	125248	M/s. Inland Compu Control Private Limited
123.	39015	M/s. Optima Engineers Private Limited
124.	27807	M/s. Prashanti Shipping Co. Private Limited
125.	27672	M/s. Vishrut Investments and Trades Private Limited
126.	49192	M/s. Shobha Paints Private Limited
127.	39751	M/s. Appu Synthetics Private Limited
128.	47312	M/s. Galaxy Section Formings Private Limited
129.	33623	M/s. Bell Handling Systems Private Limited
130.	49194	M/s. Bhatia Resin Industries Private Limited
131.	32808	M/s. Dorwyn Asia Metal Windows Private Limited
132.	39665	M/s. Buildaid (Bombay) Private Limited
133.	127160	M/s. Yogeshwar Chemicals Private Limited
134.	46504	M/s. West Coast Developers Private Limited
135.	27691	M/s. Asher Hotels Private Limited
136.	38659	M/s. Crusader Advertising & Marketing Private Limited
137.	31350	M/s. Everbright Transport Private Limited
138.	18871	M/s. Central Capacitors Co. Private Limited
139.	41534	M/s. Aglow Zout Private Limited
140.	46428	M/s. Universal Impex Private Limited
141.	126438	M/s. Ssan Properties Private Limited
142.	45217	M/s. Arondekar Art Studio Private Limited
143.	16067	M/s. Leema Chemicals and Cosmetics Private Limited
144.	19989	M/s. Debikay Engineering Industries Private Limited
145.	23741	M/s. Sherpur Medical Research Company
146.	23740	M/s. Ludhiana Medical Research Company
147.	52709	M/s. Semcon Concretes Private Limited
148.	27923	M/s. Barar Investment & Finance Private Limited
149.	20835	M/s. A C Padamsee Investment Company Private Limited

1	2	3
150.	98048	M/s. Paundra Investment Services Private Limited
151.	52879	M/s. Jam Electrical Industries Private Limited
152.	30207	M/s. Eastern Farms & Dairies Private Limited
153.	22176	M/s. Tristar Entertainment Systems Private Limited
154.	31427	M/s. Transack Systems Private Limited
155.	18950	M/s. M. H. Doshi Investment Agencies Private Limited
156.	119979	M/s. Web Employment Exchange Private Limited
157.	108162	M/s. Rotunda Medical Technologies Private Limited
158.	88686	M/s. Transmoon Securities Private Limited
159.	78491	M/s. Metropolitan Metal Accessories Private Limited
160.	104108	M/s. G.S. Engravers Private Limited
161.	79272	M/s. Bay City Capital and Finance Private Limited
162.	138431	M/s. Quality Matrix International Private Limited
163.	69808	M/s. Haria Paper Industries Limited
164.	101821	M/s. Aerolite Bags Private Limited
165.	131165	M/s. Sharp Signature Laminates Private Limited
166.	130130	M/s. Avantgrade Art Virtual Gallery Private Limited
167.	84045	M/s. Charlie Capital Services Limited
168.	131962	M/s. Entertainment Technologies (India) Private Limited
169.	59477	M/s. A-One Carriers Private Limited
170.	95815	M/s. Shree Oasiya Polymers Private Limited
171.	103523	M/s. Meta Caps & Components Limited
172.	124482	M/s. Profound Software & Hardware Solution Private Limited
173.	116296	M/s. A. G. P. Extrusion Private Limited
174.	90566	M/s. Neptune Satcoms Limited
175.	137185	M/s. Integrated Infoways Services (India) Private Limited
176.	118326	M/s. Healthcare Systems Private Limited
177.	132927	M/s. Shot in the Dark Films Private Limited

1	2	3	1	2	3
178.	73608	M/s. Megavision Consultancy Services Private Limited	208.	89157	M/s. Jugal Financial Services Private Limited
179.	105020	M/s. Swap Finance Private Limited	209.	68361	M/s. Mark Petrochem Limited
180.	92143	M/s. Girisons Manufacturing Company Private Limited	210.	89123	M/s. Jardine Chemicals Private Limited
181.	92126	M/s. Girisons Trading Private Limited	211.	99406	M/s. Angel Audio Video Limited
182.	111638	M/s. Moldex Alloys Limited	212.	84070	M/s. Prabal Garments Private Limited
183.	102977	M/s. Platinum Trading & Investment Private Limited	213.	90589	M/s. Rajat Nashik Leasing & Finance Private Limited
184.	98099	M/s. Selfin Motors Private Limited	214.	113655	M/s. Nasik Pipe House Private Limited
185.	121739	M/s. Philandro Electronics Private Limited	215.	110003	M/s. Doli Chambers Private Limited
186.	67724	M/s. Satnam Consultants Private Limited	216.	119297	M/s. Coral Shipmanagement Private Limited
187.	132766	M/s. Utsagar Shipping Company Private Limited	217.	92570	M/s. Frontal Design Solutions Private Limited
188.	56185	M/s. Shree Ghatandevi Roller Flour Mills Private Limited	218.	92154	M/s. Apparel Direction & Design (India) Private Limited
189.	85364	M/s. Carpel Investments & Trading Company Private Limited	219.	127869	M/s. B. S. E. Indices Limited
190.	85767	M/s. Marbella Trading and Investment Company Private Limited	220.	125390	M/s. Cornet Infotech Private Limited
191.	90889	M/s. Hevina Equisearch Private Limited	221.	100375	M/s. Prakash Chitralaya Motion Picture Producers Limited
192.	116200	M/s. Bizworld Impex Private Limited	222.	95222	M/s. Bafna Exports Private Limited
193.	77697	M/s. Kabra Management Consultants Private Limited	223.	127360	M/s. Ambit Services Private Limited
194.	132449	M/s. Kapleshwar Pictures Private Limited	224.	65853	M/s. Amough Trading Private Limited
195.	121154	M/s. Baldota Filtration Private Limited	225.	126957	M/s. Ashirwad Trade-Links Private Limited
196.	132524	M/s. Greycell Technologies Private Limited	226.	126550	M/s. ANTZ Books Private Limited
197.	125986	M/s. Meta Agents Technology Private Limited	227.	126267	M/s. Aarya Electronics Private Limited
198.	71115	M/s. Excellent Gems & Jewellery Private Limited	228.	123243	M/s. Raghavendra Print Systems Private Limited
199.	67746	M/s. Madhupuri Trading Company Private Limited	229.	76353	M/s. Pivotal Stoxare Limited
200.	99986	M/s. Silver Chick Farms Private Limited	230.	122238	M/s. Madhusudan Construwell Private Limited
201.	112530	M/s. Mak Desai Consultants Private Limited	231.	118730	M/s. Gite Stationers Private Limited
202.	84279	M/s. Manu Financial Services Private Limited	232.	111567	M/s. G. B. Buildcon Private Limited
203.	115332	M/s. Haresh Agencies (Transport) Private Limited	233.	65282	M/s. Forum Investment & Finance Private Limited
204.	56252	M/s. Shanu Holdings Private Limited	234.	65778	M/s. Denap Investment Private Limited
205.	56231	M/s. Probity Holdings Private Limited	235.	112705	M/s. Sapsoft (India) Private Limited
206.	55675	M/s. Sohansons Holdings Private Limited	236.	57696	M/s. Mittal Knitters Private Limited
207.	114667	M/s. Culinary Concepts (India) Private Limited	237.	110788	M/s. FX Palette Studio Private Limited
			238.	92430	M/s. Rachakhil Financial Services Private Limited
			239.	63292	M/s. Gayatri Fininvest Private Limited

1	2	3	1	2	3
240.	58731	M/s. Chitchor Investment and Finance Private Limited	272.	104838	M/s. Priyanka Tins Private Limited
241.	135941	M/s. Roshan Infotech Private Limited	273.	55072	M/s. Bonwit Investments Private Limited
242.	81907	M/s. Ashtel Merchandise Private Limited	274.	55980	M/s. Siddashmi Orgo-Chem Private Limited
243.	77360	M/s. Credence Traders Private Limited	275.	115818	M/s. Ritu Softech Private Limited
244.	107847	M/s. Glenmark Finlease Private Limited	276.	124470	M/s. Jairaj Construction Private Limited*
245.	107828	M/s. Glenmark Research Laboratories Private Limited	277.	85908	M/s. Navrang Tea Private Limited
246.	108664	M/s. Pauravi Exports Private Limited	278.	62015	M/s. Monolithic Concrete Products Private Limited
247.	117881	M/s. Chemarch Decor Private Limited	279.	88147	M/s. Mans Dairy and Food Processing Company Private Limited
248.	91014	M/s. Neel Finance Private Limited	280.	89048	M/s. Raybon Homes Private Limited
249.	104203	M/s. Ornus Investments Private Limited	281.	82079	M/s. Al-Zareen Import & Export Private Limited
250.	97807	M/s. Inlak Finvest Private Limited	282.	75548	M/s. Smita Medical Products Limited
251.	84472	M/s. Inika Trading Private Limited	283.	79320	M/s. Sarvottam Medicare Limited
252.	79481	M/s. Silverstrip Trading Private Limited	284.	110896	M/s. Conserve Electric Private Limited
253.	94908	M/s. Symphony Mercantile Private Limited	285.	78206	M/s. Falon Trading Private Limited
254.	94581	M/s. Clear Engineering Private Limited	286.	77531	M/s. Abhiyan Impex Private Limited
255.	87017	M/s. Vidhata Mercantile Private Limited	287.	74846	M/s. Ashim Fin (India) Private Limited
256.	94572	M/s. Core Tsrading Private Limited	288.	64764	M/s. Nigam Builders Private Limited
257.	117827	M/s. Ramses Holdings Private Limited	289.	78051	M/s. Orbit Steel Private Limited
258.	107767	M/s. Sanmesh Traders & Investors Private Limited	290.	81690	M/s. Marquis Air Links Private Limited
259.	56490	M/s. Manvesh Textiles Private Limited	291.	106286	M/s. Priyam Investment Consultants Limited
260.	93820	M/s. Shree Tirupati Ship Breakers Private Limited	292.	91732	M/s. Pushti Plastics Private Limited
261.	90081	M/s. Equus Financial Services Private Limited	293.	126300	M/s. CBM Infotech Private Limited
262.	63247	M/s. Excel Soaps and Detergents Private Limited	294.	60860	M/s. Rupashish Investments & Trading Private Limited
263.	79428	M/s. Hans Kavira Exports Private Limited	295.	81132	M/s. Sumnik Investment & Finance Company Private Limited
264.	68039	M/s. Adino Finance Limited	296.	78457	M/s. Steadyline Trading Private Limited
265.	67850	M/s. Eta Seating Private Limited	297.	125263	M/s. Nakoda Bhairav Securities Private Limited
266.	111042	M/s. Sarthak Communications Private Limited	298.	78205	M/s. Golden Jubilee Trading Private Limited
267.	127874	M/s. Slightly Off Centre Advertising (India) Private Limited	299.	80975	M/s. Frank Finances (Bombay) Private Limited
268.	93171	M/s. Maytag Securities Private Limited	300.	106096	M/s. Speco Chem Impex Private Limited
269.	106617	M/s. Delta Polyplast Private Limited	301.	107232	M/s. Innovative Decor Private Limited
270.	104987	M/s. Daron Graphix Private Limited	302.	129969	M/s. Hi-Tech Translines Private Limited
271.	75342	M/s. Hexagon Financial Services Limited	303.	129627	M/s. Lipi Infotech Private Limited

1	2	3	1	2	3
304.	76409	M/s. Mangalam Distributors Private Limited	333.	100495	M/s. And Precious Things Private Limited
305.	120437	M/s. Printwel Display Graphics Private Limited	334.	136572	M/s. Puja Web Technologies Private Limited
306.	109230	M/s. Shobhawat Financial Services Private Limited	335.	57791	M/s. Varun Plasto Pack Private Limited
307.	121957	M/s. Command.Com Consultants Private Limited	336.	82247	M/s. Hab Polypack Private Limited
308.	66024	M/s. Rana Roadways Private Limited	337.	119232	M/s. Adi Data (India) Private Limited
309.	68925	M/s. Ralish Investments Private Limited	338.	119462	M/s. Afrena Hotels Private Limited
310.	117045	M/s. Maxworth Polymers (India) Private Limited	339.	108585	M/s. Vishwa Projects Private Limited
311.	109773	M/s. Stucco Estate Development Private Limited	340.	88368	M/s. Speciality Pharma Limited
312.	111660	M/s. Black Horse Software Private Limited	341.	56485	M/s. Ankul Finstock Private Limited
313.	124846	M/s. Inland Infotek Limited	342.	116361	M/s. Vikram Maritime Private Limited
314.	90368	M/s. K. Rajkumar Textiles Private Limited	343.	95830	M/s. Samadhan Properties Private Limited
315.	116051	M/s. Jasli Farms & Resorts Private Limited	344.	121495	M/s. Vakratunda Land Developers Private Limited
316.	136256	M/s. Sunny Multimedia Private Limited	345.	94231	M/s. Haribhakrti Certification (India) Private Limited
317.	136942	M/s. Empire Gaming Solutions Private Limited	346.	68428	M/s. Gabula Electronics Private Limited
318.	136941	M/s. Sim Sim Gaming Solutions Private Limited	347.	116455	M/s. Ruchir Exim Trade Link Private Limited
319.	113570	M/s. Dipti Containers Private Limited	348.	85423	M/s. Spatlal Finvest Private Limited
320.	136946	M/s. Money Plant Gaming Solutions Private Limited	349.	67998	M/s. Jai Viraj Holdings & Investments Private Limited
321.	58700	M/s. J. Goda & Sons Traders & Supplier Private Limited	350.	95335	M/s. Trend Cotex Limited
322.	92979	M/s. Manhattan Fincap Private Limited	351.	112450	M/s. Sairaj Packaging Private Limited
323.	90559	M/s. Benchmark Erectors Private Limited	352.	117551	M/s. Saiyam Exports (Mumbai) Private Limited
324.	120298	M/s. Cema Management Consultants Private Limited	353.	108147	M/s. J. C. P. Software Private Limited
325.	120760	M/s. Omni Chem Tech Private Limited	354.	107676	M/s. Parniya Software Private Limited
326.	109441	M/s. Nurture Finance Limited	355.	107677	M/s. Niyatirth Software Private Limited
327.	61719	M/s. Madhudhan Trading and Investments Private Limited	356.	107011	M/s. Niyatirth Investments Private Limited
328.	136943	M/s. Sunny Gaming Solutions Private Limited	357.	55235	M/s. Perfect Magnet Private Limited
329.	131244	M/s. Royal Platinum Clubs Private Limited	358.	124159	M/s. Rama Paper Recycling Company Private Limited
330.	124631	M/s. K. M. Computers Private Limited	359.	55141	M/s. Dhandevi Finance & Holdings Private Limited
331.	80095	M/s. Singhanian Tex Private Limited	360.	109697	M/s. Rajco Floriculture Private Limited
332.	73499	M/s. Guest Link (India) Private Limited	361.	56273	M/s. Kulcharan Finstock Private Limited
			362.	57991	M/s. Purite Writing Instruments Private Limited
			363.	94934	M/s. Cheerful Investrade Private Limited
			364.	93629	M/s. Astrolite Investrade Private Limited
			365.	55157	M/s. Dhanshad Finance & Holdings Private Limited

1	2	3	1	2	3
366.	120674	M/s. Harihar Resorts Private Limited	396.	97124	M/s. Siddheswari Gems Private Limited
367.	64187	M/s. Shalimar Foundry Private Limited	397.	63037	M/s. Sumitra Water Treatment Engineers Private Limited
368.	60956	M/s. Aghadi Khandasari Private Limited	398.	83234	M/s. M. Jamnadas & Company Private Limited
369.	66615	M/s. Barar Chatons Private Limited	399.	90343	M/s. Konarak Fine Fab Private Limited
370.	56479	M/s. Nripraj Finstock Private Limited	400.	63809	M/s. Sureway Couriers Private Limited
371.	57816	M/s. Hanjer Silk Mills Private Limited	401.	127306	M/s. Surprasad Investments & Properties Private Limited
372.	125363	M/s. Pentachem Organics Private Limited	402.	127243	M/s. Hill Mill Investmeents & Properties Private Limited
373.	63825	M/s. Haji Vali Mohammad Kapadia Textiles Private Limited	403.	116265	M/s. Solar Tex Chem Private Limited
374.	90380	M/s. Piyush Real Estate and Finvest Private Limited	404.	127742	M/s. Power-e-Mark (India) Limited
375.	56157	M/s. Gyansagar Finstock Private Limited	405.	127109	M/s. Touchindia.com Private Limited*
376.	126234	M/s. D. Jayantilal Steels Private Limited	406.	125293	M/s. Global Itech Private Limited
377.	58284	M/s. Rite Point Writing Instruments Private Limited	407.	97818	M/s. Vijay Kothari (India) Financial Services Limited
378.	99026	M/s. Gemini Showbizz Private Limited	408.	87866	M/s. Baran Realty Private Limited
379.	82958	M/s. Miami Apparels Private Limited	409.	56363	M/s. Montgomery Transport Company Private Limited
380.	66593	M/s. Spark Capital Services Private Limited	410.	124460	M/s. Arogya.com Private Limited
381.	65604	M/s. Barar Portfolio Private Limited	411.	128195	M/s. Samprit Cyber Services Private Limited
382.	64642	M/s. Growell Chem-Pharm Private Limited	412.	64840	M/s. Anumaya Financial Services Private Limited
383.	86728	M/s. Shakti Print N Plast Private Limited	413.	100197	M/s. Maruti Leather Tanneries Private Limited
384.	85449	M/s. Inject Investment & Finance Private Limited	414.	56596	M/s. Kilobytes (India) Limited
385.	66286	M/s. Galaxy Finvest (Bombay) Private Limited	415.	121994	M/s. Etip Media Export Private Limited
386.	122241	M/s. Design Bay Strategies Private Limited	416.	125232	M/s. Jayesh Infotech Limited
387.	120185	M/s. Cosmic Trading & Mercantile Private Limited	417.	60111	M/s. Aboard Investment Company Private Limited
388.	89112	M/s. Silky Invstments Private Limited	418.	110704	M/s. Unizen Foods Private Limited
389.	120188	M/s. Neutral Trading & Mercantile Private Limited	419.	90718	M/s. N. V. S. Constructions & Trading Limited
390.	65986	M/s. Jaysun Plasto-Mech Engineering Limited	420.	108026	M/s. Alakh Securities & Estates Private Limited
391.	75587	M/s. Nautix Shipping (India) Limited	421.	125971	M/s. Domain9 India Limited
392.	106806	M/s. Mahamaya Advertising & Marketing Services Private Limited	422.	88183	M/s. Abacus Techno Commercial Services Private Limited
393.	93221	M/s. Daga Capital & Financial Services Limited	423.	63044	M/s. Trizak Finance Limited
394.	82459	M/s. Mjira Investments Private Limited	424.	99882	M/s. Racing Stars Finance & Investments Private Limited
395.	58787	M/s. Soldron Marketing Private Limited			

1	2	3
425.	131869	M/s. Dads Hotels & Resorts Private Limited
426.	90632	M/s. Harn Exports Private Limited
427.	59319	M/s. Five Star Housing Private Limited
428.	86478	M/s. Prakalp Mining Private Limited
429.	79383	M/s. Prakalp Overseas Cosntructions Private Limited
430.	128744	M/s. The-Ramp.com (India) Private Limited
431.	126574	M/s. Samta Tools and Bearings Private Limited
432.	67827	M/s. Novel Fire Protection Appliances Private Limited
433.	118835	M/s. Khandave Sabhagruha Private Limited
434.	69241	M/s. Ramshej Valley Agro Products Private Limited
435.	118843	M/s. Shrinathji Anodising & Engineering Private Limited
436.	59259	M/s. Speed Autoparts (Nasik) Private Limited
437.	57517	M/s. Tejodeep Hotels (Nasik) Private Limited
438.	121455	M/s. Hydro-Spare (India) Private Limited
439.	109877	M/s. Manthan Shipping Private Limited
440.	55276	M/s. Lekha Synthetics Private Limited
441.	86042	M/s. Pareek Trade Link & Exports Private Limited
442.	115492	M/s. Pioneer Sealing Devices Private Limited
443.	98886	M/s. Elite (Bombay) Developers Private Limited
444.	94759	M/s. Time Concept Private Limited
445.	66681	M/s. Kalina Trading & Securities Private Limited
446.	109196	M/s. Shyamsunder Consultancy & Marketing Private Limited
447.	80260	M/s. Elecon Investments Limited
448.	98918	M/s. Sonver Cable Private Limited
449.	67937	M/s. Shishir Financial Services Private Limited
450.	68941	M/s. Earnmore Share Services Private Limited
451.	70447	M/s. Parth Marketing and Export Consortium Private Limited
452.	93466	M/s. Deshnok Financial Services Private Limited

1	2	3
453.	62506	M/s. Luharuka Snthetics Private Limited
454.	129909	M/s. Hypelab Consulting Private Limited
455.	95121	M/s. Pariniti Indentors Private Limited
456.	106464	M/s. Khascons Private Limited
457.	121584	M/s. Chicago Print & Publishing Private Limited
458.	71765	M/s. Khandesh Ispat Private Limited
459.	75366	M/s. Elite Realtors Private Limited
460.	89524	M/s. Espee Mercantile Private Limited
461.	65661	M/s. Omel Interiors Private Limited
462.	137020	M/s. Om D2C Applications Private Limited
463.	114330	M/s. Minex Minerals (India) Private Limited
464.	97737	M/s. Quasar Cards & Systems Company Limited
465.	80748	M/s. Balaji Metal-Treat Private Limited
466.	89334	M/s. Janambhoomi Portfolio Private Limited
467.	135035	M/s. Convergence Media (India) Private Limited
468.	117681	M/s. Anmol Services Private Limited
469.	57139	M/s. Compu-Rite (India) Private Limited
470.	102188	M/s. Chemtreat Atlas India Limited
471.	63327	M/s. Arnkay Die-Casting Industries Private Limited
472.	56947	M/s. Anap Impexo and Consultants Private Limited
473.	78383	M/s. Al Fatah Shipping Limited
474.	130080	M/s. Giriraj Freight Carriers Private Limited
475.	115460	M/s. Advantech Consulting Resources India Private Limited
476.	101198	M/s. Switchart (India) Private Limited
477.	104612	M/s. Magran Finance Private Limited
478.	124015	M/s. A. J. Marketing Private Limited
479.	130117	M/s. Equest Solutions Bombay Private Limited
480.	95099	M/s. Hi-Tej Credits and Securities Private Limited
481.	102056	M/s. Shubhayog Traders Private Limited
482.	62854	M/s. Svan Communications Private Limited
483.	111099	M/s. Barkat Industrial & Commercial Investments Limited
484.	119575	M/s. Kotak Engineering Private Limited

1	2	3
485.	96821	M/s. Shelter Housing Development & Investment Company Limited
486.	111465	M/s. Caravan Trading & Exports Limited
487.	66551	M/s. Roni Medichem Private Limited
488.	81444	M/s. Unimark Engineers Private Limited
489.	115657	M/s. Albama Hospitalities Private Limited
490.	113048	M/s. Albama Leisures Private Limited
491.	112943	M/s. Cigacorp Tobacco Traders Private Limited
492.	98012	M/s. Roopam Ready to Wear Limited
493.	102518	M/s. Samarth Foundation and Construction Private Limited
494.	89834	M/s. General Paper Plast Limited
495.	89293	M/s. Zalak Enterprises Limited
496.	91307	M/s. Avkash Shipping Limited
497.	96833	M/s. Falak Finance & Investment Company Limited
498.	128146	M/s. Krishna Dotcoms Private Limited
499.	91814	M/s. Rajputana Shares Broking Private Limited
500.	104833	M/s. Jan Pragati Investment Company Limited

V. A. VIJAYANMENON
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Peeteek Engineers & Constructors Private Limited
Kolkata-700 020, the 22nd March 2006

No. IPC/560/Pvt./39848.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Peeteek Engineers & Constructors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

NAUBAT SINGH
Dy. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sahu Enterprises Private Limited
Kolkata-700 020, the 22nd March 2006

No. IPC/560/Master File/Vol. I/81367.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 the name of the M/s. Sahu Enterprises Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and is dissolved.

NAUBAT SINGH
Dy. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Glamour Pictures Private Limited
Kolkata-700 020, the 22nd March 2006

No. IPC/560/Master File/Vol. I/33973.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 the name of the M/s. Glamour Pictures Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and is dissolved.

NAUBAT SINGH
Dy. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Medicos Enterprises Private Limited
Kolkata-700 020, the 22nd March 2006

No. IPC/560/Master File/Vol. I/85061.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 the name of the M/s. Medicos Enterprises Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and is dissolved.

NAUBAT SINGH
Dy. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. AXS India Private Limited
Kolkata-700 020, the 22nd March 2006

No. IPC/560/Master File/Vol. I/85240.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 the name of the M/s. AXS India Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and is dissolved.

NAUBAT SINGH
Dy. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mehrotra Enterprises Private Limited
Kolkata-700 020, the 22nd March 2006

No. IPC/560/Master File/Vol. I/86174.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 the name of the M/s. Mehrotra Enterprises Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and is dissolved.

NAUBAT SINGH
Dy. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Global Vision Services Limited

Bangalore, the 14th March 2006

No. ROCB/TA/SUK/560(5)/18252/2006.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 the name of the M/s. Global Vision Services Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Prithvi Minerals India Private Limited

Bangalore, the 14th March 2006

No. ROCB/TA/SUK/560(5)/24603/2006.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 the name of the M/s. Prithvi Minerals India Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Indo-Overseas Marine Private Limited

Bangalore, the 14th March 2006

No. ROCB/TA/SUK/560(5)/16887/2006.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 the name of the M/s. Indo-Overseas Marine Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies:

Bangalore, the 2006

No. CVS/560(3) SES/2005.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that on expiry of three months from the date hereof, the names of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	11803	M/s. Vedavathi Sericulture Private Limited
2.	1474	M/s. Mysore Advertising Company Private Limited
3.	10219	M/s. Raj & Raj Plastic Company Private Limited
4.	1390	M/s. Sri Mukambika Agriculture Estates & Forest Industries Private Limited
5.	7751	M/s. G. R. P. Investments & Financial Management Services Private Limited
6.	9972	M/s. O. B. M. Marketing Private Limited
7.	7479	M/s. Kalyan Soft Drinks Private Limited
8.	8659	M/s. Arsikere Construction Private Limited
9.	8995	M/s. Anamak Technologies Private Limited
10.	3935	M/s. Kalpana Constructions Private Limited
11.	7755	M/s. Maathru Trading Company Private Limited
12.	10607	M/s. Sowmya Consultancy Services Private Limited
13.	10776	M/s. Sysorex Productions Private Limited
14.	11908	M/s. Mictel Technology Private Limited
15.	9441	M/s. Langford Leather Products Private Limited
16.	11372	M/s. Vagdevi Chit Funds Private Limited
17.	9387	M/s. Kisha Tours & Travels Private Limited
18.	5463	M/s. Hotline Products Private Limited
19.	8372	M/s. Eneske Tiles (India) Private Limited
20.	5955	M/s. Padmasarathy Cylinders & Forgings Private Limited
21.	2826	M/s. Agro Services Private Limited
22.	6897	M/s. Cap Leo Consultancy Services Private Limited
23.	10477	M/s. Janaseva Printers & Publishers Private Limited
24.	2531	M/s. CMM Incense Products Private Limited
25.	6081	M/s. Vivekananda Cements Private Limited

1	2	3
26.	9029	M/s. SNG Furnace Products Private Limited
27.	9549	M/s. Sri Vidya Granite Tile Exports Private Limited
28.	8652	M/s. Sri Spoorti Domestic Products Private Limited
29.	7868	M/s. Cauvery Granites Private Limited
30.	9377	M/s. Cauvery Apparels Private Limited
31.	9207	M/s. Super Deep Well Pumps Private Limited
32.	8098	M/s. Hydrazine & Allied Chemicals Private Limited
33.	11860	M/s. Kosmos Educational Aids Private Limited
34.	9553	M/s. A. S. P. Promoters Limited
35.	6292	M/s. PV Consultants Private Limited
36.	9683	M/s. Tunga Sea Foods Private Limited
37.	11917	M/s. J. Super Serve Express, Parcel, Courier & Marketing Services Private Limited
38.	11226	M/s. Ponnur Granites Private Limited
39.	6001	M/s. Tabaste Processors Private Limited
40.	7156	M/s. Circa Engineering Private Limited
41.	10808	M/s. Brahmagiri Plantation Private Limited
42.	11330	M/s. Polar Cold Storage Private Limited
43.	11328	M/s. Himalaya Fruit Processing Private Limited
44.	2572	M/s. Imagine India Private Limited
45.	7222	M/s. Maxwell Foods Private Limited
46.	9004	M/s. MR Fruits Private Limited
47.	10229	M/s. Conquest Electronics Private Limited
48.	1965	M/s. Campi Engineers Private Limited
49.	10399	M/s. Povitre Resorts Private Limited
50.	6302	M/s. Model Nursing Home Private Limited
51.	5776	M/s. Akshaya Forge Private Limited
52.	8354	M/s. Paragon Leathers Private Limited
53.	7965	M/s. Punja Chemicals Private Limited
54.	2785	M/s. Amelcon Systems Private Limited
55.	8529	M/s. Bangalore Marines Limited
56.	5311	M/s. Pratibha Paper Mills Private Limited
57.	10063	M/s. Contact Marketing & Consultancy Services Private Limited

1	2	3
58.	8148	M/s. Mid Pak Tyres Private Limited
59.	888	M/s. Shevades Camera Works Limited
60.	2706	M/s. Multi Speed Hubs Limited
61.	11455	M/s. Seeta Granites & Granites Limited
62.	3997	M/s. Cozy Homes Private Limited
63.	10239	M/s. Sachevaran Marketing Consultants Private Limited
64.	9495	M/s. Data Talk Risk Management Private Limited
65.	9997	M/s. Kathyayini Hotels Private Limited
66.	9552	M/s. Koyenco Vegetable Oil Refinery Private Limited
67.	11402	M/s. Arpita Watch Case Private Limited
68.	7663	M/s. Bravura Fabrika Private Limited
69.	3875	M/s. Kailash Wood Industries Private Limited
70.	11170	M/s. Delta Batteries Private Limited
71.	535	M/s. Vikram Studios Labs Private Limited
72.	9311	M/s. Hebbar Leo Marketing Services Private Limited
73.	7168	M/s. MIT Associates Private Limited
74.	8632	M/s. Amaravanam Construction Company Private Limited
75.	9762	M/s. Ganesh Machine Tools Private Limited
76.	9980	M/s. Angel Chits Private Limited
77.	5388	M/s. Arochem (India) Private Limited
78.	5118	M/s. Kumar Ceramics Private Limited
79.	8726	M/s. Pathi Finance Private Limited
80.	3658	M/s. Sarad Bio-Chemicals Private Limited
81.	8565	M/s. Sapala Finance & Investments Private Limited
82.	3910	M/s. Delta Extrusions Private Limited

C. V. SAJEEVAN
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 a 1 of
M/s. Wellfits Private Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-0408.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that

at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Wellfits Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Meghana Investments and Financial Consultancy
Private Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-575.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Meghana Investments and Financial Consultancy Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Madhumati Investments Private Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-582.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Madhumati Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Madhumalini Investments Private Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-583.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Madhumalini Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shivghartha Shipping Private Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-1040.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shivghartha Shipping Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Goa Multiplus Private Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-1131.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Goa Multiplus Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nisusee Products Private Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-1136.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Nisusee Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dsouza Chemicals Private Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-1302.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Dsouza Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Balkrishna Packagers Private Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-1456.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Balkrishna Packagers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. CMM Commercials Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-1543.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. CMM Commercials Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Alisha Estates Private Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-1568.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Alisha Estates Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mangirish Securities and Investment Private
Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-1636.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that

at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Mangirish Securities and Investment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Meridean Agro Farm Private Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-1721.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Meridean Agro Farm Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Iris Growell Private Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-1722.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Iris Growell Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Arlissee Real Estate Private Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-1838.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Arlissee Real Estate Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sailent Hotels Private Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-1926.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sailent Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Amasco Marine Services Private Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-2005.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Amasco Marine Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Excellent Relations Private Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-2105.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Excellent Relations Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Intel Developments and Resorts Private Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-2257.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Intel Developments and Resorts Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Elnish Enterprises Private Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-2283.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Elnish Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sharang Innovations Private Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-2461.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sharang Innovations Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sunny Mosaic Tiles Private Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-2500.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sunny Mosaic Tiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dusk Beverages Private Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-2529.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Dusk Beverages Private Limited unless

cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Infoline India Private Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-2562.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Infoline India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tristar Motors Private Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-2573.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Tristar Motors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Goamart Private Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-2630.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Goamart Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Campus Computer Institute Private Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-2797.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Campus Computer Institute Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Fiemench Sugar Mills Private Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-2917.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Fiemench Sugar Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ganapati Rollings Private Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-3018.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Ganapati Rollings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mindspace Development Private Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-3030.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Mindspace Development Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sunrise Aviation Private Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-3118.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sunrise Aviation Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Draco Security Service Private Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-3254.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Draco Security Service Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hassan Stone Crushers Private Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-3342.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Hassan Stone Crushers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Separate Reality Entertainers Private Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-3344.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that

at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Separate Reality Entertainers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Easy Goan Holidays Private Limited

Panaji-403 001, the 14th March 2006

No. 24-3415.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Easy Goan Holidays Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Goa Industrial Trading and Contracting Company
Private Limited

Panaji-403 001, the 17th March 2006

No. 24-490.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Goa Industrial Trading and Contracting Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shamvi Electronics Company Private Limited

Panaji-403 001, the 17th March 2006

No. 24-821.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shamvi Electronics Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Alok Syndicate Private Limited

Panaji-403 001, the 17th March 2006

No. 24-977.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Alok Syndicate Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Patel's Flexprint (Goa) Private Limited

Panaji-403 001, the 17th March 2006

No. 24-1020.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Patel's Flexprint (Goa) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lara Shipping Private Limited

Panaji-403 001, the 17th March 2006

No. 24-1478.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Lara Shipping Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tancy Textiles Private Limited

Panaji-403 001, the 17th March 2006

No. 24-1692.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act,

1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Tancy Textiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Cybergate Networking Private Limited

Panaji-403 001, the 17th March 2006

No. 24-2051.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Cybergate Networking Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Osprey Infrastructure Private Limited

Panaji-403 001, the 17th March 2006

No. 24-2059.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Osprey Infrastructure Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Resicom Time Share Private Limited

Panaji-403 001, the 17th March 2006

No. 24-2311.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Resicom Time Share Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gauri Dairy Private Limited

Panaji-403 001, the 17th March 2006

No. 24-2319.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Gauri Dairy Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Goa Warehousing Private Limited

Panaji-403 001, the 17th March 2006

No. 24-2592.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Goa Warehousing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Alcotec Distilleries Private Limited

Panaji-403 001, the 17th March 2006

No. 24-2647.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Alcotec Distilleries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Peregrine Resorts Private Limited

Panaji-403 001, the 17th March 2006

No. 24-2688.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Peregrine Resorts Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Probyte Systems Private Limited

Panaji-403 001, the 17th March 2006

No. 24-2744.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Probyte Systems Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Raiyani Electronic and Electrical Private Limited

Panaji-403 001, the 17th March 2006

No. 24-2860.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Raiyani Electronic and Electrical Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kalanath Ceramics Private Limited

Panaji-403 001, the 17th March 2006

No. 24-3025.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Kalanath Ceramics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Veeyes Food and Beverages Private Limited

Panaji-403 001, the 17th March 2006

No. 24-3031.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the

name of the M/s. Veeyes Food and Beverages Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nandini Distillery and Wineries Private Limited

o Panaji-403 001, the 17th March 2006

No. 24-3129.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Nandini Distillery and Wineries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dedicated Achievers Network Marketing Private
Limited

Panaji-403 001, the 17th March 2006

No. 24-3222.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Dedicated Achievers Network Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Overseas Hyper Mart Private Limited

Panaji-403 001, the 17th March 2006

No. 24-3264.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Overseas Hyper Mart Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ternon Foods Private Limited

Panaji-403 001, the 17th March 2006

No. 24-3282.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Ternon Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Steyr Mannlicher Security Protections Private
Limited

Panaji-403 001, the 17th March 2006

No. 24-3330.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Steyr Mannlicher Security Protections Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Betts Tubes Private Limited

Panaji-403 001, the 17th March 2006

No. 24-3784.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Betts Tubes Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act 1956 and of the
following Companies :

Kochi-682 021, the 30th March 2006

No. 560(5)/SES-2005/1372/2005.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved:—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company	1	2	3
1	2	3			
			29.	6366	M/s. Skiltek Engineering and Constructions Private Limited
			30.	6389	M/s. Wielder Rubber Hawai Private Limited
			31.	6410	M/s. Janatha Treads and Rubbers Private Limited
			32.	6586	M/s. Guidance Enterprises Private Limited
			33.	6690	M/s. Newmac Stocks and Shares Private Limited
			34.	6811	M/s. Changalath Auto Emporium Private Limited
			35.	6893	M/s. Valappad Kuries Private Limited
			36.	6946	M/s. Faizal Chit Funds Private Limited
			37.	7045	M/s. Sahya Services and Distributors Private Limited
			38.	7200	M/s. Kara's Aqua Culture Private Limited
			39.	7352	M/s. Happy Holidays (Tours & Resorts) Private Limited
			40.	7486	M/s. Safegas Appliances Private Limited
			41.	7883	M/s. Mangala Roadways Private Limited
			42.	7893	M/s. Bloomark Resorsts and Exports Private Limited
			43.	7929	M/s. La Femme Garments Private Limited
			44.	8238	M/s. Chingam Kuries and Loans Private Limited
			45.	8327	M/s. Meriya Finance Company Private Limited
			46.	8355	M/s. Asok Marmo Mosaics Private Limited
			47.	8409	M/s. Guru Garments and Textiles Limited
			48.	8445	M/s. Kakkanatt Offset Printers Private Limited
			49.	8658	M/s. Trade Link Investment and Finance Private Limited
			50.	8770	M/s. Relations Advertising Private Limited
			51.	8831	M/s. Palm Court Hotels Private Limited
			52.	8868	M/s. Kairali Resorts Private Limited
			53.	8947	M/s. Morning Star Plantations Private Limited
			54.	9107	M/s. Calicut Photo Link Private Limited
			55.	9216	M/s. Swargam Tourist Home Private Limited
			56.	9258	M/s. Kairali Aqua Marine Private Limited
			57.	9332	M/s. Perinjelloor Construction Company Private Limited
1.	2536	M/s. Aroor Re-Rolling Mills Private Limited			
2.	2686	M/s. Priya Rubber Industries Private Limited			
3.	3404	M/s. Jaya Paints Private Limited			
4.	3679	M/s. K M M Estates Private Limited			
5.	3680	M/s. Vindhya Paints Private Limited			
6.	4134	M/s. Kissan Coffee Curing Works Private Limited			
7.	4177	M/s. Sterling Poly Containers Private Limited			
8.	4247	M/s. Narmada Construction Materials Private Limited			
9.	4455	M/s. Prompt Surveyors Private Limited			
10.	4488	M/s. Sreyas Finance & Investment (India) Limited			
11.	4994	M/s. Souparnika Pharmaceuticals Private Limited			
12.	5125	M/s. Mary Matha Machine Tools Private Limited			
13.	5144	M/s. Minna Rubbers Private Limited			
14.	5409	M/s. Benhur Investments (Bombay) Private Limited			
15.	5466	M/s. Nehru Centenary Hospitals Limited			
16.	5519	M/s. Arundale Rubbers Limited			
17.	5586	M/s. Aiswarya Cottages and Villas Private Limited			
18.	5652	M/s. J and J Hotels Private Limited			
19.	5872	M/s. Neelmal Garments Limited			
20.	5961	M/s. Indian Centrifuges Private Limited			
21.	5979	M/s. Monal Pictures Private Limited			
22.	6100	M/s. Travancore Laminations Private Limited			
23.	6154	M/s. J. B. Fabrics Private Limited			
24.	6181	M/s. Ashwathy Plastics Private Limited			
25.	6223	M/s. Malanadu Healthcare Project Private Limited			
26.	6267	M/s. Blocon Bricks Private Limited			
27.	6331	M/s. Varun Exports Private Limited			
28.	6350	M/s. Muvattupuzha Finance and Leasing Private Limited			

1	2	3	1	2	3
58.	9487	M/s. Bassam Distributon and Sales Private Limited	86.	11501	M/s. Manipal Permanent Benefit Fund (Emakulam) Limited
59.	9859	M/s. Viswabharath Offset Private Limited	87.	11502	M/s. Manipal Permanent Benefit Fund (Kannur) Limited
60.	9862	M/s. Indo Italian Ceramics Limited	88.	11503	M/s. Manipal Permanent Benefit Fund (Kottayam) Limited
61.	9883	M/s. Filcap Marketing Company Private Limited	89.	11504	M/s. Manipal Permanent Benefit Fund (Quilon) Limited
62.	9899	M/s. Reunion Chit Private Limited	90.	11505	M/s. Manipal Permanent Benefit Fund (Calicut) Limited
63.	10137	M/s. Warriam Builders and Promoters Private Limited	91.	11506	M/s. Manipal Permanent Benefit Fund (Kasargod) Limited
64.	10143	M/s. Unique Ventures Private Limited	92.	11578	M/s. Carlos Drugs and Surgicals Private Limited
65.	10208	M/s. J. K. M. Design Consortium Private Limited	93.	11665	M/s. Golden Loan Park Investors Private Limited
66.	10261	M/s. Info-Aztec Private Limited	94.	11720	M/s. Uksan Money Lenders Private Limited
67.	10314	M/s. Vajra Farm Housing and Resorts Private Limited	95.	11735	M/s. Divergent Business Info-Tech Solutions Private Limited
68.	10361	M/s. Golden City Kuries and Loans Private Limited, Kodungallur	96.	11740	M/s. Sahya Herbal Extracts Private Limited
69.	10417	M/s. Expert Lines Enterprises Private Limited	97.	11779	M/s. Veejay Imports and Exports Kerala Private Limited
70.	10510	M/s. Zee Tech Private Limited	98.	11825	M/s. Thathwamasi Marketing (India) Limited
71.	10655	M/s. Kanso Credits and Investments Private Limited	99.	11855	M/s. Kureethadam Business Ventures Private Limited
72.	10692	M/s. Maha Shakthi Agro Metals Private Limited	100.	11891	M/s. Argm Software Solutions Private Limited
73.	10838	M/s. Silaire Investments and Hire Purchases Private Limited	101.	12145	M/s. Akshay Studios Private Limited
74.	10861	M/s. Regentspin Private Limited	102.	12275	M/s. Oceanic Tours and Travels Private Limited
75.	10922	M/s. Mullurkara Kuries and Loans Private Limited	103.	12318	M/s. Amex Recyclers Limited
76.	10923	M/s. Maha Janapriya Kuries and Loans Private Limited	104.	12327	M/s. Siraj Trading Company Private Limited
77.	10939	M/s. Golden Line Constructions Private Limited	105.	12379	M/s. Leon Engineering Company Private Limited
78.	10974	M/s. Anand Trans-Systms Private Limited	106.	12467	M/s. Layton Solar System India Private Limited
79.	10978	M/s. Dream City India Private Limited	107.	12508	M/s. Classic Edibles Private Limited
80.	11245	M/s. Options Business Supports Private Limited	108.	12649	M/s. Gazal Super Market Company Limited
81.	11299	M/s. Telematics Studio Private Limited	109.	12756	M/s. Bodygear Fitness Equipment Private Limited
82.	11332	M/s. Merry Cook Private Limited	110.	12767	M/s. Millennium Technologies and Systems Private Limited
83.	11365	M/s. Victron Coatings India Private Limited			
84.	11407	M/s. Manalody Super Bazar Private Limited			
85.	11452	M/s. Microtek Institute of Software Technology (India) Private Limited			

1	2	3			
111.	12848	M/s. Ezee Export Company Private Limited	126.	14248	M/s. Navalokam Printing and Publishing Company Limited
112.	12954	M/s. W. P. G. Aqua Park Traders Private Limited	127.	14429	M/s. Kim Tours and Travels Private Limited
113.	12982	M/s. Vidya Civil and Structural Private Limited	128.	14513	M/s. Antech Computers Private Limited
114.	13024	M/s. Bhima Software Technologies Private Limited	129.	14550	M/s. Carewell Speciality Hospital Private Limited
115.	13119	M/s. Dhanya Software Education Private Limited	130.	14630	M/s. Zambezi Tradeway Super Bazar Private Limited
116.	13223	M/s. Needs Medical Equipments Private Limited	131.	14633	M/s. Mudappilavu Jewellers Private Limited
117.	13277	M/s. Sun Line Kerala Private Limited	132.	15094	M/s. Bomker Traders Private Limited
118.	13313	M/s. Akshay Broadcast and Services Private Limited	133.	15586	M/s. Keralabhoomi Chitties Private Limited
119.	13332	M/s. Cetus Information Technology and Solutions Private Limited	134.	15622	M/s. Sip Commercial Company Private Limited
120.	13450	M/s. Oviyam Info Solutions and Technologies Private Limited	135.	15632	M/s. Tija Trading Private Limited
121.	13477	M/s. Lotus Car Links (India) Private Limited	136.	15647	M/s. Prince Rubber Foam Private Limited
122.	13930	M/s. Stargate Computers Private Limited	137.	15702	M/s. Pig Panry (India) Private Limited
123.	14035	M/s. Zion Engineers and Builders Private Limited	138.	15712	M/s. Grace Communications and Services Private Limited
124.	14156	M/s. Serene Foods and Beverages (India) Private Limited	139.	16053	M/s. Roadstone Tyres India Limited
125.	14221	M/s. Ever Green Infosys Private Limited	140.	16607	M/s. Signes De Route Private Limited
			141.	17078	M/s. Alternative Farm Private Limited
			142.	17178	M/s. Parimal Ayurvedics Private Limited

S. M. AMEERUL MILLATH
Registrar of Companies
Kerala